

प्रकाशक : कृष्णदास रामदास पोरवाल, साहित्य-सेवा-सदन, बनारस
मुद्रक : परेशनाथ घोष, सरला प्रेस, वाँसफाटक, बनारस

संवत् : २००६
मूल्य : ३)

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

हिन्दीकी सभी प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका एकमात्र पता :—

शारदा-साहित्य-सदन

आसुख

[१]

ज्ञान की कोरी बचनावली और योग की थोथी साधनावली का यदि साधारण लोगों में विशेष प्रचार हो तो अव्यवस्था फैलने लगती है। निर्गुण-पंथ ईश्वर की सबव्यापकता, भेदभाव की शून्यता, सब मतों की एकता आदि लेकर बड़ा जिस पर चलकर अपढ़ जनता ज्ञान की अनगढ़ बातों और योग के टेढ़े-मेढ़े अभ्यासों को ही सब कुछ मान बैठी तथा दंभ, अहंकार आदि दुवृत्तियों से उलझने लगी। ज्ञान का ककहरा भी न जाननेवाले उसके पारंगत पंडितों से मुँहजोरी करने लगे। अज्ञान से जिनकी आँखें बंद थीं वे ज्ञानचक्षुओं को आँख दिखाने लगे—

बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि ।

जानह ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डॉटि ॥

—‘मानस’

जैसे तुलसी के ‘मानस’ में यह लौकविरोधी धारा खटकी वैसे ही सूर की आँखों में भी। तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में और कड़ाई से इसका परिहार करने की ठानी। प्रबंध का क्षेत्र चुनने से उन्हें इसके लिए विस्तृत भूमि मिल गई। पर गीतों में सूर ने इसका प्रतिवाद प्रत्यक्ष नहीं, प्रच्छन्न रूप में किया। उन्होंने उद्धव-प्रसंग में ‘भ्रमरगीत’ के भीतर इसके लिए स्थान निकाला। उद्धव के योग एवं ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने ‘सूरसागर’ में किया वह सूर की योजना है। श्रीमद्भागवत में, जिसकी स्थूल कथा के पर ‘सूरसागर’ रचा गया, यह विधान है ही नहीं।

ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी-खोटी सुनाने का वृत्त तो यहाँ है पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं। ब्रज में उद्धव का केवल स्वागत-सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पड़ी। अतः यह तत्कालीन उद्वेगजनक प्रवृत्ति ही थी जिसका उच्छेद करने के लिए सूर ने 'सागर' की ये उत्ताल तरंगें लहराईं। ज्ञान या योग की साधना भली न हो, सो नहीं। वस्तुतः वह कठिन है, सामान्य विद्या-बुद्धिवालों की पहुँच से परे है। पक्ष में उद्धव ऐसे ज्ञान-वरिष्ठ पुरुष और विपक्ष में ब्रजवासिनी ऐसी ज्ञान-कनिष्ठ स्त्रियों को खड़ा करके सूर ने ज्ञान एवं योग का प्रतिरोध साधारण जनता की दृष्टि से किया। ज्ञान की ऊँची तत्त्वचिन्ता उनके लिए नहीं। ज्ञानयोग के प्रतिपक्ष में प्रेमयोग का मंडन करके यह प्रतिपन्न किया गया है कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की—
अहो अजान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञानरूप हमहीं ।

निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित तितहीं ॥

सूर ने ज्ञान या योगमार्ग को संकीर्ण, कठिन और नीरस तथा भक्तिमार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा है। ज्ञान या योग का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी वृत्ति समेटकर अंतर्मुख हो जाता है। इसलिए गुह्य, रहस्य एवं उलभन की वृद्धि होती है। पर भक्ति का अनुरागी वहिर्मुख रहता है। वह जगत् के विभूति-मत्, श्रीमत् और ऊर्जस्वित रूपों में अपनी वृत्ति रमाए रहता है। † इसलिए दुराव-छिपाव से दूर रहता है। उसके लिए सब

* ततस्ताः कृष्णसंदेशैर्व्यपेतविरहज्वराः ।

वं पूजयांचक्रुर्ज्ञात्वात्मानमघोक्षजम् ॥ आदि ॥

यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

द्वेधावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥—गीता

कुछ सुलभा हुआ है। इस प्रकार भक्ति का राजमार्ग चौड़ा, निष्कं-
टक और सीधा है। उसमें गोपन, रहस्य या उलभाव कहीं नहीं-
काहे को रोकत मारग सूधो।

सुनहु मधुप ! निर्गुन-कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ॥

× × × ×

राजपंथ तें टारि बतावत उरभ, कुबिल, कुपैँडो।

सूरजदास समाय कहाँ लौं अज के वदन कुम्हैँडो ॥

विश्व की विभूति में मन को रमाने का जैसा अवसर भक्तिभावना
में है वैसा अंतःसाधना में नहीं। कल्याण का मार्ग अंतर्व्यापी
नहीं, बहिर्व्यापी सत्ता से फूटता है—

दूरि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान।

निकसि क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान ॥

× × × ×

उर तें निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है।

सगुणोपासना साधार होती है, मन को रमाती है। निर्गुणो-
पासना निराधार होती है, मन को चक्कर में डालती है—

रूप रेख गुन जाति जुगुति त्रिनु निरालंत्र मन चककृत धावै।

सब विधि अगम विचारहि तातें सूर सगुन-लीला-पद गावै ॥

इसी से योग-साधना या निर्गुणोपासना नीरस कही गई है—

ए अलि ! कहा जोग में नीको।

तजि रस-रीति नंदनंदन की सिखवत निर्गुन फीको ॥

× × × ×

सूर कहौ गुरु कौन करै अलि ! कौन सुनै मत फीको।

सगुण-निर्गुण के विवाद से उद्धव प्रसंग इतना खिला कि
और भी कई समर्थ कवि उस पर रीमे। नंददास ने भी भाग्य
'भँवरगीत' गाया। उसकी टेकमिश्रित गीतजैली

विशिष्ट पद्धति ही मान ली गई है। इनका भ्रमरगीत शुद्ध मुक्तक न होकर पद्य-निबंध के ढंग पर चला है। इसलिए उसमें गोपी-उद्धव-संवाद सधा हुआ आया है। उत्तर-प्रत्युत्तर भी तर्कवद्ध रीति पर है। सूर के भ्रमरगीत की सी विविधता उसमें नहीं, पर निबंधरूप में होने से रसधारा का आनंद-प्रवाह अवश्य मिलता है। सूर के उद्धव की भाँति नंददास के उद्धव मौनाभ्यासी या अल्पभाषी नहीं है, भारी शास्त्रार्थी या विवादी हैं।

श्रीकृष्ण के वियोगवृत्त पर दो विशिष्ट रचनाएँ आधुनिक काल में भी प्रस्तुत हुई—एक रत्नाकर का 'उद्धव-शतक' और दूसरी सत्यनारायण कविरत्न का 'भ्रमर-दूत'। सूर के भ्रमरगीत में जो थोड़ी कमी थी वह 'उद्धव-शतक' में परिपूर्ण हो गई। कवित्त-शैली में कुछ नवीन उद्भावनाओं के साथ 'उद्धव शतक' प्रस्तुत करके रत्नाकर ने अपनी कवित्व-शक्ति का सच्चा परिचय तो दिया ही, लाक्षणिक प्रयोगों और व्यंजक विधि की कसावट से भाषा शक्ति का भी पूरा प्रमाण उपस्थित किया। इसमें भ्रमर का वृत्त नहीं आया है। 'भ्रमर-दूत' में देशप्रेम की भी व्यंजना करके कविरत्नजी ने उसे सामयिक रंग में बड़ी ही विदग्धता के साथ रंगा है। यशोदा या भारतमाता 'भ्रमर' को दूत बनाकर श्रीकृष्ण के पास द्वारका भेजती हैं। इसकी रीति नंददासवाली टेकमिश्रित है। इस प्रकार उद्धव एवं भ्रमर के वृत्तांत पर हिंदी में एक पृथक् ही वाङ्मय खड़ा हो गया है, जो बहुत ही रसीला और मर्मस्पर्शी है।

प्रस्तुत 'भ्रमरगीत' सूरसागर की सर्वोत्कृष्ट रत्नराजि है। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी ने सूरसागर को मथकर भ्रमरगीत-सागर चार सौ पदों में संचित किया था। संग्रह थोड़ा थोड़ा करके 'सूरसागर' में किया गया था और जैसे जैसे संग्रह होता जाता था

पुस्तक छपती जाती थी। इसी से इसमें कुछ पद पुनरुक्त हो गए और कुछ अस्थानस्थ। यहाँ तक कि एक पद संयोग-शृंगार का भी चिपका रह गया। पुस्तक का अधिक प्रचार हुआ और शुक्लजी के जीवनकाल में ही इसकी कई आवृत्तियाँ हो गईं। न तो प्रकाशक को पुनरावृत्ति रोक रखने का अवकाश मिला और न संपादक को उसकी पुनरावृत्ति करने का। फलस्वरूप पुस्तक प्रायः ज्यों की त्यों छपती रही। केवल थोड़ी सी छापे की वे अव्यवस्थाएँ दूर कर दी गईं जो पहली आवृत्ति होते ही ज्ञात हो गई थीं। अतः शुक्लजी जैसा चाहते थे वैसा परिष्कार करने की बारी ही नहीं आई।

काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय में यह ग्रन्थ पढ़ाते समय मुझे शुक्लजी से कई स्थानों पर विचार-विमर्श करने का भी सुअवसर प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत आवृत्ति के समय जब प्रकाशक ने मुझसे इसके उपसंपादन का अनुरोध किया तो मैंने शुक्लजी की नीति के अनुकूल इसमें कुछ उलट-फेर करने का दुस्साहस भी किया। फेर-फार करने में जो विशेषता आ गई हो उसे स्वर्गीय शुक्लजी का प्रसाद और जो त्रुटि बन पड़ी हो उसे मेरा ही प्रमाद समझना चाहिए।

छानबीन करने से निम्नलिखित पद संयोग-शृङ्गार का दिखाई पड़ा। अतः इसे हटा देना पड़ा—

देखु री, हरि जू के नैनन की छवि ।

यह अनुमान, मानि मन मानी अबुंज सेवत रवि ॥

खंजरीट अतिव्यथा चपल भए, बन मृग, जल मँह मीन रहे दवि ।

एते पै मानत न, कछू न कछू कहत हैं कुकवि ॥

इन से तो एई हरि, आवै न कछु फवि ।

सूरदास उपमा जु गईं सब ज्यों होमत हवि ॥

उद्धव-गोपी-संवाद के एक ही लंबे पद (संख्या ३७६) के टुकड़े हो गए थे और उनमें पृथक् पृथक् संख्याएँ लग गईं

ये संख्याएँ भी हटा दी गईं । पाँच पद दो दो वार छप गये थे । ये पुनरुक्त पद भी कम कर दिए गए । ग्रंथ में पहले कुल पद-संख्या ४०३ थी । उक्त परिशुद्धि से ११ संख्याएँ कम हो गईं और अब कुल पद-संख्या ३९२ ही रह गई । ८-६ पद नए जोड़कर ४०० या ४०१ पद-संख्या कर देने का विचार था, पर कई कारणों से ऐसा नहीं किया ।

भ्रमरगीत के कुछ पदों का आवश्यक अंश शुक्लजी ने अपनी भूमिका में भी उद्धृत किया है । मिलाने पर भूमिका और मूल के पदों में कहीं थोड़ा और कहीं विशेष पाठभेद दिखाई पड़ा । अधिकतर भूमिका के पाठ को ठीक मानकर जहाँ तक बन सका दोनों की एकरूपता स्थापित की गई । पदों में जो छापे की अशुद्धियाँ रह गई थीं उन्हें भी शुद्ध कर दिया गया । ब्रज में तालव्य 'श' नहीं होता इसलिए सर्वत्र दंत्य 'स' का ही व्यवहार किया गया है । पहले इस नियम का पालन कहीं था कहीं नहीं ।

पदों की दो-चार टिप्पणियों में मतभेद दिखाई पड़ा । इनमें कोई परिवर्तन न करके संपादक की मूल टिप्पणियों के नीचे दूसरे अक्षरों में नई टिप्पणियाँ अलग से लगा दी गई हैं । शुक्लजी की टिप्पणियों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोग और दिखाई पड़े जिनकी व्याख्या आवश्यक प्रतीत हुई । इसलिए 'चूँकि' नाम से पुस्तक के अंत में कुछ और टिप्पणियाँ भी जोड़ देनी पड़ीं । अब आशा की जा सकती है कि यह पढ़ने-पढ़ानेवालों के लिए सुगम हो गया होगा ।

ज्ञान की कथनी वाले संतों की 'बानी' में न साहित्य के प्राण हैं न शरीर । यदि कोई कहे कि साहित्य न सही, जीवन को तो इन संतों ने प्रभावित किया, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि पूरे जीवन को नहीं जीवन के अंश या अंगमात्र को ही निर्गुण की खँजड़ी मुग्ध कर सकी । निर्गुन-धारा निवृत्तिमुखी थी । पर भारतीय साहित्य निवृत्तिमुखी कभी नहीं रहा ; शांत को रस मानकर भी नहीं । भक्ति प्रवृत्तिमार्गी है, प्रवृत्तिलक्षण है यह बहुत पहले आरंभ में ही, घोषित कर दिया गया था—'प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः' । जो भक्ति को इतने पर भी निवृत्तिमार्गी समझते हों उन्हें शास्त्र-चिंतन का अभ्यास करना चाहिए ।

कबीर की अपनी उफली जीवनांश को ही चकित कर सकी, साहित्य उससे न प्रभावित हुआ, न शासित । कबीर की साधनात्मक रहस्योन्मुखी वृत्ति साधकों के ही काम की निकली, साहित्य अछूता ही रह गया । जीवन का जो अंश गुह्य-गोप्य से दृप्त हो रहा था भगवान् की लीला ने उसका रहस्योद्घाटन कर दिया । ज्ञान का गर्व विचूर्ण हो गया ; भक्ति ने माया का परदा हटा दिया । यदि यह कहा जाय कि क्या प्रेम की पीर वाले फकीरों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उत्तर होगा कि भारतीय जीवन को उसने प्रभावित नहीं किया । साहित्य के अंग या अंश मात्र को ही वह प्रभावित कर सका, शासित उतने को भी नहीं । प्रेम की रहस्यवादिनी प्रवृत्ति केवल सूफी फकीरों के ही जगती रही, भारतीय प्रेमाख्यानों की अरहस्योन्मुखी

प्रवाहित होती रही। हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में उसकी कोई कथा-कहानी, चर्चा-वार्ता हुई ही नहीं। होती भी कैसे, भारतीय-प्रेम-काव्यों की सरस्वती का प्रवाह वेष्टनों में छिपा जो पड़ा है। साहित्य का जो अंश सूफियों से प्रभावित हुआ उसकी खोज-खबर साहित्य के इतिहासों को नहीं। रीति-ग्रंथों के पहाड़ में वह साहित्यांश, वह स्वच्छंद स्रोत, दवा जो पड़ा है।

अब सगुणधारा के रामभक्ति और कृष्णभक्ति के स्रोतों को लीजिए। रामभक्ति-स्रोत के प्रवाहक महात्मा तुलसीदास उपदेश, नीति, मर्यादा आदि से संवलित वाणी का विसर्ग करते रहे। वे पूरे सामाजिक थे, समाज की उन्हें सर्वतोधिक चिंता थी। समाज या जीवन को उन्होंने जैसा प्रभावित किया, वैसा कोई न कर सका। तुलसी के राम रोम रोम में रम गए। पर क्या साहित्य में तुलसी की परंपरा चली। राम का चरित स्वयम् काव्य भले ही हो, पर रामचरित-मानस की परंपरा कहाँ है? जीवन ने उपदेशामृत का पान किया, पर साहित्य ऊँधने लगा। वह श्रद्धा का नहीं, शृङ्गार का आलंबन चाहता था,। वह 'मानस' से चलकर 'सागर' में जा डूबा। भक्तिकाल के उपरांत रीतिकाल या शृङ्गारकाल का आगमन हुआ। सूर के राधाकृष्ण घनश्याम काव्य के अक्षर-अक्षर में छा गए। जिन्हें शंका या अपडर होता वे बोल उठते—'आगे के सुकवि रीझिहैं तौ कविताई नतु राधिका-कन्हाई सुमिरन को वहानो है'।

तुलसी ने भगवान् का ऐश्वर्य-रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया; उसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर ने भगवान् का रस-रूप लिया; साहित्य सरस हो गया। तुलसी के मर्यादापुरुषोत्तम के समस्त समाज का शिर श्रद्धा से नत मन विश्वास से आश्वस्त है। सूर के लीलापुरुषोत्तम के साहित्य की वाणी नर्तित और आत्मा तल्लीन है।

हिंदी-साहित्य की भूमिका वृंदावन और पंचवटी में है अथवा 'शून्य महलिया' और 'दसवँ दुआर' में इसे सहृदय ही सोचें। साहित्य की आत्मा 'मानस' और 'सागर' से तरंगायित है अथवा 'बीजक' और 'अखरावट' से तरलायित इसे विज्ञ-अभिज्ञ ही विचारें।

x

x

x

'भ्रमरगीत-सार' के इस संस्करण में छूटी भूल-चूक सुधार दी गई है, 'चूर्णिका' में परिमार्जन कर दिया गया है तथा ८ पद (३९१ से ३६८ तक) जोड़कर संख्या पूरी ४०० कर दी गई है। ये पद बड़े कोष्ठक से घेर दिए गए हैं।

ब्रह्मनाथ, काशी
अनंत-चतुर्दशी, २००६

विश्वनाथप्रसाद मिश्र

विषय-क्रम सूची

१—वक्तव्य	१—२
२—महाकवि सूरदास (आलोचना)	१—७५
३—भ्रमरगीत-सार	१—१५५
४—घूर्णिका (अंत में)	१—१५



वक्तव्य

'भ्रमरगीत' सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है। समग्र सूरसागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण 'सूर' के हृदय से निकली हुई अपूर्व रसधारा के भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही लोग उठाते हैं। मैंने सन् १९२० में भ्रमरगीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए और उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया। पर कई कारणों से उस समय पुस्तक प्रकाशित न हो सकी। छपे फार्म कई बरसों तक पड़े रहे। इतने दिनों पीछे आज 'भ्रमरगीत सार' सहृदयसमाज के सामने रखा जाता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'सूरसागर' के जितने संस्करण उपलब्ध हैं उनमें से एक भी शुद्ध और ठिकाने से छपा हुआ नहीं है। सूर के पदों का ठोक पाठ मिलना एक मुश्किल बात हो रही है। 'वेंकटेश्वर प्रेस' का संस्करण अच्छा समझा जाता है पर उसमें पाठ की गड़बड़ी और भी अधिक है। उदाहरण के लिए दो पदों के टुकड़े दिए जाते हैं—

(क) अति मलीन वृषभानु-कुमारी ।

अधोमुख रहति, उर्ध्व नहिं चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ॥

(ख) मृग ज्यों सहत सहज सरदारन, सन्मुख तैं न टरै ।

समुक्ति न परै कौन सचु पावत, जीवत जाय मरै ॥

ये इस प्रकार छपे हैं—

(क) अलि मलीन वृषभानुकुमारी ।

अधोमुख रहत ऊर्ध्व नहिं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ॥

(ख) मग ज्यों सहत सहज सरदारन सन्मुख तैं न टरै ।

समुक्ति न परै कवन सच पावत जीवत

(२)

इस संग्रह में भ्रमरगीत के चुने हुए पद रखे गए हैं। पाठ, जहाँ तक हो सका है, शुद्ध किया गया है। कठिन शब्दों और वाक्यों के अर्थ फुटनोट में दिए गए हैं। सूरदास जी पर एक आलोचनात्मक निबन्ध भी लगा दिया गया है, जिसमें उनकी विशेषताओं के अन्वेषण का कुछ प्रयत्न है।

गुरुधाम, काशी
श्रीपंचमी, १९८२

}

रामचन्द्र शुक्ल

महाकवि सूरदासजी

हिन्दुओं के स्वातन्त्र्य के साथ ही साथ वीर-गाथाओं की परम्परा भी काल के अँधेरे में जा छिपी। उस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुँह से गाते और किन कानों से सुनते ? जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम और रहीम को एक बतानेवाली वानी मुरझाए मन को हरा न कर सकी; क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर एकेश्वरवाद का सुर मिला हुआ था जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आँखों देख रहे थे। सर्वस्व गँवाकर भी हिन्दू जाति अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी सभ्यता, अपने चिर-संचित संस्कार आदि की रक्षा के लिए राम और कृष्ण का आश्रय लिया; और उनकी भक्ति का स्रोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जिस प्रकार बंग देश में कृष्ण चैतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत में बल्लभाचार्यजी ने परम भाव की उस आनन्दविधायिनी कला का दर्शन कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन में सरसता का संचार किया। दिव्य प्रेम-संगीत की धारा में इस लोक का सुखद पत्र निखर आया और जमती हुई उदासी या खिन्नता बह गई।

जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष-धारा, जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति कोकिलकंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करी

के बीच फैल मुग्धाए मनो को सींचने लगी । आचार्यों की छापा लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर भक्तकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी । ये भक्त-कवि सगुण उपासना का रास्ता साफ करने लगे । निर्गुण उपासना की नीरसता और अग्राह्यता दिखाते हुए ये उपासना का हृदयग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए । इन्होंने भगवान् का प्रेममय रूप ही लिया; इससे हृदय की कोमल वृत्तियों के ही आश्रय और आलम्बन खड़े किए । आगे जो इनके अनुयायी कृष्ण-भक्त हुए वे भी उन्ही वृत्तियों में लीन रहे । हृदय की अन्य वृत्तियों (उत्साह आदि) के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण में ही मिल जाते; पर उनकी ओर वे न बढ़े । भगवान् का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एकदेशीय था—केवल प्रेममय था—पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि थी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने में उपयोगी हुआ । मनुष्यता के सौन्दर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी ।

बाल्य काल और यौवन-काल कितने मनोहर हैं ! उनके बीच नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदासजी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे । 'वात्सल्य' और 'शृंगार' के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं । इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे भाँक आए । उक्त क्षेत्रों के प्रवर्तक रति-भाव के भीतर की जितनी मानसिक और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर

सके, उतनी का और कोई नहीं। हिन्दी-साहित्य में शृंगार का रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने।

उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचनेवाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बँधकर चलनेवाली न थी। यदि हम सूर के केवल विप्रलम्भ शृंगार को ही लें, अथवा इस भ्रमर-गीत को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएँ ऐसी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। मैं इसी को कवियों की पहुँच कहता हूँ। यदि हम मनुष्य-जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं, तो सूरदासजी की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है। पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों (शृंगार और वात्सल्य) को लेते हैं, तो उनके भीतर उनकी पहुँच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अन्तर्दृष्टिविस्तार और किसी कवि का नहीं। बात यह है कि सूर को 'गीत-काव्य' की जो परम्परा (जयदेव और विद्यापति की) मिली, वह शृंगार की ही थी। इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानता रहा। दूसरी बात है उपासना का स्वरूप। सूरदास जी बल्लभाचार्यजी के शिष्य थे, जिन्होंने भक्तिमार्ग में भगवान् का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण द्वारा 'सायुज्य मुक्ति' का मार्ग दिखाया था। भक्ति-साधना के इस चरम लक्ष्य या फल (सायुज्य) की ओर सूर ने कहीं-कहीं संकेत भी किया है; जैसे—

सीत उष्ण सुख दुख नहिं मानै, हानि भए कछु सोच न राँचै ।

जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत में नाचै ॥

जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम-भाव की चरम सीमा आश्रय और आलम्बन की एकता है। अतः भगवद्भक्ति की साधना के लिए इ

कृष्णभक्त कवि इसी को लेकर चले । गो० तुलसीदासजी की दृष्टि व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक-पक्ष पर भी थी; इसी से वे मर्यादा-पुरुषोत्तम के चरित को लेकर चले ; और उसमें लोकरक्षा के अनुकूल जीवन की और और वृत्तियों का भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और अनुरंजन किया ।

उक्त प्रेमतत्त्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है । रति-भाव के तीनों प्रवल और प्रधान रूप—भगवद्विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य रति—सूर ने लिए हैं । यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति-भाव भी कृष्णोन्मुख होने के कारण तत्त्वतः भगवत्प्रेम के अन्तर्भूत ही हैं, पर निरूपण-भेद से और रचना-विभाग की दृष्टि से वे अलग रखे गए हैं । इस दृष्टि से विभाग करने से विनय के जितने पद हैं वे भगवद्विषयक रति के अन्तर्गत आवेंगे; बाललीला के पद वात्सल्य के अन्तर्गत और गोपियों के प्रेम-सम्बन्धी पद दाम्पत्य रति-भाव के अन्तर्गत होंगे । हृदय से निकली हुई प्रेम की इन तीनों प्रवल धाराओं से सूर ने बड़ा भारी सागर भरकर तैयार किया है ।

कवि-कर्म-विधान के दो पक्ष होते हैं—विभाव-पक्ष और भाव-पक्ष । कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है, जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जगाने में समर्थ होती हैं; और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है । एक विभाव पक्ष है, दूसरा भाव-पक्ष । कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं । जहाँ एक

का वर्णन रहता है, वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप में

लें, तो उसमें भी आश्रय का रति-भाव अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। भाव-पक्ष में सूर की पहुँच का उल्लेख ऊपर हो चुका है। सूरदासजी ने शृंगार और वात्सल्य ये ही दो रस लिए हैं। अतः विभाव-पक्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है, जो उक्त दोनों रसों के आलम्बन या उद्दीपन के रूप में आसकती हैं; जैसे राधा और कृष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएँ तथा करील-कुंज, उपवन, यमुना, पवन, चन्द्र, ऋतु इत्यादि।

विभाव-पक्ष के अन्तर्गत भी वस्तुएँ दो रूपों में लाई जाती हैं—वस्तु-रूप में और अलंकार रूप में; अर्थात् प्रस्तुत रूप में और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कि कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है। पहले वह कृष्ण के श्याम या नीलवर्ण शरीर को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, सिमत आनन को, हाथ में ली हुई मुरली को, सिर के कुंचित केश और मोर-मुकुट आदि को सामने रखता है। यह विन्यास वस्तु-रूप में हुआ। इसी प्रकार का विन्यास यमुना-तट, निकुंज की लहराती लताओं, चन्द्रिका, कोकिल-कूजन आदि का होगा। इनके साथ ही यदि कृष्ण के शोभा-वर्णन में घन और दामिनी, सनाल कमल आदि उपमान के रूप में वह लाता है, तो यह विन्यास अलंकार-रूप में होगा। वर्ये विषय की परिमिति के कारण वस्तु-विन्यास का जो संकोच 'सूर' की रचना में दिखाई पड़ता है उसकी बहुत कुछ कसर अलंकाररूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य द्वारा पूरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या सूर में कम, पर अलंकार-रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। यह दूसरे प्रकार की (आलंकारिक) रूप-योजना या व्यापार-योजना किसी (प्रस्तुत) रूप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है।

इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए, जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हों। सूर अलंकार-योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैं।

सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टि से लिए रूपों और व्यापारों के सम्बन्ध में सूर की पहुँच का विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट देखने में आती है कि प्रस्तुत रूप में लिए हुए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने कृष्ण और राधा के अंग-प्रत्यंग, मुद्राओं और चेष्टाओं, यमुना-तट, वंशीवट, निकुंज, गोचारण, वन-विहार, बाल-लीला, चोरी, नटखटी तथा कवि-परिपाटी में परिगणित ऋतु-सुलभ वस्तुओं तक ही अपने को रखा है।

इसके कारण दो हैं—पहली बात तो यह है कि इनकी रचना 'गीत-काव्य' है जिसमें मधुर ध्वनि-प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक भर काफ़ी होती है। गोस्वामी तुलसीदासजी के समान सूरसागर प्रबन्ध काव्य नहीं है, जिसमें कथाक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों की शृंखला जुड़ती चली चलती है। सूरदासजी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं; एक पद दूसरे पद से संबद्ध नहीं है। प्रत्येक पद स्वतन्त्र है। इसीसे किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पदों को यदि हम लेते हैं, तो एक ही घटना से सम्बन्ध रखनेवाली एक ही बात भिन्न-भिन्न रागिनियों में कुछ फेरफारके साथ बहुत से पदों से मिलती है, जिससे पढ़नेवाले का जी कभी-कभी ऊब सा जाता है। यह बात प्रकृत प्रबन्ध-काव्य में नहीं होती।

परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि जी ने जीवन की वास्तव में दो ही वृत्तियाँ ली हैं—बाल-पुरुषवृत्ति। इन दोनों के अन्तर्गत आए हुए व्यापार

क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं है। उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न-विस्तार नहीं है जिसके भीतर नई-नई वस्तुओं और व्यापारों का संनिवेश होता चलता है। लोक-संघर्ष से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है। उनकी रचना जीवन की अनेकरूपता की ओर नहीं गई है; बाल-क्रीड़ा, प्रेम के रंग-रहस्य और उसकी अतृप्त वासना तक ही रह गई है। जीवन की गम्भीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तु गम्भीर नहीं है जो गोस्वामीजी की रचनाओं में है। परिस्थिति की गम्भीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठें का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच पड़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर में राजसुख भोग रहे थे। सूर का वियोग-वर्णन वियोग-वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते-करते किसी कुंज या झाड़ी में जा छिपते हैं; या यों कहिए कि थोड़ी देर के लिए अन्तर्धान हो जाते हैं। वस गोपियाँ मूर्च्छित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी आँखों से आँसुओं की धारा उमड़ चलती है। पूर्ण वियोग-दशा उन्हें आ घेरती है। यदि परिस्थिति का विचार करें, तो ऐसा विरह-वर्णन असंगत प्रतीत होगा। पर जैसा कहा जा चुका है, सूरसागर प्रबन्ध-काव्य नहीं है, जिसमें वर्णन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग्य रहता है।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम स बालकृष्ण को ही थोड़ा बहुत देखते हैं। कृष्ण के के

चरित्र का प्रभाव नन्द, यशोदा आदि परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का बाललीला-वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण के छोटे-छोटे पैरों से चलने, मुँह में मक्खन लिपटाकर भागने या इधर-उधर नटखटी करने पर नन्द बाबा और यशोदा मैया का कभी पुलकित होना, कभी खीभना, कभी पड़ोसियों का प्रेम से उलाहना देना आदि बातें एक छोटे से जन-समूह के भीतर आनन्द का संचार करती दिखाई गई हैं। इसी बाल-लीला के भीतर कृष्णचरित का लोक-पक्ष अधिकतर आया है; जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथकर लोगों का भय छुड़ाना। इन्द्र के कोप से डूबती हुई वस्ती की रक्षा करने और नन्द को वरुण-लोक से लाने का वृत्तान्त यद्यपि प्रेमलीला आरम्भ होने के पीछे आया है, पर उससे संबद्ध नहीं है। कृष्ण के चरित में जो यह थोड़ा बहुत लोकसंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है जिस शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया उसके उत्कर्ष का अनुरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जिस ओज और उत्साह से तुलसीदासजी ने मारीच, ताड़का, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है उस ओज और उत्साह से सूरदासजी ने ब्रह्मासुर, अघासुर, कंस आदि के वध और इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते हैं, लोक-शत्रु या लोक-पीड़क के रूप में नहीं। रावण के साथी राक्षसों के समान वे ब्राह्मणों को चढ़ा-चढ़ाकर उनकी हड्डियों का ढेर लगानेवाले या स्त्री-

नहीं दिखाई पड़ते। उनके कारण वैसा हाहाकार नहीं

सुनाई पड़ता। उनका अत्याचार 'सभ्य अत्याचार' जान पड़ता है। शक्ति, शील और सौन्दर्य भगवान् की इन तीन विभूतियों में से सूर ने केवल सौन्दर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान् के लोक-रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिन्दी-साहित्य में गो० तुलसीदासजी ने की। श्रद्धा या महत्त्व बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्त्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही सूर की उपासना सख्य भाव की कही जाती है।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा वर्णित कृष्णचरित का जो थोड़ा बहुत सम्बन्ध दिखाई पड़ता है उसका सम्यक् स्फुरण नहीं हुआ है। रहा प्रेम-पक्ष; वह ऐकान्तिक है। सूर का प्रेम-पक्ष लोक से न्यारा है। गोपियों के प्रेम-भाव की गम्भीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान-गर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। वह भक्ति की एकान्त साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करती हुई जान पड़ती है, लोकधर्म के किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे प्रेम-मार्ग के त्याग और पवित्रता को ज्ञान-मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ हुए हैं; साथ ही उन्होंने उस त्याग को रागात्मिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्ति-मार्ग या प्रेम-मार्ग की सुगमता भी प्रतिपादित की है।

तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाववाले कर्म और लोक-व्यापिनी दशाएँ सूर ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान् का कृष्णवतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, शकटासुर आदि को हम लोक-पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल प्रलम्ब और कंस

पर देवताओं का फूल वरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है। पर वह वर्णन विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नन्द के घर की आनन्द-बधाई, बला-क्रीड़ा, मुरली की मोहिनी तान, रास-नृत्य, प्रेम के रंग-रहस्य और संयोग-वियोग की नाना दशाओं में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया है। कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं का फूल वरसाना देखकर उबते से हैं। उन्हें समझना चाहिए कि गोस्वामीजी ने राम के प्रत्येक कर्म को ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रित किया है, जिस पर तीनों लोकों की दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रास-लीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर केवल तमाशवीन की तरह।

सूरदासजी को मुख्यतः शृंगार और वात्सल्य का कवि समझना चाहिए, यद्यपि और रसों का भी एकाध जगह अच्छा वर्णन मिल जाता है; जैसे, दावानल के इस वर्णन में भयानक रस का—

भहरात भहरात दावानल आयो ।

वेरि चहुँ ओर, करि सोर अन्दोर बन धरनि आकास चहुँ पास छायो ।
वरत बन-बाँस, थरहरत कुस-कास, जँरि उड़त बहु भाँस, अति प्रबल घायो ।
भपटि भपटत लपट, फूल फूटत पटक, चटक लट लटक द्रुम फटि नवायो ।
अति अगिनि भार भंमार धुंधार करि उचटि अंगार भंभार छायो ।
वरत बनपात, भहरात, भहरात, अररात तरु महा धरनी गिरायो ॥

पर जैसा कहते आ रहे हैं, मुख्यता शृंगार और वात्सल्य ही है। पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे

बड़े हैं।

अतः तो रस की रचना की सामान्य दृष्टि से समीक्षा

हुई। अब इन महाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण हिन्दी-साहित्य में इनका स्थान इतना ऊँचा है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखनेवालों को उलभन में डालनेवाली होगी। सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परम्परा का—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलनेवाली परम्परा का मूल रूप नहीं।

यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो वह ब्रज की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रान्तों के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्य-भाषा अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है। सूर की भाषा विल्कुल बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है। 'जाकों', 'तासों', 'वाकों' चलती ब्रजभाषा के इन रूपों के समान ही 'जेहि', 'तेहि' आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है, जो अबधी की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक 'पै' का व्यवहार भी पाया जाता है; जैसे, 'जाहि लगे सोई पै जानै, प्रेम-वान अनियारो'। 'गोड़', 'आपन', 'हमार' आदि पूरबी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं; जैसे, मँहगी के अर्थ में 'प्यारी' शब्द। ये सब बातें व्यापक काव्य-भाषा के अस्तित्व की सूचना देती हैं।

अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिनमें सूर की प्रतिभा पूर्णतया लीन हुई है। कृष्ण-जन्म की आनन्द-वधाई के उपरान्त ही बाल-लीला का आरम्भ हो जाता है। जितने विस्तृत और विशद रूप में बाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है; कवि ने बालकों की अन्तः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुन्दर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए, 'स्पर्द्धा' का भाव, जो बालकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्यों से किस प्रकार व्यंजित हो रहा है—

मैया कवहिं बढ़ैगी चोटी ?

कित्ती वार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी ।

तू जो कहति 'बल' की वेनी ज्यों है है लॉनी मोटी ॥

बाल-चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भांडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूरसागर में है। दो-चार चित्र देखिए—

(१) कत हौ आरि करत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी ?

जो माँगहु सो देहुँ मनोहर, यहै बात तेरी खोटी ।

सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुटि लिए छोटी ॥

(२) सोभित कर नवनीत लिए ।

शुटरुन चलत, रेनु तन मंडित, मुख दधि-लेप किए ॥

सिखवत चलन जसोदा मैया ।

(४) पाहुनि करि दै तनक मह्यौ ।

आरि करै मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो ।

व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि भ्रँ ढरकि रह्यो ॥

हार-जीत के खेल में बालकों के 'दोष' के कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रखे हैं—

खेलत में को काको गोसैयाँ ।

हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैयाँ ॥

जाति-पाँति हमतें कछु नाहिं, न बसत तुम्हारी छैयाँ ।

अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे हैं बछु गैयाँ ॥

अब यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए कि इन बाल-चेष्टाओं का काव्य-विधान में क्या स्थान होगा। वात्सल्य रस के अनुसार बालक कृष्ण आलम्बन होंगे और नन्द या यशोदा आश्रय। अतः ये चेष्टाएँ अनुभाव के अन्तर्गत आती हैं; पर आलम्बनगत चेष्टाएँ उद्दीपन के ही भीतर आ सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है, कि ऐसी चेष्टाओं का स्थान भाव-विधान के ही भीतर है। उन्हें अलंकार-विधान के भीतर घसीटकर 'स्वभावोक्ति' अलंकार कहना मेरी समझ में ठीक नहीं।

बाल-लीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है, जो मनुष्य जाति की अत्यन्त प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय विषय रहा है। यवन देश (यूनान) के 'पशु-चारण काव्य' (Pastoral Poetry) का मधुर संस्कार युरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही जाता है। कवियों को आकषित करनेवाली गोप-जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। कृषि, वाणिज्य, आदि और व्यवसाय जो आगे चलकर निकले, वे जटिल हुए—उनमें उतनी स्वच्छन्दता न रही।

ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्भ में दिलीप को नन्दिनी के साथ वन-वन फिराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया है। सूरदासजी ने जमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुन्दर-सुन्दर दृश्यों का विधान किया है। यथा—

मैया री ! मोहिं दाऊ टेरत ।

मोकों वनफल तोरि देत हैं, आपुन गैयन वेरत ॥

यमुना-तट पर किसी बड़े पेड़ की शीतल छाया में बैठकर कभी सब सखा कलेऊ बाँटकर खाते हैं, कभी इधर-उधर दौड़ते हैं। कभी कोई चिल्लाता है—

द्रुम चढ़ि काहे न टेरत, कान्हा गैयाँ दुरि गई ।

धाई जाति सवन के आगे जे वृषभान दई ॥

‘जे वृषभान दई’ कहकर सूर ने पशु-प्रकृति का अच्छा परिचय दिया है। नए खूँटे पर आई हुई गाएँ बहुत दिनों तक चंचल रहती हैं और भागने का उद्योग करती हैं। इसी से वृषभानु की दी हुई गाएँ चरते समय भी भाग खड़ी होती हैं; और कुछ दूसरी गाएँ भी स्वभावानुसार उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं।

वृन्दावन के उसी सुखमय जीवन के हास-परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियाँ कृष्ण के दिन-दिन खिलते हुए सौन्दर्य और मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती हैं और कृष्ण कौमार अवस्था की स्वाभाविक चपलता-वश उनसे छेड़छाड़ करना आरम्भ करते हैं। हास-परिहास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम-व्यापार का अत्यन्त स्वाभाविक आरम्भ सूर ने दिखाया है। किसी की रूप-वन्दना सुन, या अकस्मात् किसी की एक झलक पाकर प्रिय-कर्मों हुए इस प्रेम का आरम्भ नहीं हुआ है।

नित्य अपने बीच चलते-फिरते, हँसते बोलते, वन में गाय चराते देखते-देखते गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं; सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विघ्न-बाधाओं को पार करने की लम्बी चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण और गोपियाँ पक्षियों के समान स्वच्छन्द हैं। वे लोक-बन्धनों से जकड़े हुए नहीं दिखाए गए हैं। जिस प्रकार के स्वच्छन्द समाज का स्वप्न अंगरेज कवि शेली देखा करते थे उसी प्रकार का यह समाज सूर ने चित्रित किया है।

सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। बाल-क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन-क्रीड़ा के सखा-सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव से साफ कहा है—“लरिकाई को प्रेम कहौ, अलि कैसे छूटै”। केवल एक साथ रहते-रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है। कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, दूसरे सुन्दरता में भी अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। बाल-क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन-क्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई है कि सन्धि का पता ही नहीं चलता। रूप का आकर्षण बाल्यावस्था से ही आरम्भ हो जाता है। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर ने रूप के आकर्षण द्वारा ही कही है—

(क) खेलन हरि निकसे ब्रज-खोरी ।

गए स्याम रवि-तनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी ।

औरक ही देखी तहँ राधा, नैन बिसाल, भाल दिए रोरी ।

सूर स्याम देखत ही रीके, नैन नैन मिलि परी ठगोरी ॥

(ख) वृभक्त स्याम, कौन तू, गोरी !

“कहाँ रहति, काकी तू वेठी ? देखी नाहि कहुँ ब्रज-खोरी” ॥

“काहे को हम ब्रज तन आवति ? खेलति रहति आपनी पौरी ।

सुनति रहति श्रवणन नँद-ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी” ॥

“तुम्हरो कहा चोरि हम लैहैं ? खेलन चलौ संग मिलि जोरी” ।

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि वातन भुइ राधिका भोरी ॥

इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का आरम्भ उभय पक्ष में सम है। आगे चलकर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उसमें कुछ विषमता दिखाई पड़ती है। कृष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से उनका वृत्तान्त सुनकर वे आँखों में आँसू भर लेते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण उपालम्भ दिया है उससे अनुराग की कमी ही व्यंजित होती है।

पहले कहा जा चुका है कि शृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की समता को और कोई कवि नहीं पहुँचा है। शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। वृन्दावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीडामय है और वह संपूर्ण क्रीडा संयोगपक्ष है। उसके अन्तर्गत विभावों की परिपूर्णता कृष्ण और राधा के अंग-प्रत्यंग की शोभा के अत्यन्त प्रचुर और चमत्कारपूर्ण वर्णन में तथा वृन्दावन के करील-कुंजों, लोनी लताओं, हरे-भरे कछारों खिली हुई चाँदनी, कोकिल-कुजन आदि में देखी जाती है। अनुभावों और संचारियों का इतना वाहुल्य और कहाँ मिलेगा ? पारांश यह कि संयोग-सुख के जितने प्रकार के क्रीडा-विधान सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ

तक कि कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं—जैसे, कृष्ण के कंधे पर चढ़कर फिरने का राधा का आग्रह—जो कम रसिक लोगों को अरुचिकर खैणता प्रतीत होगी ।

सूर का संयोग-वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है; प्रेम-संगीत-मय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अबगाहन करनेवाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता । राधा-कृष्ण के रंग-रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भांडार प्रतीत होता है । प्रेमोदय काल की विनोद-वृत्ति और हृदयप्रेरित हावों की छटा चारों ओर छलकी पड़ती है । राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में भी साथ हो जाता है, एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें नित्य न जाने कितनी हुआ करती हैं—

(क) करि ल्यो न्यारी, हरि, आपनि गैयाँ ।

नहिंन बसात लाल कछु तुम सों, सबै ग्वाल इक ठैयाँ ॥

(ख) धेनु दुहत अति ही रति वाढ़ी ।

एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहँ प्यारी ठाढ़ी ।

मोहन कर तें धार चलति पय, मोहनि-मुख अति ही छवि वाढ़ी ॥

(ग) तुम पै कौन दुहावै गैया ।

इत चितवत, उत धार चलावत, एहि सिखयो है मैया ?

यशोदा के इस कथन का कि बार बार तू यहाँ क्यों उत्पात मचाने आती है राधा जो उत्तर देती है उसमें प्रेम के आविर्भाव की कैसी सीधी और भोली भाली व्यंजना है—

बार बार तू ह्याँ जनि आवै ।

“मै कहा करौ सुतहिं नहिं बरजति, घर तें मोहि बुलावै ॥

मोसो कहत तोहिं विनु देखे रहत न मेरो प्रान ।

छोह लगत मोको सुनि बानी ; महरि ! तिहारी आन" ॥

कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वैसा और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग-वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनन्दोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। रासलीला, दानलीला, मानलीला इत्यादि सब उसी के अन्तर्भूत है। पीछे देव कवि ने एक 'अष्टयाम' रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया; पर वह अधिकतर एक घर के भीतर के भोग-विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह अनेकरूपता है और न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग।

आलम्बन की रूप-प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है, वह तो किया ही है, आश्रय-पक्ष में नेत्र-व्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियाँ बहुत अधिक हैं। रूप को हृदय तक पहुँचानेवाले नेत्र ही हैं। इससे हृदय की सारी अकुलता, अभिलाषा और उत्कंठा का दोष इन्हीं रूपवाहकों के सिर मढ़कर सूर ने इनके प्रभाव-प्रदर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कहीं इनकी न बुझनेवाली प्यास की परेशानी दिखाई है; कहीं इनकी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है। पीछे विहारी, रामसहाय, गुलाम नवी और रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुकरण किया, पर यहाँ तो भांडार भरा हुआ है। इस प्रकार के नेत्र-व्यापार-वर्णन आश्रय-पक्ष और आलम्बन-पक्ष दोनों में होते हैं। सूर ने आश्रय-पक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किए हैं; जैसे—

मेरे नैना त्रिरह की वेलि बई ।

सींचत नीर नैन के सजनी मूल पताल गई ॥

बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई ।

अब कैसे निरुवारों सजनी ! सब तन पसरि छई ॥

आलम्बन-पद्म में सूर के नेत्र-वर्णन उपमा-उत्प्रेक्षा आदि से
भरी रूप-चित्रण की शैली पर ही है जैसे—

देखि, री ! हरि के चंचल नैन ।

खंजन-मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एक सैन ॥

राजिवदल इंदीवर, सतदल कमल, कुसैसय जाति ।

निसि मुद्रित, प्रातहि वै बिगसत, ये बिगसत दिन राति ॥

अरुन असित सित भङ्गक पलक प्रति को वरनै उपमाय ।

मनौ सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥

आलम्बन में स्थित नेत्र क्या क्या करते हैं, इसका वर्णन
सूर ने बहुत ही कम किया है। पिछले कुछ कवियों ने इस पद्म में
भी चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ कही हैं। जैसे, सूर ने तो “अरुन,
असितसित भलक” पर गंगा, यमुना और सरस्वती को उत्प्रेक्षा
की है, पर गुलाम नबी (रसलान) ने उसी भङ्गक को यह कर्तूत
दिखाई है—

अमिय, हलाहल, मद भरे, स्वेत, स्याम, रतनार ।

जियत, मरत, भुकि भुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥

मुरली पर कही हुई उक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि
उनसे प्रेम की सजीवता टपकती है। यह वह सजीवता है, जो
भरे हुए हृदय से छलककर निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना रंग
चढ़ाती है। गोपियों को छेड़छाड़ कृष्ण हो तक नहीं रहती, उनकी
मुरली तक भी—जो जड़ और निर्जीव है—पहुँचती है। उन्हें
वह मुरली कृष्ण के सम्बन्ध से कभी इठलाती, कभी चिढ़ाती
और कभी प्रेम-गर्व दिखाती जान पड़ती है।

भावना से वे उसे कभी फटकारती हैं, कभी उसका भाग्य सराहती हैं और कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती हैं—

(क) माई री ! मुरली अति गर्व काहू बढति नहिं आज ।

हरि के मुख-कमल देखु पायो सुखराज ॥

(ख) मुरली तऊ गोपालहि भावति ।

सुन, री सखी ! जदपि नैदन्दहि नाना भाँति नचावति ।

राखति एक पायँ ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति ॥

आपुन पौढ़ि अधर-सजा पर कर-पल्लव सों पद पलुटावति ।

भृकुटी कुटिल, कोप नासापुट हम पर कोपि कुपावति ॥

हृदय के पारखी सूर ने सम्बन्ध-भावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया है। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण क्या, कृष्ण की मुरली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता है। हवा से लड़नेवाली खियाँ देखी नहीं, तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनकी जिदः दिलि की कद्र न की हो। मुरली के सम्बन्ध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं—आलम्बन के साथ किसी वस्तु की सम्बन्ध-भावना का प्रभाव तथा अत्यन्त अधिक या फालतू उमंग के स्वरूप। मुरली-सम्बन्धिनी उक्तियों में प्रधानता पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण उस समय देखने में आते हैं, जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर देख कभी ठोकर खाने पर कंकड़ पत्थर को दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते में पड़ती हुई पेड़ की टहनी पर भ्रूभंग सहित भुँभलाती है और कभी अपने किसी साथी को यों ही ढकेल देती है।

यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचित् न हो कि रूप पर मोहित होना, दर्शन के लिए आकुल रहना, वियोग में तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में जितना कहा गया है, उतना कृष्ण-पक्ष में नहीं। यह यहाँ के शृंगारी कवियों की—विशेषतः फुटकर पद्य रचनेवालों की—सामान्य प्रवृत्ति ही रही है। तुल्या-नुराग होने पर भी स्त्रियों की प्रेम-दशा या काम-दशा का वर्णन करने में ही यहाँ के कवियों का मन अधिक लगा है। पुराने प्रबन्ध-काव्यों में तो यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, पर पीछे के काव्यों में यह स्पष्ट झलकता है। वाल्मीकिजी ने रामायण में सीता-हरण के उपरान्त राम और सीता दोनों के वियोग-दुःख-वर्णन में प्रायः समान ही शब्द-व्यय किया है। कालिदास ने मेघदूत का आरम्भ यक्ष की विरहावस्था से करके उत्तर-मेघ में यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है। अतः मेरी समझ में शृंगार में नायिका की प्रेम-दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद्भागवत और ब्रह्मवैवर्तपुराण की कृष्णलीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, जिसमें एक ओर तो अनन्त सौन्दर्य की स्थापना की गई और दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया। पुरुष आलम्बन हुआ और स्त्री आश्रय। जनता के बीच प्रेम के इस स्वरूप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि क्या नगरों में, क्या ग्रामों में, सर्वत्र प्रेम के गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा। 'बनवारी' या 'कन्हैया' नायक का एक सामान्य नाम सा हो गया। दिल्ली के पिछले बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले तक को होली के दिनों में "कन्हैया" बनने का शौक हुआ करता था।

और देशों की फुटकर शृंगारी कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि के वर्णन की प्रधानता देखी जाती है। जैसे एशिया:

के अरब, फारस आदि देशों में वैसे ही युरोप के इटली आदि काव्य-संगीत-प्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही। इटली में पीटार्क की शृंगारी कविता एक प्रेमिक के हृदय का उद्गार है। भारत में कृष्ण-कथा के प्रभाव से नायक के आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्य-वासना की अधिक तृप्ति हुई। आगे चलकर पुरुषत्व पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। बहुतेरे शौर्य्य, पराक्रम आदि पुरुषोचित गुणों से मुँह मोड़ 'चटक मटक लटक' लाने में लगे—बहुत जगह तो माँग-पट्टी, सुरमे, मिस्सी तक की नौबत पहुँची ! युरोप में, जहाँ स्त्री प्रधान आकर्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुई, इसका उलटा हुआ। वहाँ स्त्रियों के वनाव सिगार और पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गया।

सूर के संयोग-दर्शन की बात हो चुकी। इनका विप्रलम्भ भी ऐसा ही विरुद्ध और व्यापक है। वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। आरम्भ वात्सल्य रस के वियोग-पक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नन्द और यशोदा दुःख के सागर में मग्न हो गए हैं। अनेक दुःखात्मक भावतरंगों उनके हृदय में उठती हैं। कभी यशोदा नन्द से खीझकर कहती है—

छाँड़ि सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गह्यो ।

फाटि न गई बज्र की छाती, कत यह सूल सह्यो ॥

इस पर नन्द यशोदा पर उलट पड़ते हैं—

तव तू मांखिोई करति ।

रिसनि आगे कहै जो आवत, अत्र लै भाँड़े भरति ॥

रोस कै कर दाँवरी लै फिरति घर घर धरति ।
कठिन हिय करि तव जो बाँध्यो, अन्न वृथा करि मरति ॥

यह 'भुँभलाहट' वियोग-जन्य है, प्रेम-भाव के ही अन्तर्गत है और कितनी स्वाभाविक है ! सुख-शान्ति के भंग का कैसा यथातथ्य चित्र है ! आगे देखिए, गहरी 'उत्सुकता' और 'अधीरता' के बीच 'विरक्ति' (निर्वेद) और तिरस्कार-मिश्रित 'खिभलाहट' का यह मेल कैसा अनूठा उतरा है । यशोदा नन्द से कहती है—

नंद ! ब्रज लीजै ठोंकि बजाय ।

देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राय ॥

'ठोंकि बजाय' में कितनी व्यंजना है ! 'तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; मैं तो जाती हूँ' । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है । एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है । श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है । इसे भाव-शबलता कहें या भावपंचामृत; क्योंकि एक ही वाक्य "नंद ! ब्रज लीजै ठोंकि बजाय" में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष इन तीनों की मिश्र व्यंजना—जिसे शबलता ही कहने से सन्तोष नहीं होता—पाई जाती है । शबलता के प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है ।

ग्वाल सखाओं की भी यही दशा हो रही है । कभी वे व्याकुल और अधीर होते हैं, कभी कृष्ण की निष्कुरता पर क्षुब्ध होकर कहते हैं—

भए हरि मधुपुरी-राजा, बड़े बंस कहाय ।
 सूत मागध वदत विरुदहि चरनि वसुधौ तात ॥
 राजभूषन अंग भ्राजत, अहिर कहत लजात ॥

वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिश्चय की 'शंका' तक न पहुँचती हुई भावना, 'दीनता' और दोष-जन्य 'उदासीनता' किस प्रकार इन वचनों से टपक रही है—

सँदेसो देवकी सों कहियो ।

हौं तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करति ही रहियो ॥

तुम तो टेव जानतिहि हैहौं तऊ मोहि कहि आवै ।

प्रात उठत मेरे लाल-लडैतहि माखन रोटी भावै ॥

कृष्ण राजभवन में जा पहुँचे हैं, यह जानते हुए भी यशोदा के प्रेमपूर्ण हृदय में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थी उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। रसमग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का अनुभव कर सकता है। केवल उदाहरण की लीक पीटनेवालों के भाग्य में यह बात कहाँ !

आगे चलकर गोपियों की वियोग-दशा का जो धारा-प्रवाह वर्णन है उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है। कौन गिना सकता है? संयोग और वियोग दो अंग होने से शृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है। इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरसागर को हम रससागर कहें तो वेखटके कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर सायं प्रभात तो उसी प्रकार होते हैं, पर "न गोपाल विना या तन की सबै बात वदली"। ब्रज में पहले काल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह

अब बाहर नहीं दिखाई पड़ता; पर मन से उसकी 'स्मृति' नहीं जाती—

एहि बेरियाँ बन तैं ब्रज आवते ।

दूरहिं तैं वह वेनु अघर धरि बारंवार बजावते ॥

संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें उठानेवाले प्राकृतिक पदार्थों को वियोग के दिनों में देखकर जो दुःख होता है उसकी व्यंजना के लिए कवियों में उपालम्भ की चाल बहुत दिनों से चली आती है। चन्द्रोपालम्भ-सम्बन्धिनी बड़ी सुन्दर कविताएँ संस्कृतसाहित्य में हैं। देखिए, सागर-मथन के समय चन्द्रमा को निकालनेवालों तक, इस उपालम्भ में, किस प्रकार गोपियाँ अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं—

या त्रिनु होत कहा अब सूनो ?

लै किन प्रगट कियो प्राची दिसि, त्रिरहिनि को दुख दूनो ?

सब निरदय सुर, असुर, सैल, सखि ! सायर सर्प समेत ॥

धन्य कहीं वर्षा ऋतु, तमचुर औ कमलन को हेत ।

जुग जुग जीवै जरा बापुरी मिलै राहु अरु केत ॥

इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिनी गोपियाँ अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृन्दावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं—

मधुवन ? तुम कत रहत हरे ?

विरह-वियोग स्यामसुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे !

तुम हौ निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे ।

ससा स्यार औ बन के पखेरु धिक धिक सबन करे ।

कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ?

इसी प्रकार रात उन्हें साँपिन सी लग रही है। साँपिन-पीठ काली और पेट सफेद होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि श्री

कर उलट जाती है, जिससे सफेद भाग ऊपर हो जाता है। वरसात की अँधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने से जो चाँदनी फैल जाती है वह ऐसी ही लगती है—

पिया त्रिनु साँपिनि कारी राति ।

कवहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी हूँ जाति ॥

इस पद पर न जाने कितने लोग लट्टू हैं।

सूरदासजी का विहार-स्थल जिस प्रकार घर की चार-दीवारी के भीतर तक ही न रहकर यमुना के हरे-भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्थलियों तक फैला है उसी प्रकार उनका विरह-वर्णन भी “वैरिन भइँ रतियाँ” और “साँपिन भइँ सेजिया” तक ही न रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुँचता है। मनुष्य के आदिम वन्य जीवन के परम्परागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करनेवाले इन शब्दों में कितना माधुर्य्य है— “एक वन ढूँढ़ सकल वन ढूँढ़ौं, कतहुँ न स्याम लहाँ”। ऋतुओं का आना जाना उसी प्रकार लगा है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता है। भिन्न-भिन्न ऋतुओं की वस्तुएँ देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती? जान पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं, जिधर कृष्ण वसते हैं। सब वृन्दावन में ही आ आ कर अपना अड्डा जमाती हैं—

मानौ, माई ! सबन्ह इतै ही भावत ।

अव वहि देस नंदनंदन को कोउ न समौ जनावत ॥

धरत न वन नवपत्र, फूल, फल, पिक वसंत नहिँ गावत ।

कोर सर सरोज अलि गुंजत, पवन पराग उड़ावत ॥

पावस त्रिविध वरन वर वादर उठि नहिं अंवर छावत ।
चातक मोर चकोर सोर करै, दामिनि रूप दुरावत ॥

अपनी अन्तर्दशा को ऋतु-सुलभ व्यापारों के बीच बिम्ब-प्रति-बिम्ब रूप में देखना भाव-मग्न अन्तःकरण की एक विशेषता है। इसके वर्णन में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भेद मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। “निसि दिन वरसत नैन हमारे” बहुत प्रसिद्ध पद है। विरहोन्माद में भिन्न-भिन्न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप में। उठते हुए वादल कभी तो ऐसे भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं—

देखियत चहुँदिसि तैं घन घोरे ।

मानौ मत्त मदन के हथियन बल करि बंधन तोरे ॥

कारे तन अति चुवत गंड मद, वरसत थोरे थोरे ।

रुकत न पवन-महावत हू पै, मुरत न अंकुस मोरे ॥

कभी अपने प्रकृत लोक-सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी लगते हैं—

बरु ये बदराऊ बरसन आए ।

अपनी अवधि जानि, नँदनंदन ! गरजि गगन घन छाए ॥

कहियत है सुरलोक बसत, सखि ! सेवक सदा पराए ॥

चातक कुल की पीर जानि कै, तेउ तहाँ तैं धाए ॥

तृन किए हरित, हरषि वेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ॥

‘बदराऊ’ के ‘ऊ’ और ‘बरु’ में कैसी व्यंजना है ! ‘वादल तक’—जो जड़ समझे जाते हैं—आश्रितों के दुःख से द्रवीभूत होकर आते हैं !

प्रिय के साथ कुछ रूप-साम्य के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं—

आजु धन स्याम की अनुहारि ।

उनै आए साँवरे ते सजनी ! देखि, रूप की आरि ॥

इंद्रधनुष मनो नवल वसन छवि, दामिनि दसन विचारि ।

जनु वग-पाँति माल मोतिन की, चितवत हितहि निहारि ॥

इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुःख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और यह फटकार सुनता है—

हैं तो मोहन के विरह जरी, रे ! तू कत जास्त ?

रे पापी तू पंखि पपीहा ! 'पिउ पिउ पिउ, अधिराति पुकारत ॥

सब जग सुखी, दुखी तू जल विनु, तऊ न तन की विथहि विचारत ।

सूर स्याम विनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलोज जनम विगारत ॥

और कभी समदुःखभोगी के रूप में अत्यन्त सुहृद् जान पड़ता है और समान प्रेम व्रत-पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत होता है—

बहुत दिन जीवौ, पपीहा प्यारो ।

बासर रैनि नाँव लै बोलत, भयो विरह-जुर कारो ॥

आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक नाम तिहारो ।

देखौ सकल विचारि, सखी ! जिय विछुरन को दुख न्यारो ॥

जाहि लगै सोई पै जानै प्रेम-वान अनियारो ।

सूरदास प्रभु स्वाति-बूँद लागि, तज्यो सिंधु करि खारो ॥

कान्य-जगत् की रचना करनेवाली कल्पना इसी को कहते हैं । किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अन्तर्वृत्ति जब उस भाव के

पोषक स्वरूप गढ़कर या काट छाँटकर सामने रखने लगती है तब हम उसे सच्ची कवि-कल्पना कह सकते हैं। यों ही सिरपच्ची करके—बिना किसी भाव में मग्न हुए—कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो वाक्तापन है, या दिमागी कसरत; सच्चे कवि की कल्पना नहीं। वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों उनके सम्बन्ध में यह देखना चाहिए कि वे किसी भाव की उमंग में उस भाव को सभालनेवाले या बढ़ानेवाले होकर आ खड़े हुए हैं या यों ही तमाशा दिखाने के लिए—कुतूहल उत्पन्न करने के लिए—जवरदस्ती पकड़ कर लाए गए हैं। यदि ऐसे रूपों की तह में उनके प्रवर्त्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाय तो समझिए कि कवि के हृदय का पता लग गया और वे रूप हृदय-प्रेरित हुए। अंगरेज़ कवि कालरिज ने, जिसने कवि-कल्पना पर अच्छा विवेचन किया है, अपनी एक कविता में ऐसे रूपावरण को आनन्द-स्वरूप आत्मा से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती है। जब तक यह रूपावरण (कल्पना का) जीवन में साथ लगा चलता है तब तक दुःख की परिस्थिति में भी आनन्दस्वप्न नहीं टूटता। पर धीरे-धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने लगता है। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक काव्य-मीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक समझ कर कह दिया है—“कल्पना आनन्द है” (Imagination is joy)†

* Dejection Ode, 4th April 1802.

† G. W. Mackale's Lectures on Poetry.

सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दोजिए, साधारण व्यवहार में भी लोग जोश में आकर कल्पना का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं वह भी किसी पहाड़ को 'शिशु' और 'पांडव' कहनेवाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होता है। किसी निष्ठुर कर्म करनेवाले को यदि कोई 'हत्यारा' कह देता है, तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है; क्योंकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी अन्तवृत्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिससे भाव की मात्रा के अनुरूप आत्मम्वन खड़ा हो जाता है। 'हत्यारा' शब्द का लक्षणािक प्रयोग ही विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है। उसके स्थान पर यदि कोई उसे 'बकरा' कहे, तो या तो किसी भाव की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं। कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को प्रस्तुत-वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। भारी मूर्ख को लोग जो 'गढ़हा' कहते हैं वह इसी लिए कि 'मूर्ख' कहने से उनका जी नहीं भरता—उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती।

कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार-विधान में उच्युक्त उपमान लाने में कल्पना ही काम करती है। जहाँ वस्तु, गुण या क्रिया के पृथक् पृथक् साम्य पर ही कवि की दृष्टि रहती है वहाँ वह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का सहारा लेता है और जहाँ व्यापार-समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है वहाँ दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास और अन्योक्ति का। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के मेल में जो अप्रस्तुत रखा जाये—चाहे वह वस्तु गुण या क्रिया हो अथवा व्यापार-कारण पाकतिक और चित्ताकर्षक हो तथा उसी प्रकार

का भाव जगानेवाला हो जिस प्रकार का प्रस्तुत । व्यापार-समष्टि के समन्वय में कवि की सहृदयता का जिस पूर्णता के साथ हमें दर्शन होता है उस पूर्णता के साथ वस्तु, क्रिया आदि के पृथक् पृथक् समन्वय में नहीं । इसी से सुन्दर अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शिणी होती हैं । चुना हुआ अप्रस्तुत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा—जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन में सुलभ दृश्यों के अन्तर्गत होगा—उतना ही रक्षणीय और अनुरंजनकारी होगा । सूरदासजी ने कई स्थलों पर अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यन्त मनोरम व्यापार समष्टि की योजना की है । कोई गोपिका या राधा स्वप्न में श्रीकृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद उचट गई । इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति-व्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है, देखिए—

हमको सपनेहू में सोच ।

जा दिन तें विछुरे नँदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥

मनौ गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गही ।

कहा करौ बैरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रही ॥

ज्यों चकई प्रतिबिंब देखि कै आनंदी पिय जानि ।

सूर पवन मिसि निठुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥

स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिबिंब देखने का कैसा गूढ़ और सुन्दर साम्य है । इसके उपरान्त पवन द्वारा प्रशान्त जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना कैसा भूतव्यापी व्यापार स्वप्नभंग के मेल में लाया गया है !

इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर ने कई जगह ए प्रसंग को व्यंजना की है । जैसे, गोपियाँ मथुरा से निकली हैं,

पर पड़ी विरह से तड़फड़ा रही हैं, पर कृष्ण राज-सुख के आनन्द में फूले नहीं समा रहे हैं। यह बात वे इस चित्र द्वारा कहते हैं—

सागर-कूल मीन तरफत है, हुलसि होत जल पीन।

जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करनेवाली—सृष्टि खड़ी करने वाली—कल्पना कहते हैं उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु—जो कि प्रायः कवि-परम्परा में प्रसिद्ध हुआ करती है—रख देने में उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग—जिसमें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की नवीन योजना रहती है—रखने में देखी जाती है। सूरदासजी ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया है, इसका अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से हो सकता है। कवीर, जायसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परोक्ष जगत् की कुछ धुँधली सी मलक दिखाने के लिए इसी अन्योक्ति की पद्धति का अवलम्बन किया है; जैसे—

हंसा प्यारे ! सरवर तजि कहँ जाय !

जेहि सरवर विच मोती चुनते, बहु विधि केलि कराय ॥

सूख ताल, पुरइनि जल छोड़े, कमल गयो कुँमिलाय ।

कह कवीर जो अत्र की विछुरै, बहुरि मिलै कव आय ॥

रहस्यवादी कवियों के समान सूर की कल्पना भी कभी कभी इस लोक का अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती है; जैसे—

चकई री ! चलि चरन-सरोवर जहाँ न प्रेम-वियोग ।

निसि दिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग ॥

जहाँ टुक से मीन, हंस सिंव, मुनि-जन नख-रवि-प्रभा-प्रकास ।

प्रफुलित कमल, निमिष नहीं ससि डर, गुँजत निगम सुवास ॥
 जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता-फल, सुकृत अमृत रस पोजै ।
 सो सर छाँड़ि कुबुद्धि विहंगम ! इहाँ कहाँ रहि कीजै ? ॥

पर एक व्यक्तवादी सगुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस चित्र में वह रहस्यमयी अव्यक्तता या धुँधलापन नहीं है । कवि अपनी भावना को स्पष्ट और अधिक व्यक्त करने के लिये जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है । इसी से अन्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया है । इसी अन्योक्ति का दीनदयाल गिरि जी ने अच्छा निर्वाह किया है—

चल चकई ! वा सर विषय जहँ नहि रैनि विछोह ।
 रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-संदोह ॥
 सुहृद हंस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाके ।
 भोगत सुख-अंत्रोह, मोह-दुख होय न ताके ॥
 बरनै दीनदयाल भाग्य विनु जाय न सकई ।
 पिय-मिलाप नित रहै ताहि सर चल तू चकई ॥

इसी अन्योक्ति-पद्धति को कवीन्द्र रवीन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान किया है वह हमारे नवीन हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में 'गाँव में नया नया आया ऊँट' हो रहा है । बहुत से नवयुवकों को अपना एक नया ऊँट छोड़ने का हौसला हो गया है । जैसे भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रेष्ठ रवीन्द्र प्रकृति के क्रीड़ास्थल से लेकर नाना मूर्त स्वरूप खड़ा करते हैं वैसे भावों को ग्रहण करने तक की क्षमता न रखनेवाले बहुतेरे ऊटपटांग चित्र खड़ा करने और कुछ असंबद्ध प्रलाप करने—

हो 'छायावाद' की कविता समझ अपनी भी कुछ करामात दिखाने के फेर में पड़ गए हैं। चित्रों के द्वारा बात कहना बहुत ठीक है, पर कहने के लिए कोई बात भी तो हो। कुछ तो काव्य-रीति से सर्वथा अनभिज्ञ, छन्द, अलंकार आदि के ज्ञान से विलकुल कोरे देखे जाते हैं। बड़ी भारी चुराई यह है कि अपने को एक 'नए सम्प्रदाय' में समझ अहंकारवश वे कुछ सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते और अपनी अनभिज्ञता को एक चलते नाम की छोट में छिपाना चाहते हैं। मैंने कई एक से उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्न किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण कोटि का—कोई गम्भीर तत्त्व ग्रहण करने के अनुपयुक्त—पाया। ऐसों के द्वारा काव्य-क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र के समान, पाखंड के प्रचार की आशंका है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास आदि साहित्य-सेवियों के सामने रखा जाय तथा पुराने और नए रहस्यवादी कवियों की रचनाओं की सूक्ष्म परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कविता के साहित्यिक स्वरूप की मीमांसा की जाय। इस विषय पर अपने विचार मैं किसी दूसरे समय प्रकट करूँगा; इस समय जो इतना कह गया, उसी के लिए क्षमा चाहता हूँ।

यहाँ तक तो सूर की सहृदयता की बात हुई। अब उनकी साहित्यिक निपुणता के सम्बन्ध में भी दो चार बातें कहना आवश्यक है। किसी कवि की रचना के विचार के सुवीते के लिए हम दो पक्ष कर सकते हैं—हृदय-पक्ष और कला-पक्ष। हृदय-पक्ष का कुछ दिग्दर्शन हो चुका। अब सूर की कला-निपुणता के, काव्य के बाह्यांग के, सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि—
 (१) उनकी पूर्ण रूप से वर्तमान है। यद्यपि काव्य में हृदय-

पद्य ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम आवश्यक नहीं है। रीति, अलंकार, छन्द ये सब बहिरंग विधान के अन्तर्गत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की अभिव्यक्ति में सहायता पहुँचती है। सूर, तुलसी, बिहारी आदि कावियों में दोनों पद्य प्रायः सम हैं। जायसी में हृदय-पद्य की प्रधानता है, कला-पद्य में (अलंकारों का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए भी) त्रुटि और न्यूनता है। केशव में कला-पद्य ही प्रधान है, हृदय-पद्य न्यून है।

यह तो आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि सूर की रचना जयदेव और विद्यापति के गीत-काव्यों की शैली पर है, जिसमें सुर और लय के सौन्दर्य या माधुर्य का भी रस-परिपाक में बहुत कुछ योग रहता है। सूरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी, इससे वह संगीत-प्रेमियों के लिए भी बड़ा भारी खजाना है। नाद-सौन्दर्य के साधनों में अनुप्रास आदि शब्दालंकार भी हैं। संस्कृत के गीत-गोविन्द में कोमल कान्त-पदावली और अनुप्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है। विद्यापति की रचना में कोमल पदावली का आग्रह तो है, पर अनुप्रास का उतना नहीं। सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति-विधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है। इससे भाषा की स्वाभाविकता में बाधा नहीं पड़ने पाई है। भावुक सर ने अपना 'शब्द-शोधन' दूसरी ओर दिखाया है। उन्होंने चलते हुए वाक्यों, मुहावरों और कहीं कहीं कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह कि सूर की भाषा बहुत चलती हुई और स्वाभाविक है। काव्य-भाषा होने से यद्यपि उसमें कहीं कहीं संस्कृत के पद, कवि के समय से पूर्व के परम्परागत प्रयोग तथा ब्रज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप

में कुछ अन्तर पड़े या कृत्रिमता आवे। श्लेष और यमक कूट पदों में ही अधिकतर पाए जाते हैं।

अर्थालंकारों की अत्यन्त पूर्ण प्रचुरता है, विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य-मूलक अलंकारों की। यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य-प्रसिद्ध और परम्परागत ही हैं, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ वैठाए गए हैं। स्फटिक के आँगन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके हाथ पैर का प्रतिविम्ब पड़ता चलता है। इस पर कवि की उत्प्रेक्षा देखिए—

फटिक-भूमि पर कर-पग-छाया यह सोभा अति राजति ।

करि करि प्रति पद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति ॥

रूप या अंगों की शोभा के वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा की भरमार बराबर मिलेगी। इनमें बहुत सी तो पुरानी और वँधी हुई हैं और कुछ नवीन भी हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा की सबसे अधिकता 'हरिजू की बाल-छवि' के वर्णन में पाई जाती है; यों तो जहाँ जहाँ रूपवर्णन है सर्वत्र ये अलंकार भरे पड़े हैं। उपमान सब तरह के हैं, पृथ्वी पर के भी और पृथ्वी के बाहर के भी—सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौराणिक प्रसंग भी। पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के हैं—

(क) नील स्वेत पर पीत लाल मनि लटकन माल कराई ।

सनि, गुरु, असुर, देवगुरु मिलि मनो भौम सहित समुदाई ॥

(ख) हरि कर राजत माखन रोटी ।

मनौ बराह भूधर सह पृथिवी धरी दसनन की कोटी ॥

रंग-शोभा और देश-भूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा

देनेकी भक्क सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। इस भक्क में कभी-कभी परिमित या मर्यादा का विचार (Sense of proportion) नहीं रह जाता; जैसे, ऊपर के उदाहरण (ख) में कहाँ मक्खन लगी हुई छोटी सी रोटी और कहाँ गोल पृथ्वी ! हाँ, जहाँ ईश्वरत्व या देवत्व की भावना से किसी छोटे व्यापार द्वारा अत्यन्त बृहद् व्यापार की ओर संकेत मात्र किया है वहाँ ऐसी बात नहीं खटकती, जैसे इस पद में—

मथत दधि मथनी टेकि रह्यो ।

आरि करत मटकी गहि मोहन वासुकि संभु ड्यो ॥

मंदर डरत, सिंधु पुनि काँपत फिरि जनि मथन करै ।

प्रलय होय जनि गहे मथानी, प्रभु मर्याद टरै ॥

पर उक्त दोनों उदाहरणों के सम्बन्ध में तो इतना बिना कहे नहीं रहा जाता कि ऐसे उपमान बहुत काव्योपयोगी नहीं जँचते। काव्य में ऐसे ही उपमान अच्छी सहायता पहुँचाते हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते हैं और जिनकी भव्यता, विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाधारण के हृदय पर पहले से जमा चला आता है। न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने आँखों देखा है, न वराह भगवान् का दाँत की नोक पर पृथ्वी उठाना। यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी “भानु मनोसनि अंक लिए” ऐसी उत्प्रेक्षा की ओर रुचि दिखाई है।

हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत् से बृहत् क्षेत्र मनुष्य के लिए खुलते जाते हैं उनके भीतर के नाना रमणीय और अद्भुत रूपों और व्यापारों का—जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं है—

उपयोग करके उसके क्षेत्र का विस्तार न किया जाय। उनका प्रयोग किया जाय, कवि की प्रतिभा द्वारा वे गोचर रूप में सामने लाए जायँ, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं में लाए जायँ, केवल अंग आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं। ज्योति-विज्ञान द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते, घनते विगड़ते, रंग-विरंग के पिंडों, अपार ज्योतिःसमूहों आदि का पता लगा है जिनके सामने पृथ्वी किसी गिनती में नहीं। कोई विश्व-व्यापिनी ज्ञान-दृष्टिवाला कवि यदि विश्व की कोई गम्भीर समस्या लेकर उसे काव्य-रूप में रखना चाहता है तो वह इन सबको हस्तामलक बनाकर सामने ला सकता है।

सूरदासजी में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्बिदग्धता (Wit) भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। वचन-रचना की उस वक्रता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। यहाँ पर हम वैदग्ध्य के उस उपयोग का उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्न करने के लिए किया गया है। साहित्य-प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर ने बड़ी बड़ी क्रीड़ाएँ की हैं। कहीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा “अद्भुत एक अनुपम वाग” लगाया है; कहीं, जब जैसा जी चाहा है, उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया है, कहीं असंगत। गोपियाँ वियोग में कुढ़कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमानों को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय-संगत ठहराती है।

ऊधो ! अत्र यह समुक्ति भई ।

नंदनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई ॥

कुंतल कुटिल भँवर भरि भाँवरि मालति भुरै लई ।
 तजत न गहरु कियो कपटी जत्र जानी निरस गई ॥
 आनन इंदुवरन संमुख तजि करखे तें न नई ।
 निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अंतहि हेम हई ॥
 तन वनस्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई ।
 सूर विवेक-हीन चातक-मुख वूँदौ तौ न सई ॥

इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रों के उपमानों को अनुपयुक्त ठहराती है—

उपमा एक न नैन गही ।

कविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही ॥
 कहे चकोर, मुख-विधु विनु जीवन; भँवर न, तहँ उड़ि जात ।
 हरिमुख-कमलकोस विछुरे तें ठाले क्यों ठहरात ?
 खंजन मनरंजन जन जौ पै, कबहुँ नाहिं सतरात ।
 पंख पसारि न उड़त, मंद है समर-समीप तिकात ॥
 आए वधन व्याध है ऊधो, जौ मृग क्यों न पलाय ।
 देखत भागि वसै धन वन में जहँ कोउ संग न धाय ॥
 ब्रजलोचन विनु लोचन कैसे ? प्रति छिन अति दुख-वाढ़त ।
 सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छुँड़त ॥

इतनी उदाहरणों में उपमानों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता का जो आरोप किया गया है, वह हृदय के चोभ से उत्पन्न है, इसी से उसमें सरसता है, काव्य की योग्यता है। यदि कोई कठहुज्जती इन्हीं उपमानों को लेकर कहने लगे—“वाह! नेत्र भ्रमर कैसे हो सकते हैं? भ्रमर होते तो उड़ न जाते। मृग कैसे हो सकते हैं? मृग होते तो जमीन पर चौकड़ी न भरते।” तो उसके कथन में कुछ भी काव्यत्व न होगा।

उपमानों की आनन्द-दशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर ने 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' द्वारा राधा के अंगों और चेष्टाओं का विरह से घृतिहीन और मन्द होना व्यंजित किया है—

तव तें इन सवहिन सजु पायो ।

जव तें हरि संदेस तिहारो सुनत ताँवरो आयो ॥

फूले व्याल दुरे तें प्रगटे, पवन पेट भरि खायो ।

ऊँचे बैठि विहंग-सभा त्रिच कोकिल मंगल गायो ॥

निकसि कंदरा तें केहरिहू माये पूँछु हिलायो ।

वन-गृह तें गजराज निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो ॥

चेष्टाओं और अंगों का मन्द और श्रीहीन होना कारण है, और उपमानों का आनन्दित होना कार्य है। यहाँ अप्रस्तुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यंजना की गई है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने जानकी के न रहने पर उपमानों का प्रसन्न होना राम के मुख से कहलाया है—

कुंदकली, दाड़िम, दामिनी । कमल, सरदससि, अहि-भामिनी ॥

श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥

सनु जानकी ! तोहि त्रिनु आजू । हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥

पर यहाँ उपमानों के आनन्द से केवल सीता के न रहने की व्यंजना होती है। सूर की 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' में उक्ति का चमत्कार भी कुछ विशेष है और रसात्मकता भी।

दूर की सूझ या ऊहावाले चमत्कार-प्रधान पद भी सूर ने बहुत से कहे हैं; जैसे—

(क) दूर करहु बीना कर धरिवो ।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद्र को दरिवो ॥

(ख) मन राखन को वेनु लियो कर, मृग थाके उडुपति न चर ।
अति आतुर हँ सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करन टरै ॥

राधा मन वहलाने के लिए किसी प्रकार रात बिताने के लिए, वीणा लेकर बैठीं । उस वीणा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चन्द्रमा के रथ का हिरन अड़ गया और चन्द्रमा के रुक जाने से रात और भी बढ़ गई । इस पर घबराकर वे सिंह का चित्र बनाने लगीं जिससे मृग डरकर भाग जाय । जायसी की 'पदमावत' में भी यह उक्ति ज्यों की त्यों आई है—

गहै वीन मकु रैनि विहाई । ससि-नाहन तहँ रहै ओनाई ॥
धुनि धनि सिंह उरैहै लागै । ऐसिहि विथा रैनि सब जागै ॥

जायसी की पदमावत विक्रम संवत् १५६७ में बनी और सूर-सागर संवत् १६०७ के लगभग बन चुका था । अतः जायसी की रचना कुछ पूर्व की ही मानी जायगी । पूर्व की न सही, तो भी किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो, इसकी संभावना नहीं । उक्ति सूर और जायसी दोनों से पुरानी है । दोनों ने स्वतंत्र रूप में इसे कवि-परम्परा द्वारा प्राप्त किया ।

कहीं कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर, या यों कहिए कि ऊहा का सहारा लेकर—जैसा पीछे बिहारी ने बहुत किया—वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया है । चन्द्र की दाहकता से चिढ़कर एक गोपी राधा से कहती है—

कर धनु लै किन चंदहि मारि ?

तू हरुवाय जाय मंदिर चढ़ि ससि-संमुख दर्पन विस्तारि ।

याही भाँति बुलाय, मुकुर महि अति बल खंड खंड करि डारि ॥

गोपियों का विरहोन्माद कितना ही बढ़ा हो, पर उनका

विलकुल वचनों की सी दिखाना स्वाभाविक नहीं जँचता । कविता में दूर की सूक्त या चमत्कार ही सब कुछ नहीं है ।

पावस के घन-गर्जन आदि वियोगिनी को सन्तापदायक होते हैं, यह तो एक वँधी चली आती हुई बात है । सूर ने एक प्रसंग कल्पित करके इस बात को ऐसी युक्ति से रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन आ गया है । वे कहते हैं कि पावस आने पर सखियाँ राधा को मालूम ही नहीं होने देती कि पावस आया है । वे और-और बातें बताकर उन्हें वहकाती रहती हैं—

वात वृक्षत यो बहरावति ।

सुनहु स्याम ! वै सखी सयानी पावस ऋतु राधहि न सुनावति ।

घन गरजत तौ कहत कुसलमति गूँजत गुहा सिंह समभावति ॥

नहिं दामिनि, द्रुम दवा सैल चढ़ी, फिरि बयारि उलटी भर लावति ।

नाहिन मोर वक्त पिक दादुर, ग्वाल-मंडली खगन खेलावति ॥

सूर को वचन-रचना की चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का भी पूरा शौक था । बीच बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण हैं, जिनमें या तो अनेकार्थवाची शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिये अनेक शब्दों की लम्बी लड़ी जोड़कर खेलवाड़ किया गया है । सूर की प्रकृति कुछ क्रीड़ाशील थी । उन्हें कुछ खेल-तमाशे का भी शौक था । लीलापुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी ही चाहिए । तुलसी के गम्भीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता । अपनी इस शब्द-कौशल की प्रवृत्ति के कारण सूर ने व्यवहार के कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एक-आध जगह उक्तियाँ वाँधी हैं; जैसे—

साँचो सो लिखवार कहावै ।

काया-ग्राम मसाहत करि कै, जमा वाँधि ठहरावै ।

मन्मथ करै कैद अपनी में, जान जहतिया लावे ॥

काव्य में इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतीं। आचार्यों ने 'अप्रतीतत्व' दोष के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है। सूर भी एक ही आध जगह ऐसी उक्तियाँ लाए हैं; पर वे 'प्रेम-फौजदारी' ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे गई हैं।

यहाँ तक तो सूरदासजी को कुछ विशेषताओं का अनुसन्धान हुआ। अब उनकी पूर्ण रचना के सम्बन्ध में कुछ सामान्य मत स्थिर करना चाहिए। पहले तो यह समझ रखना चाहिये कि सूरसागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर एक प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी। खारे, फीके और साधारण जल से अमृत को अलग करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चाहिए। सूरसागर में बहुत से पद विल्कुल साधारण श्रेणी के मिलेंगे। एक ही पद में भी कुछ चरण तो अनूठे और अद्वितीय मिलेंगे और कुछ साधारण, और कभी कभी तो भरती के। कई जगह वाक्य-रचना अव्यवस्थित मिलेगी और छन्द या तुकान्त में खपाने के लिए शब्द भी कुछ विकृत किए हुए, तोड़े मरोड़े हुए, पाए जायँगे; जैसे 'रहत' के लिये 'राहत', 'जितेक', के लिए 'जितेत', 'पानी' के लिए 'पान्यों' इत्यादि। व्याकरण के लिए लिंग आदि का विपर्यय या अनियम भी कहीं कहीं मिल जाता है। जैसे, 'सूल' शब्द कहीं पुल्लिंग आया है, कहीं स्त्रीलिंग। सारांश यह कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः विचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी की सी गठी हुई, सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय न मिलेगी। कहीं कहीं किसी वाक्य या किसी चरण तक को हम बदल दें तो कोई हानि न होगी। किसी किसी पद में कुछ

विशेष अर्थ-शक्ति नहीं रखते, चरण की पूर्ति करने का ही काम देते जान पड़ते हैं। वात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। उन्होंने बहुत अधिक पद कहे हैं। फुटकर पद कहते चले गए हैं; इससे एक ही भाववाले बहुत से पद भी आ गए हैं और कहीं कहीं भाषा भी शिथिल हो गई है। अन्धे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छाँटने या हरताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था जैसा तुलसीदास को।

उपासना-पद्धति के भेद के कारण सूर और तुलसी की रचना में जो भेद कहा जाता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये। तुलसी की उपासना सेव्य-सेवक-भाव से कही जाती है और सूर को सख्य भाव से। यहाँ तक कि भक्तों में सूरदासजी श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस उपासना-भेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव या प्रगल्भता पाई जाती है वह गृहीत विषय के कारण। इन्होंने वात्सल्य और शृंगार ही वर्णन के लिये चुने हैं। जिसे वालक्रीड़ा और शृंगारक्रीड़ा का अत्यन्त विस्तृत वर्णन करना है वह यदि संकोच-भाव छोड़ लड़कों की नटखटी, यौवन-सुलभ हास-परिहास आदि का वर्णन न करेगा तो काम कैसे चलेगा? कालिदास ने भी कुमार-सम्भव में पावेंती के अंग प्रत्यंग का शृंगारी वर्णन किया है। तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य भाव की हुई और उनका वह वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ? थोड़ा सा ध्यान देने से ही यह जाना जा सकता है कि आरम्भ में सूर ने जो बहुत दूर तक विनय के पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं। मिलान करने पर सूर की विनयावली

और तुलसी की विनय-पत्रिका में सखा और सेवक का कोई भेद न पाया जायगा। विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जायँगे—“प्रभु ! हौं सब पतितन की टीकौ”। यों तो तुलसी भी प्रेम-भाव में मग्न हो सामीप्य और घनिष्ठता अनुभव करते हुए ‘पूतरा बाँधने’ के लिए तैयार होकर गए हैं और शवरी आदि को तारने पर कहते हैं—“तारेहु का रही सगाई ?”

इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ महानुभावों ने सूर और तुलसी में प्रकृति-भेद बताने का प्रयत्न किया है और सूर को खरा तथा स्पष्टवादी और तुलसी को सिफारशी, खुशामदी या लल्लो-चप्पो करनेवाला कहा है। उनकी राय में तुलसी कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने “दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निन्दा भी की है; यथा—

(क) तुम जानत राधा है छोटी।

हम सों सदा दुरावति है यह, बात कहै मुख चोटी पोटी ॥

नँदनंदन याही के बस हैं, बिनस देखि बँदी छवि चोटी।

सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उनहूँ तें अति ही खोटी ॥

(ख) सखी री ! स्याम कहा हित जानै।

सूरदास सर्वस जौ दीजै कारो कृतहि न मानै ॥”

पर यह कथन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा भटपट हो सकता है। “सूरदास प्रभु वै अति खोटे”, “कारो कृतहि न मानै” इन दोनों वाक्यों में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो सकता है। पर किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ भी काव्यत्व न होगा।

हमारे देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के कारण रसात्मक हैं। इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा सा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, न कलूटे कृतबन। प्रथम पद में जो सखी की उक्ति है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है और संचारी के रूप में प्रिय सखी राधा के प्रति रति-भाव की व्यंजना करता है। इससे सखी के उस आनन्द का पता चलता है जो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा पद विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद-मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। यह अमर्ष भी यहाँ रति भाव का व्यंजक है इसके कहने की आवश्यकता नहीं। यह आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम लोक-मर्यादा से परे जीवनीत्सव या क्रीड़ा के रूप में सामने रखा गया है। इस सम्बन्ध में हमारा केवल यही निवेदन है कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चक्र में साहित्यिक दृष्टि खो न देनी चाहिए।

तुलसी पर दूसरा इलजाम, जिससे सूर बरी किए गए हैं, यह है कि वे रह रहकर फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर हैं। ठीक हैं; तुलसी ऐसा जरूर करते हैं। पर कहाँ? रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस तुलसीदास का एकमात्र ग्रन्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसीदासजी के और भी कई ग्रंथ हैं। क्या सबमें यही बात पाई जाती है? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये हैं—

(१) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं—शिव, केशवल्क्य और काक-भुशुंडि। श्रोता हैं पार्वती, भरद्वाज और

गरुड़ । इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं । तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए । इसलिए कथा के बीच-बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है । गोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है ।

(२) रामचरितमानस एक प्रबन्ध-काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चला चलता है । इस दशा में कथा-प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है । फुटकर पद्यों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी । सूरसागर की शैली पर तुलसी की 'गीतावली' है । उसमें यह बात नहीं पाई जाती । जब कि समान शैली की रचना मिलती है तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए ।

(३) श्रीकृष्ण के लिए 'हरि', 'जनार्दन' आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती । गोपियों ने कृष्ण के लिए बराबर 'हरि' शब्द का व्यवहार किया है ।

इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना और कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार तुलसी ने राम की सान्निध्य-प्राप्ति के कारण दशरथ, कौशल्या, केवट, शबरी, जटायु आदि के भाग्य को शिव, सनकादिक के भाग्य से भी बढ़कर कहा है उसी प्रकार, उन्हीं शब्दों में, सूर ने भी जगह जगह नन्द-यशोदा और गोप-गोपियों के भाग्य को सराहा है । यह भी याद ही दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर हैं ।

सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहनेवाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति की आलोचना करनेवाले नहीं। संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया है। तुलसीदासजी लोक की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे। वे उसके बीच पैदा होनेवाली बुराइयों को तीव्र दृष्टि से देखनेवाले थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता की दुःख-दशा और दुर्वृत्ति तथा मर्यादा के ह्रास पर दृष्टिपात किया है, उसी प्रकार लोक-मर्यादा के ह्रास में सहायता पहुँचानेवाली प्रच्छन्न शक्तियों को भी पहचाना है। किस प्रकार उन्होंने कवीर, दादू आदि के लोक-विरोधी स्वरूप को पहचान कर उनके उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह हम गोस्वामी जी की आलोचना में दिखा चुके हैं। * सूरदासजी अपने भाव-भजन और मन्दिर के नृत्य-गीत में ही लीन रहते थे; इन सब अंशों से बहुत दुबले नहीं रहते थे। पर 'निर्गुन बानी' की जो हवा बह रही थी, उसकी ओर उनके कान अवश्य थे।

तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का ब्रजभाषा और अवधी दोनों काव्य-भाषाओं पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य-रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की है। यह बात सूर में नहीं है। सूरसागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी की 'गीतावली' मौजूद है; पर राम-

* देखिए काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'गोस्वामी के तुलसीदास' नामक ग्रंथ।

चरितमानस और कवितावली की शैली की सूर की कोई कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य-जीवन की जितनी अधिक दशाएँ, जितनी अधिक वृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई है, उतनी सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र-चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के ऊँचे आदर्श खड़े किए हैं वैसे सूर ने नहीं। तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है और सूर की एकमुखी। पर एकमुखी होकर उसने अपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी नहीं; और किसी कवि की तो बात ही क्या है। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट् हैं।

सूर की विशेषताओं के इस संचिप्त दिग्दर्शन को समाप्त करने के पहले इतना और कह देने को जी चाहता है कि सूर में साम्प्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। अष्टछाप में वे थे ही। उन्होंने अनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रन्थारम्भ में भी प्रथानुसार गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है पर तुलसीदासजी की वन्दना कितनी विस्तृत है, यह रामचरितमानस और विनय-पत्रिका के पढ़नेवाले मात्र जानते हैं। उनमें लोक-संग्रह का भाव पूरा पूरा था। उनकी दृष्टि लोक-विस्तृत थी। जन-समाज के बीच—या कम से कम हिन्दू-समाज के बीच—परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुखद व्यवस्था स्थापित देखने का अभिलाष भी उनमें बहुत कुछ था। शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शैवों और वैष्णवों में भेदबुद्धि रोकने का प्रयत्न किया था। पर सूरदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था।

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता है वह उन्हें देवताओं

से उदासीन भी नहीं समझता ; उनका शत्रु और द्रोही समझना तो दूर रहा । इतने पर भी कुछ लोगों ने वनवास के करुण-प्रसंग के भीतर अथवा राम के महत्त्व आदि की भावना में लीन करने-वाले किसी पद में 'सूर स्वारथी' आदि शब्द देखकर यह कहना बहुत जरूरी समझा है कि "सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियाँ नहीं दी है" । इस पर यही समझकर रह जाना पड़ता है कि यह मत-वैलक्षण्य के प्रदर्शन का युग है ।

सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरान्त अब हम उनकी उस संगीत-भूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं जो 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें वचन की भावप्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम-प्रसूत न जाने कितनी अन्तर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है । 'भ्रमरगीत' का प्रसंग इस प्रकार आया है । श्रीकृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमन्त्रण पर मथुरा गए और वहाँ कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव का उद्धार किया । इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया । जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए तब नन्द, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए । उन गोपियों के बिरह का क्या कहना है जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएँ की थी । बहुत दिनों पीछे श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा । उद्धव ही को क्यों भेजा ? कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, प्रेम या भक्ति-मार्ग की वे उपेक्षा करते थे । कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि वे उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति-मार्ग की सरसता

और सुगमता के सामने उनका ज्ञान-गर्व दूर हो—

जदुपति जानि उद्धव-रीति ।

जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति ॥

बिरह-दुख जहँ नाहिं जामत, नाहिं उपजत प्रेम ।

रेख, रूप न बरन जाके यह धरयो वह नेम ॥

त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत और ।

बिना गुन क्यों पुहुमि उधरै, यह करत मन डौर ॥

बिरह-रस के मंत्र कहिए क्यों चलै संसार ।

कछु कहत यह एक प्रगटत, अति भन्यो हंकार ॥

प्रेम भजन न नेकु याके, जाय क्यों समभाय ?

सूर प्रभु मन यहै आनी, ब्रजहि देहुँ पठाय ॥

“त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत और” इसी भ्रम का निवारण कृष्ण चाहते थे। जगत् से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत् की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकार करना भक्ति-मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है। “अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः” इस भगवद्वाक्य को मन में बैठाए हुए भक्त-जन गीता के इस उपदेश के अनुसार भगवान् के व्यक्त स्वरूप की ओर आकर्षित रहते हैं—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥

उद्धव बात बात में ‘एक प्रगटत’—अद्वैतवाद का राग अलापते थे। पर “बिरह-रस के मंत्र कहिए क्यों चलै संसार ?”—रस-विहीन उपदेश से लोक-व्यवहार कैसे चल सकता है ? रस-विहीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को भ्रमरगीत की रचना हुई है।

उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नन्द यशोदा से संदेश कह चुकने के उपरान्त गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान-चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच में एक भौंरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है—

यहि अंतर मधुकर इक आयो ।

निज सुभाव अनुसार निकट होइ सुंदर सव सुनायो

• पूछन लागीं ताहि गोपिका “कुत्रजा तोहिं पठायो ?

कैधौं सूर स्यामसुंदर को हमैं संदेशो लायो ?” ॥

फिर तो गोपियाँ मानो उसी भ्रमर को संबोधन करके जो जो जी में आता है, खरी खोटी, उलटी सोधी, सब सुना चलती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम ‘भ्रमरगीत’ पड़ा है। कभी गोपियाँ उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसी भ्रमर को संबोधन करके कहती हैं—विशेषतः जब परुष और कठोर वचन मुँह से निकालना होता है। शृंगार रस का ऐसा सुन्दर ‘उपालम्भ-काव्य’ दूसरा नहीं है।

उद्धव को देखते ही गोपियों को सम्बन्ध-भावना के कारण कृष्ण के मिलने का सा सुख हुआ—

ऊधो ! पा लागीं भले आए ।

तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए ॥

प्रिय के सम्बन्ध से बहुत सी वस्तुएँ प्रिय लगने लगती हैं। यही बात यहाँ अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई गई है। इसी को बढ़ाकर विहारी कुछ और दूर तक ले गए हैं। उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगने से उलटा और पसीना होता है। यह एक तमाशों की बात जरूर हो गई है—

हित करि तुम पठयो, लगे वा विजना की बाय ।

टरी तपनि तन की तऊ चली पंसीने न्हाय ॥

सूर ने भी प्रिय की वस्तु पाकर 'सात्त्विक' होना दिखाया है, पर तमाशे के रूप में नहीं, अत्यन्त स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी रूप में तथा अत्यन्त अर्थ-प्राचुर्य के साथ । उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने हाथ में लेती हैं और—

निरखत अंक स्यामसुंदर के बार बार लावति छाती ।

लोचन-जल-कागद-मसि मिलिकै है गइ स्याम स्याम की पाती ॥

आँसुओं से भीगकर स्याही के फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई, इससे कृष्ण-सम्बन्ध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ । आगे देखिये तो इस प्रेमोद्रेक की तीव्रता व्यंजित करने के लिये 'अंक' और 'स्याम' शब्दों में श्लेष कैसा काम कर रहा है । पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता । कृष्ण की पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई । जैसे वे कृष्ण के अंक (गोद अर्थात् शरीर) को पाकर आलिंगन करतीं वैसे ही कृष्ण के लिखे अंक (अक्षर) देखकर वे पत्री को बार बार हृदय से लगाती हैं । यहाँ भावाधिपति सूर ने भाव का और आधिक्य व्यंजित करने के लिए शब्दसाम्य की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ (अक्षर और काला) लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित हुई फिर आगे उनका श्लेष अर्थ (गोद और श्रीकृष्ण) लेने से उसी भाव की और अधिकता व्यंजित हुई । इससे जो लाघव हुआ है—मजमून में जो चुस्ती आई है—वह तो है ही, साथ ही प्रेम के अन्तर्भूत एक मानसिक दशा के चित्र का रंग कैसा चटकीला हो गया है ! शब्दसाम्य को उपयोग में लानेवाला सच्चा कवि-कौशल यही है ।

यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्दसाम्य को लेकर 'कृष्ण' और 'पत्री' की तुलना पर जोर देने लगते—कहते कि पत्री मानो कृष्ण ही है, क्योंकि वह भी श्याम है और उसके भी अंक (वक्षस्थल) है—तो काव्य की रमणीयता कुछ भी न आती। राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह सादृश्य या साधर्म्य के कारण नहीं, बल्कि सम्बन्ध-भावना के कारण, कृष्ण के हाथ की लिखी होने के कारण। केवल शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें कि यह बौल है क्योंकि इसे भी 'शृंग' हैं, तो यह काव्यकला तो न होगी, और कोई कला हो तो हो। क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलावाज़ियाँ हों, सब काव्य ही कहलावें ?

गोपियाँ कहती हैं कि हम ने इतने सँदेसे भेजे हैं कि शायद उनसे मथुरा के कुएँ भर गए होंगे ; पर जो सँदेसा लेकर जाता है वह लौटता नहीं—

सँदेसनि मधुवन कूप भरे ।

जो कोउ पथिक गए हैं ह्याँ तें फिरि नहिं गवन करे ॥

कै वै स्याम सिखाय समोषे, कै वै बीच मरे !

अपने नहिं पठवत नंद-नंदन हमरेउ फेरि घरे ॥

मसि खूँटी, कागर जल भीजे सर दव लागि जरे !

प्रिय से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रिय लगना ऊपर दिखा आए हैं। इस पद में प्रेमाभिलाष की पूर्ति में जो वस्तुएँ बाधक होती हैं, सहायक नहीं होती या उपयोग में नहीं आती, उनके ऊपर बड़ी सुन्दर मल्लाहट स्त्रियों की स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है। पथिक सँदेसा लेकर गए, पर न लौटे; न जाने कहाँ मर गए ! कोई चिट्ठी भी नहीं आती है। मथुरा भर में स्याही ही चुक गई, या कागज भाँगकर गल गए

अथवा सरकंडों में (जिनकी कलम बनती है) आग लग गई, वे जल गए ?

जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता है उसे रोककर गोपियाँ अपना संदेशा कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि इसी डर से पथिकों ने उधर से होकर जाना ही छोड़ दिया है—

सूरदास संदेशन के डर पथिक न वा मग जात ।

ज्यों ही उद्धव अपना ज्ञान-संदेश सुनाना आरम्भ करते हैं त्यों ही गोपियाँ चकपका कर पूछने लगती हैं—

हम सों कहत कौन की वार्ते ?

सुनि, ऊधो ! हम समझति नाहिं, फिरि बूझति हैं तार्ते ॥

को नृप भयो, कंस किन मारयो, को बसुधौ-सुत आहि ?

यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत हैं मुख चाहि ॥

गोपियों को यह 'चकपकाहट' उद्धव की बात की असंगति पर होती है। जिसने ऐसा संदेशा भेजा है वह न जाने कौन है। परम प्रेमी कृष्ण तो हो नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं। वे केवल विश्वास करने की अपनी अतत्परता और आश्चर्य मात्र व्यंजित कर रही हैं। कृष्ण के सम्बन्ध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे हैं। इसी से बीच बीच में वे उन्हें बनाने और उनसे परिहास करने लगती हैं। वे कृष्ण पर भी फवती छोड़ती हैं और उद्धव को भी बनाती हैं—

ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो ।

जानै कहा राजगति-लीला अंत अहीर बेचारो ॥

आवत नाहिं लाज के मारे, मानहु कान्ह खिसान्यो ।

हम सबै अयानी, एक सयानी कुवजा सों मन मान्यो ॥

ऊधो जाहु बाँह धरि ल्याओ सुंदर स्याम पियारो ।
व्याहौ लाख, धरौ दस कुन्नी, अंतहि कान्ह हमारो ॥

परिहास के अतिरिक्त अन्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के 'घौदाय्य' की कैसी साफ भलक है ।

उद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियाँ के मन में यह बात समाती ही नहीं कि यह कृष्ण का सँदेसा है । कभी वे कहती हैं—“ऊधो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कयो है नंदकुमार” ; कभी कहती हैं—“स्याम तुम्हें ह्याँ नाहिं पठाए, तुम हौ बीच मुलाने” । जब उद्धव वक्रते ही जाते हैं तब वे और भी बनाती हैं ; कहती हैं कि जरा अपने होश की दवा करो—

ऊधो ! तुम अनो जतन करौ ।

हित की कहत कुहित की लागै, किन वेकाज ररौ ?

जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की ।

कछू कहत कछुवै कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी ॥

बीच बीच में वे खिझला भी उठती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मुँह कौन लगे, तुम तो सनक गए हो । वहाँ सिर खाने लगे थे तभी तुम्हें यहाँ भेजकर श्रीकृष्ण ने अपना पल्ला छुड़ाया—

साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि ।

याही तें तुम्हें नंद-नंदन जू यहाँ पठाए टारि ॥

फिर चित्त में कुछ विनोद-वृत्ति के आ जाने पर वे कहती हैं—“भाई ! खूब आए ! इस दुःख-दशा में भी अपनी वेढव बातों से एक वार लोगों को हँसा दिया—

ऊधो ! भली करी तुम आए ।

ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए” ॥

प्रेम के जिस हास-क्रीडामय स्वरूप को सूर ने लिया है,

विप्रलम्भ दशा के अश्रु और दीर्घ निश्वास के बीच-बीच में भी बराबर उसकी क्षणिक और क्षीण रेखा झलक जाती है। श्याम गोपियों के पास नहीं है; उनके सखा ही संयोग से उनके बीच आ फँसे हैं जो सदा उनके पास रहते हैं। वस यही सम्बन्ध-भावना कृष्ण के संदेश की विलक्षणता की भावना के साथ मिलते ही रह रहकर थोड़ी देर के लिए वृत्ति को विनोदमयी कर देती है—

ऊधो हम आज भई बड़भागी ।

बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्यामसुंदर हम लागीं ॥

ज्यों दर्पन मधि दृग निरखत, जहँ हाथ तहाँ नहिं जाई ।

त्यों ही सूर हम मिली साँवरे त्रिरह-त्रिथा बिसराई ॥

मध्यस्थ द्वारा संयोग-सूत्र का कैसा सुन्दर स्पष्टीकरण सूर ने किया है ! जो सम्बन्ध-भावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति-विनोदमयी कर देती है वह कभी कभी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होकर सामने आ जाती है और पाठक उसे पहचान सकते हैं; जैसे—

मधुकर ! जानत है सब कोऊ ।

जैसे तुम औ मीत तुम्हारे, गुननि निपुन हौ दोऊ ॥

पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ वोऊ ।

उद्धव को जो 'पक्के चोर और कपटी' प्रेम के ये संबोधन मिल रहे हैं वह कृष्ण के संसर्ग के प्रमाद से ।

ऐसेई जन दूत कहावत ।

ऐसी परकृति परति छाहँ की जुवतिन जोग-बुभावत ॥

गोपियाँ कहती हैं कि बैठे बैठे योग और ज्ञान का संदेश भेजनेवाले कैसे हैं, यह हम अच्छी तरह जानती हैं—

हम तौ निपट अहीरि बावरी जोग-दीजिए ज्ञानिन !

कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन ॥

कृष्ण की सम्बन्ध-भावना स्थान को भी कुछ अनुरंजक रूप प्रदान करती है—

त्रिलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे !

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते कारे ॥

तुम कारे, सुफलक-सुत कारे, कारे मधुप भँवारे ।

गोपियाँ कहती हैं—‘तुम्हारा दोष नहीं । वह स्थान ही ऐसा हो रहा है जहाँ से तुम आ रहे हो । एक कृष्ण से वहाँ ऐसी कृष्णता छा रही है कि तुम काले हो; अक्रूर जो आए थे वे भी ऐसे ही काले थे ; और यह घूमता हुआ भौरा भी (जो बहुत दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता कभी जा पड़ा होगा) वैसा ही काला है ।

उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका ही बाँध रहे थे कि गोपियों के मन में कुछ कुछ ‘शंका’ होने लगी—

मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो ।

हरिमुख की सुनि मीठी बातें डरपत है मन मेरो ॥

अब लौं कौन हेतु गावत है हम्ह आगे यह गीत ।

सूर इते सौं गारि कहा है जौ पै त्रिगुन-अतीत ॥

‘त्रिगुणातीत’ होंगे, हमें इससे क्या ? तू क्यों बार बार यह कहता है ? कुछ भेद जान नहीं पड़ता ।

उद्धव को कभी एक भोलाभाला आदमी ठहराकर गोपियाँ अनुमान करती हैं कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इनके हाथ भेजकर हँसी न की हो और ये इसे ठीक मानकर वक वक कर रहे हों । यही पता लगाने के लिए वे उद्धव से पूछती हैं—
“अच्छा, यह तो बताओ कि जब वे तुम्हें सँदेश कहकर भेजने लगे थे तब कुछ मुस्कराए भी थे ?”

ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने ।

साँच कहौ तुमको अपनी सौं, बूझत बात निदाने ॥

सूर स्याम जब तुम्हें पठाए तब नेकहु मुसकाने ?

यह अनुमान या 'वितर्क' रागात्मिका वृत्ति से सर्वथा निर्लिप्त शुद्ध बुद्धि की क्रिया नहीं है। संचारी 'मति' के समान यह भी भावप्रेरित है; हृदय की रागद्वेष वृत्ति से संबन्ध रखता है। किसी बात को मानने न मानने की भी रुचि हुआ करती है। कृष्ण के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहती; अतः यह बात मानने को उनका जी नहीं करता कि कृष्ण ने ऐसा अप्रिय संदेश भेजा होगा। जिस बात को कोई मानना नहीं चाहता उसको न मानने के वह हजार रास्ते ढूँढ़ता है। वस, गोपियों के अन्तःकरण की यही स्थिति ऊपर के पद में दिखाई गई है।

उद्धव के ज्ञान-योग की गोपियाँ कितनी क्रूर करती हैं, अब थोड़ा यह भी देखिए। जो ऐसी चीज ढोए फिरता है जिसे बहुत से लोग बिल्कुल निकम्मी समझ रहे हैं उसे वे बेवकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि बनाने में भी कभी कभी पूरी कल्पना खर्च करते हैं। बेवकूफी पर हँसने का रवाज बहुत पुराना है। लोग बना बनाया बेवकूफ पाकर हँसते भी हैं और हँसने के लिए बेवकूफ बनाते भी हैं। हास की प्रेरणा की कल्पना को मूर्ख का स्वरूप जोड़ने और वाणी को कुछ शब्द-रचना करने में तत्पर करती है। गोपियाँ कुछ कुछ इसी प्रेरणा-वश उद्धव से नीचे लिखी बात उस समय कहती हैं जब वे घबराकर उठने को तैयार होते हैं—

उद्धव ! जोग बिसरि जनि जाहु ।

बाँधहु गाँठ, कहूँ जनि छूटै, फिरि पाछे पछिताहु ॥

ऐसी वस्तु अनूपम, मधुकर ! मरम न जानै और ।

ब्रजवासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे ही है ठौर ॥

“देखना- अपना योग कहीं भूल न जाना । गाँठ में बाँध रखो; कहीं छूट जाय तो फिर पीछे पछताओ । ऐसी वस्तु जिसका मर्म सिवा तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो चार फालतू दिमागवालों के और कोई जान ही नहीं सकता, ब्रजवासियों के किसी काम की नहीं । ऐसी फालतू चोज के लिए तुम्हारे ही यहाँ जगह होगी, यहाँ नहीं है” । जिसके सखा के दर्शन से विरह से मुरझाई हुई गोपियों में इतनी चपलता आ गई कि वे लड़कों की तरह चिढ़ाने को तैयार हो गई उसके दर्शन से उनमें कितनी सजीवता आती, यह समझने की बात है । ज्ञानयोग पर भी कैसी मीठी चुटकी है । जिसे केवल एक आध आदमी समझते हैं वह वस्तु सबके काम की नहीं हो सकती । उद्धव जब उसे गले लगाते हैं तब गोपियों का भाव बदलता है और वे उन्हें सीधे सादे देवकूप नहीं लगते, बल्कि एक ठग या धूर्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं । यह भावान्तर उनकी कल्पना को कैसा चित्र खड़ा करने में लगाता है, देखिए—

(क) आयो घोष बड़ो व्यापारी !

लादि खेप यह ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥

फाटक दै करहाटक माँगत भोरी निपट सु धारी ।

(ख) ऊधो ! ब्रज में पैठ करी ।

यह निगुन निर्मूल गाठरी श्रव किन करहु खरी ॥

नफा जानिकै ह्यौ लै आए सबै वस्तु अकरी ।

उदाहरण (ख) में ‘निर्मूल’ शब्द कितना अर्थ-गर्भित है । साधारण दृष्टि से तो यही अर्थ दिखाई पड़ता है कि ‘बिना जड़ पते की वस्तुवाली’ अर्थात् जिसमें कुछ भी नहीं है, शून्य है । पर

साथ ही इस अर्थ का भी पूरा संकेत मिलता है—“जिसमें कुछ मूलधन या पास की पूँजी नहीं लगी है” अर्थात् वह (ज्ञान-गठरी) केवल किसी के मुँह से सुनकर इकट्ठी कर ली गई है, उसमें हृदय नहीं लगा है—लग ही नहीं सकता—जो मनुष्य की असल पूँजी है। सूर ने यहाँ जिस बात को इस मार्मिक ढंग से कहा है उसी को गोस्वामी तुलसीदासजी ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर ‘स्वानुभूति’ और ‘वाक्य-ज्ञान’ का भेद बताकर कहा है—

वाक्य-ज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावै कोई ।

जिमि-गृह मध्य दीप की वातन तम निवृत्त नहिं होई ॥

पूर्ण तत्त्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो सकता, यह बात शंकराचार्य्य ऐसे प्रचंड बुद्धि के दार्शनिक को भी माननी पड़ी थी। पारमार्थिक सत्ता के बोध की सम्भावना उन्होंने बहुत कुछ स्वानुभूति द्वारा कही है, केवल शब्दबोध या तर्क द्वारा नहीं। वर्तमान समय का सबसे आगे बढ़ा हुआ दार्शनिक बर्गसन (Bergson) भी कोरी बुद्धि-क्रिया को एकांगी, भ्रान्ति-जनक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति (Intuition) की ओर संकेत कर रहा है। एडवर्ड कार्पेटर ने भी अपनी प्रसिद्ध अँगरेजी पुस्तक Civilization, its Causes and Cure में वर्तमान समय की उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विरोध किया है जिसमें बुद्धि-क्रिया ही सब कुछ मानी गई है, मनुष्य के हृदय-पक्ष तथा स्वानुभूति-पक्ष का एकदम तिरस्कार कर दिया है। उसने ‘शब्दबोध को प्रणाली’ को ‘अज्ञान-प्रणाली’ कहा है। वर्तमान काल के प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर ने भी ‘बुद्धि-रोग’ से छुटकारा, पाने पर खुशी जाहिर की है—“मैं मरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया”। यही पक्ष तुलसी, सूर आदि भक्तों

का भी रहा है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने स्पष्ट कह दिया है कि अज्ञान ही के द्वारा—शब्दबोध के ही सहारे—तो ज्ञान की बातें कही जाती हैं। वे ललकारकर कहते हैं—“ज्ञान कहै अज्ञान विनु, सो गुरु, तुलसीदास”।

जब उद्धव की वक्त्राद्वन्द्व नहीं होती, वे ऐसी बातें बकते ही जाते हैं जो गोपियों को वे सिर पैर की लगती हैं, जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पड़ता, तब वे ऊबकर भुँफला उठती हैं। कहती हैं—“तुमसे कौन सिरपच्ची करे—ऐसी को ठाली बैठी है तोसों मूढ़ खपावै” कह दिया कि तेरा सिर पटकना व्यर्थ है”।

“कत श्रम करत, सुनत को ह्यौं है ? होत ज्यों वन को रोयो ।

सूर इते पै समझत नाहीं, निपट दई को खोयो ॥”

“निपट दई को खोयो”—स्त्रियों की भुँफलाहट के कैसे स्वाभाविक वचन हैं! अन्त में वे उद्धव पर इस प्रकार भुँफला उठती हैं—

(क) ऊधो ! राखति हौं पति तेरी ।

ह्यौं तैं जाहु, दुरहु आगे तैं, देखति आँखि बरति हैं मेरी ॥

ते तौ तैसेई दोउ बने हैं, वै अहीर, वह कंस की चेरी ।

(ख) रहु रे मधुकर मधु-मतवारे !

कहा करौं निर्गुन लैकै हौं ! जीवहु कान्ह हमारे ॥

क्या यह कहने की आवश्यकता है कि इस सारी ‘भुँफलाहट’ और ‘भुँफलाहट’ (उग्रता) की तह में प्रेम की एक अखंड धारा बह रही है ?

यह भुँफलाहट बराबर नहीं रहती। थोड़ी देर में शान्त भाव आ जाता है और ‘भक्ति’ का उदय दिखाई पड़ता है—

(क) ऊधो ! जो तुम हमहि सुनायो ।

सो हम निपट कठिनई करिकै या मन कों समझायो ।

जुगुति जतन करि हमहुँ ताहि गहि सुपथ-पंथ लौं लायो ।
भटकि फिन्यो बोहित के खग ज्यो, पुनि फिरि हरि पै आयो ॥

(ख) मधुकर ! हम जो कहौ करै ।

पठयो है गोपाल कृपा कै, आयसु तैं न टरै ॥
रसना बारि फेरि नव खँड कै दै निरगुन के साथ ।
इतनी तनक बिलग जनि मानहु, अखियाँ नाहीं हाथ ॥

ध्यान रखना चाहिए कि यह 'भक्ति' संचारी भाव है, बुद्धि की स्वतन्त्र निर्लिप्त क्रिया नहीं है। यह कृष्ण के प्रेम का आधार लिए हुए हैं। उद्धव का उपदेश गोपियों के मन में बैठा हो, यह बात नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से उसे मानने का जो प्रयत्न कर रही हैं, वह केवल इस खयाल से कि कृष्ण ने कहलाया है और उनके खास दोस्त कह रहे हैं। यह खयाल आते ही फिर तो वे अपनी विवशता का अनुभव मात्र सामने रखती हैं। वे कहती हैं कि जबान तो कहो हम अभी 'निर्गुण' के हवाले कर दें; तुम्हारी तरह मुँह से 'निर्गुण निर्गुण' बका करें, या जबान ही कटा डालें—सब दिन के लिए मौन हो जायँ। पर आँखों से हम लाचार हैं; वे दर्शन की लालसा नहीं छोड़ सकतीं।

कभी कभी उनकी वृत्ति अत्यन्त दीन और नम्र हो जाती है और उनके मुँह से ऐसे वचन निकलते हैं—

(क) ऊधो ! हम हैं तुम्हरी दासी ।

काहे को कटु वचन कहत हौ, करत आपनी हाँसी ॥

(ख) अपने मन सुरति करत रहिवी ।

ऊधो ! इतनी बात स्याम सौ समय पाय कहिवी ।

घोष बसत की चूक हमारी कछू न जिय गहिवी ॥

कहाँ वह 'उग्रता' और कहाँ यह अदब से भरी 'दीनता' !

ऐसी ही दशा के बीच राधा अपनी सखी से अपनी उस विह्वलता या 'मोह' की बात कहती हैं जिसके कारण उद्धव के आगे कुछ कहते नहीं बनता—

सँदेसो कैसे कै अब कहीं ?

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लों देति रहीं ?

जो कछु विचार होय उर अंतर रचि पचि सोचि गहीं ।

मुख आनत, ऊधो तन चितवत न सो विचार, न हों ॥

इस प्रकार वे अपनी दुःख-दशा कहते कहते थक जाती हैं। फिर वे सोचती हैं कि हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित् उतना ध्यान न दें; इससे वे नन्द और यशोदा की व्याकुलता का वर्णन करती हैं; गायों का दुःख सुनाती हैं कि कदाचित् उन्हीं का खयाल करके वे एक वार आ जायँ—

ऊधो ! इतनी कहियो जाय ।

अति कृसगात भई हैं तुम त्रिनु बहुत दुखारो गाय ॥

जल-समूह बरसत अँखियन तें, हूँकति लीन्हें नावें ।

जहाँ जहाँ गोदोहन करते हूँदति सोइ सोइ ठावें ॥

कृष्ण किसी प्रकार आवें, वस यही अभिलाप सबसे ऊपर है। वे किसी के खयाल से आवें; आवें तो सही। बदले में कृष्ण भी वैसा ही प्रेम रखें, इतनी बड़ी बात की आशा गोपियों से अब नहीं करते बनती। अब तो वे बहुत थोड़े में सन्तुष्ट होने को तैयार हैं। केवल उनका दर्शन पा जायँ, वस। यह तोष-वृत्ति नैराश्यजन्य है। नीचे के पद में जो 'ज्ञाना' या 'उदारता' है वह भी अभाव के दुःख की ही ओर से आती हुई जान पड़ती है—

ऊधो ! कहियो यह संदेस ।

लोग कहत कुवजा-रस माते, तातें, तुम सकुचौ जनि लेस ॥

जिसके न रहने से जीवन की धारा ही खंडित जान पड़ती है उसके दोषों का ध्यान कैसा ? वह आवे, चाहे दो चार और दोष भी साथ लगाता आवे। यह चीज की वह कदर है जो उसके न रहने पर मालूम होती है। वियोग के अन्तर्गत यह हृदय की बड़ी ही उदार दशा है। इसमें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही नहीं। यह दशा दूसरे के दोषों को ही आँख के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में भी दोष सुझाने लगती है। प्रेम द्वारा आत्मशुद्धि का यह विधान कैसा अचूक है ! राधा अपनी एक एक त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं और व्याकुल होती हैं—

मेरे मन इतनी सूल रही ।

वै बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नँदलाल कहीं ॥

एक दिवस मेरे गृह आए, मैं ही मथति दही ।

देखि तिन्है हौं मान कियो, सो हरि गुसा गही ॥

कभी कभी उन्हें अपने प्रेम की ही कमी पर पछतावा होता है—

कहाँ लगि मानिए अपनी चूक ।

बिनु गोपाल, ऊधो ! मेरी छाती है न गई है टूक ॥

वियोग गोपियों के हृदय को कभी कभी कैसा कोमल, उदार और सहिष्णु कर देता है, इसकी कैसी अनुताप-मिश्रित सूचना इस पद में है—

फिर ब्रज बसहु, गोकुलनाथ !

बहुरि तुमहिं न जगाय पठायौं गोधनन के साथ ॥

बरजौं न माखन खात कबहूँ, देहुँ देन लुटाय ।

कबहूँ न दैहौं उराहनो जसुमति के आगे जाय ॥

दौरि दाम न देहुँगी, लकुटि न जसुमति पानि ।

चोरी न देहुँ उघारि, किए अवगुन न कहिहौं आनि ॥

कहिहों न तुमसों मान हठ, हठिहों न माँगत दान ।
 कहिहों न मृदु मुरली बजावन, करन तुमसों गान ॥
 कहिहों न चरनन देन जावक, गुहन वेनी फूल ।
 कहिहों न करन सिंगार बट-तर बसन जमुना-कूल ॥
 भुज भूषनन जुत कंध धरि कै रास नाहिं कराउँ ।
 हों सँकेत-निकुंज बसि कै दूति-मुख न बुलाउँ ॥
 एक वार जो देहु दरसन प्रीति-पंथ बसाय ।
 करों चौर चढ़ाय आसन नैन अँग अँग लाय ॥
 देहु दरसन, नंदनंदन ! मिलन ही की आस ।
 सूर प्रभुकी कुँवर-छवि को मरत लोचन प्यास ॥

इन मर्म-भरी भोली-भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुताप, अधीनता और त्याग के उद्गार हैं उनका यह प्रेम-गर्वसूचक वाक्य 'कहिहों न चरनन देन जावक' स्मर्यमाण विषय होने के कारण विरोधी नहीं होता। उक्त पद में ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम अब किस प्रकार चपल क्रीड़ा-वृत्ति छोड़ शांत आराधना के रूप में परिणत होने को तैयार हो गया है। यह प्रेम का भक्ति में पर्यवसान है। सुख-क्रीड़ा-त्याग-रूप विरति-पक्ष दिखाकर मानो सूर ने भक्ति-मार्ग के शांत रस का स्वरूप दिखाया है।

आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा वहाँ समझनी चाहिए जहाँ प्रेमी निराश होकर प्रिय के दर्शन का आग्रह भी छोड़ देता है। इस अवस्था में वह अपने लिये प्रिय से कुछ चाहना छोड़ देता है और उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है कि प्रिय चाहे जहाँ रहे, सुख से रहे; उसका बाल भी बाँका न हो—

जहँ जहँ रहौ राज करौ तहँ तहँ, लेहु कोटि सिर भार ।

यह असीस हम देति सूर सुनु 'न्हात खसै जनि वार' ॥

विरहोन्माद की गहरी व्याकुलता के बीच में भी यह कामना बराबर बनी रहती है। गोपियों को वियोग में चन्द्रमा तपते सूर्य, गाय-बछड़े बाघ और भेड़िये जान पड़ रहे हैं। वे उद्धव से कहती हैं—‘तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो ; कह देना कि जब तक ये सब आफतें यहाँ से टल न जायँ, तब तक वे वही रहें ; ऐसी हालत में यहाँ न आवें’—

ऊधो ! इतनी जाय कहौ ।

सब बल्लभी कहति हरि सों ‘ये दिन मधुपुरी रहौ ॥

आज कालि तुमहू देखत हौ तपत तरनि सम चंद ।

सुंदर स्याम परम कोमल तनु, क्यों सहिहैं नँदनंद ॥

मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति वन उपवन चढ़ि बोलत ।

सिंह वृकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत ॥

तुम तौ परम साधु कोमलचिंत जानत हौ सब रीति ।

सूर स्याम को क्यों बोलैं ब्रज त्रिन टारे यह ईति’ ॥

विरही घोर दुःख सहता हुआ भी यह कभी मन में नहीं लाता कि यह प्रेम दूर हो जाता तो अच्छा था। कोई मंत्रशास्त्री आकर कहे—‘अच्छा, हम वह प्रेम ही मंत्रबल से उड़ाए देते हैं जो सारे बखेड़े की जड़ है’ तो कोई वियोगी शायद ही तैयार होगा—चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि ‘प्रीति करि काहू सुख न लह्यो’। और दुःखों से वियोग-दुःख में यही विशेषता है। वियोगी रस्सी तुड़ाकर प्रेम के बाड़े के बाहर नहीं भागना चाहता। गोपियाँ प्रेम-क्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के प्रति कैसी उपेक्षा या लापरवाई प्रकट करती है—

मधुकर ! कौन मनायो मानै ?

सिखबहु तिनहिं समाधि की बातें जे हैं लोग सयाने ।

हम अपने ब्रज ऐसेइ वसिहैं विरह-नाय-बौराने ॥

वे उद्धव को उलटा समझाती हैं कि विरह से भी प्रेम की पुष्टि होती है, वह पक्का होता है—

ऊधो ! विरहो प्रेम करै ।

ज्यों विनु पुट पट गहै न रंगहि, पुट गहे रसहि परै ।

जौ आर्वों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरै ॥

इसे प्रेम-सिद्धांत का उपदेश मात्र समझकर न छोड़िए, भाव के स्वरूप पर भी ध्यान दीजिए । यह प्रतिकूल स्थिति की अनि-वार्यता से उत्पन्न 'आत्मसमाधान' की स्वाभाविक वृत्ति है । एक अफ्रीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे थे । जिधर उन्हें जाना था उधर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी । जब बहुत मोड़ने पर भी वह न मुड़ी तब उन्होंने वाग ढीली करके कहा—'अच्छा, चल ! इधर भी मेरा काम है' । इसी प्रकार की अन्तर्वृत्ति इस वाक्य से भी झलकती है—

हम तौ दुहूँ भाँति फल पायो ।

जौ ब्रजनाथ मिलैं तौ नीको, नातरु जग जस गायो ।

यह तो 'आत्मसमाधान' हुआ । दूसरे की कोई बात न मानने पर मन में कुछ खटक सी रहती है कि इसे दुःख पहुँचा होगा । अपनी इस खटक को मिटाने के लिए दूसरे के समाधान की प्रवृत्ति होती है ; जैसे—

ऊधो ! मनमाने की बात ।

जरत पतंग दीप में जैसे औ फिरि फिरि लपटात ।

रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! सति अकास भरमात ॥

इस समाधान के अतिरिक्त 'धृति' की भी व्यंजना देखिए—

अब हमारे जिय बैठ्यो यह पद 'होनी होउ सो होऊ' ।

मिटि गयो मान परेखो, ऊधो ! हिरदय हतो सो होऊ ॥

'भ्रमरगीत' में कुब्जा का नाम भी बार बार आया है । इसके कारण 'असूया' की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंजनाएँ मिलती हैं । जब उद्धव कृष्ण का संदेश कह कर अपनी ज्ञान-चर्चा छेड़ते हैं तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण का संदेश नहीं जान पड़ता; यह तो उसी कुबड़ी पीठवाली की कारस्तानी मालूम पड़ती है—

मधुकर ! कान्ह कही नहिं होहीं ।

यह तौ नई सखी, सिखई हैं निज अनुराग बरोहीं ॥

सचि राखी कूबरी पीठ पै ये बातें चकचोही ।

फिर वे 'असूया' का भाव इन साफ़ शब्दों में प्रकट करती हैं कि इस समय कृष्ण की चहेती कुब्जा का ही जीवन सफल है—

जीवन मुँहचाही को नीको ।

दरस परस दिन राति करति है कान्ह पियारे पी को ॥

वे उद्धव से कहती हैं कि तुम अपनी ज्ञान-कथा वहीं रखो जहाँ इस समय खूब आनंद-मंगल हो रहा है; यहाँ जगह नहीं है—

या कहँ यहाँ ठौर नाही, लै राखो जहाँ सुचैन ।

हम सब सखि गोपाल उपासिनि हमसों बातें छाँड़ि ।

सूर, मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुब्जा के घर गाड़ि ॥

'वहीं कुब्जा के घर गाड़ रखो' स्त्रियों के मुख के कैसे जले कटे स्वाभाविक शब्द हैं ! संदेश का उत्तर थोड़े ही में वे यह देती हैं कि यदि यह ज्ञानयोग ऐसी उत्तम वस्तु है तो इसे उस कुबड़ी

को दो ; हमारे सामने वह (कृष्ण का) रूप ही कर दो ; हम अपना उसी को देखा करें—

पा लागों कहियो मोहन सों जोग कूवरी दीजै ।

सूरदास प्रभु-रूप निहारै, हमरे संमुख कीजै ॥

वे कृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण कुवड़ी दासी के प्रेम-जाल में फँस गए, इस पर देखिए कैसी मीठी चुटकी और कैसा कुतूहलपूर्ण कृत्रिम संतोष प्रकाशित किया गया है—

वरु वै कुवजा भलो कियो ।

सुनि सुनि समाचार, ऊधो ! मो कछुक सिरात हियो ॥

जाको गुन, गति, नाम, रूप हरि हान्यो फिरि न दियो ।

तिन अपनो मन हस्त न जान्यो, हँसि हँसि लोग जियो ॥

शुद्ध हृदय की कैसी भाव-प्रेरित वचन-रचना है ! इसी प्रकार की वाग्बद्धता और वक्रता (वाँकपन) उद्धव के 'निराकार' शब्द पर आगे गोपियों की विलक्षण उक्ति में दिखाई पड़ती हैं । वे राधा को संबोधन करके कहती हैं—

मोहन माँग्यो अपनो रूप ।

या ब्रज बसत अँचै तुम वैठी, ता त्रिनु तहाँ निरूप ॥

'कृष्ण का रूप तो तुम पी गई हो', वह तुम्हारे हृदय में रह गया है (तुम निरंतर उनके रूप का ध्यान करती रहती हो) इससे वे वहाँ 'निरूप'—विना आकार के—हो रहे हैं । उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना वही रूप माँग भेजा है कि निराकारता मिटे । तुम जो रात दिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो

उसे भी उद्धव छुड़ाने आए हैं, यह बात कितने टेढ़े ढंग से, किस वक्रता के साथ, प्रकट की गई है ! वाणी ने यह वक्रता हृदय की प्रेरणा से, उठते हुए भावों की लपेट में, ग्रहण की है । इसकी तह में भावस्रोत छिपा हुआ है ।

ऐसे ही बाँकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान हृदय से न निकलने का कारण बताती है—

उर में माखनचोर गड़े ।

अब कैसेहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे है जो अड़े ॥

जो लंबी चीज़ किसी वरतन में जाकर तिरछी हो जायगी वह बड़ी मुश्किल से निकलेगी । कृष्ण की मूर्ति का राधा जब ध्यान करने लगती हैं तब उनकी त्रिभंगी मूर्ति ही ध्यान में आती है, इसी से वह मन में अटक सी गई है, निकलती नहीं है ।

वचन की जो वक्रता भाव-प्रेरित होती है, वही काव्य होती है । 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' से यही वक्रता अभिप्रेत है, वक्रोक्ति अलंकार नहीं । भावोद्रेक से उक्ति में जो एक प्रकार का बाँकपन आ जाता है, तात्पर्य-कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है । भाव-प्रसूत वचन-रचना में ही भाव या भावना तीव्र करने की क्षमता पाई जाती है । कोई मनुष्य किसी को बड़ा बहादुर कह रहा है । दूसरे से सुनकर रहा नहीं जाता; वह कहता है—'हाँ ! तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े थे' कहनेवाला सीधी तरह से कह सकता था—'वह बहादुर नहीं, भारी डरपोक है ; बिल्ली देखकर डर जाता है' । पर इस सीधे

वाक्य से उसका संतोष नहीं हो सकता था। भीरु को वीर सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय में उठी उसने श्रोताओं को भी उपहासोन्मुख करने के लिए विल्ली से डरने को बहादुरी के सबूत में पेश करा दिया। काव्य की उक्ति का लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का बोध कराना नहीं; बल्कि उस वस्तु या विषय के संबंध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना होता है। तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचार-पद्धति पर लाना चाहता है उसी प्रकार कवि अपनी भाव-पद्धति पर।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'विदग्धता' वहीं तक काव्योपयोगी हो सकती है जहाँ तक वह भाव-प्रेरित हो—जहाँ तक उसका कारण कोई भाव या कर्म से कम कोई रागात्मक दशा हो। 'विदग्धा नायिका' की वचन-विदग्धता या क्रिया-विदग्धता में काव्य की रमणीयता इसीलिए होती है कि उसकी तह में रति-भाव वर्तमान रहता है। किसी पुराने चोर या चाई की विदग्धता का व्योरेवार वर्णन काव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता; क्योंकि उसमें रसात्मकता नहीं। सूर ने कई स्थलों पर बालक कृष्ण की वचन-विदग्धता दिखाई है; जैसे—

मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि ।

सोई जाय तुम्हारे ढोय लीनो है पहिचानि ॥

बूझी ग्वालिन घर में आयो, नेकु न संका मानी ।

सूर स्वाम यह उतर बनायो 'चींठी काढ़त पानी' ॥

इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि इससे बाल-प्रकृति का चित्रण होता है और यह भय-प्रेरित है।

अब सूर ने अपने सिद्धान्त-पत्र का जो काव्यात्मक निरूपण किया है थोड़ा उसे भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समाप्त करते हैं। उद्धव के ज्ञानयोग का पूरा लेक्चर सुनकर और उसे अपने सीधेसादे प्रेममार्ग की अपेक्षा कहीं दुर्गम और दुर्बोध देखकर गोपियाँ कहती हैं—

काहे को रोकत मारग सूधो ?

सुनहु मधुप ! निर्गुन-कंटक तैं राजपंथ क्यों रूँधो ?

ताको कहा परेखो कीजै जानत छाँछ न दूधो ।

सूर मूर अक्रूर गए लै ब्याज निबेरत ऊधो ॥

हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रही हैं। उस मार्गमें तुम ये निर्गुण-रूपी काँटे क्यों बिछाते हो ? हमारा रास्ता क्यों रोकते हो ? जैसे तुम्हारे लिए रास्ता है वैसे ही हमारे लिए भी है। तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते। एक दूसरे का रास्ता रोकने क्यों जाय ? भक्ति और ज्ञान के सम्बन्ध में सूर का यही मत समझिए। वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्ति-विरोधी ज्ञान के विरोधी हैं। गोपियों से वे उद्धव की बातों के अन्तिम उत्तर के रूप में कहलाते हैं—

वार वार ये वचन निवारो ।

भक्ति-विरोधी ज्ञान तिहारो ॥

मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका वृत्ति और बोध वृत्ति दोनों के मेल में है। अतः इनमें किसीका निषेध उचित नहीं। कोई एक की ओर मुख्यतः प्रवृत्त रहता है, कोई दूसरे की ओर।

कुछ ऐसे पूर्ण-प्रज्ञ भी होते हैं जिनमें हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष दोनों की पूर्णता रहती है। वल्लभाचार्यजी ऐसे ही थे।

सूरदासजी वल्लभाचार्यजी के शिष्यों में से थे। वल्लभाचार्यजी ज्ञान-मार्ग की ओर तो वेदान्त की एक शाखा के प्रवर्तक थे और भक्ति-मार्ग की ओर एक अत्यन्त प्रेमोपासक सम्प्रदाय के। वल्लभाचार्यजी का अद्वैतवाद 'शुद्धाद्वैत' कहलाता है। रामानुजा-चार्यजी ने अद्वैत को दो पक्षों (चित् और अचित्) से युक्त या विशिष्ट दिखाया था। वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया। उन्होंने निरूपित किया कि सत्, चित् और आनन्द स्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव (विकास) और तिरोभाव करता रहता है। जड़ जगत् भी ब्रह्म ही है, पर अपने चित् और आनन्द स्वरूपों का पूर्ण तिरोभाव किए हुए तथा सत् स्वरूप का कुछ अंशतः आविर्भाव किए हुए। चेतन जगत् भी ब्रह्म ही है जिसमें सत्, चित्, आनन्द इन तीनों स्वरूपों का कुछ आविर्भाव और कुछ तिरोभाव रहता है। इस सिद्धान्त में मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं माना गया है। माया ब्रह्म ही की शक्ति मानी गई है जो उसी की इच्छा से विभक्त होती है। जीव अपने शुद्ध ब्रह्म-स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं और यह बात केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे 'पुष्टि' या 'पोषण' कहते हैं, हो सकती है। इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए वल्लभाचार्य ने एक विस्तृत उपासना-पद्धति भी चलाई, जिसे 'पुष्टि-मार्ग' कहते हैं। रामानुज और वल्लभ दोनों का मोक्ष कैवल्य से भिन्न है। रामानुज की मुक्ति सारूप्य या सालोक्य मुक्ति है, वल्लभ की सायुज्य। जिस प्रकार वल्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानन्द की दशा है उसी प्रकार उनके उपास्य भी प्रेम-मूर्ति कृष्ण हैं।

जगत् के नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड़

रही है, उसका जो सगुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार-बार निषेध और निर्गुण ब्रह्म का अत्यन्त सूक्ष्म निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम क्यों व्यर्थ तिनके की ओट में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छिपाने का उद्योग कर रहे हो—

सुनिहै कथा कौन निर्गुन की, रचि पचि बात बनावत ।

सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृन की ओट दुरावत ॥

उद्धव के ब्रह्म-निरूपण का कुछ भी आशय गोपियों की समझ में नहीं आता । वे पूछती हैं कि वह बिना रूप-रेखावाला तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी होता है, तुम्हें आकर्षित और मोहित भी करता है—

रेख न रूप, बरन जाके नहिं ताको हमैं बतावत ।

अपनी कहौ, दरस वैसे कौ तुम कबहूँ हौ पावत ?

मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत ?

नैन बिसालं, भौंह बंकट करि देख्यो कबहूँ निहारत ?

तन त्रिभंग करि, नटवर बपु धरि पीतांबर तेहि सोहत ?

सूर स्याम ज्यों देत हमैं सुख त्यों तुमको सोउ मोहत ?

‘बतावत’ पद में असंगतता किस प्रकार व्यंग्य है ! जिसकी न कोई ‘रूप-रेखा’ न वर्ण उसे बताना या बताने का प्रयत्न करना असंगत ही है । बताई वह वस्तु जाती है जिसका कुछ विशिष्ट स्वरूप होता है । पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट अर्थ व्यक्त न होने पर भी कुछ शब्दों और वाक्यों को बार-बार दुहराना ही तो किसी वस्तु का सम्यक् साक्षात्कार नहीं है । यदि किसी प्रकार मान भी

लें कि तुमने उस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को समझा है तो यह बताओ कि वह स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता भी है, तुम्हें कुछ आकर्षित भी करता है ? यदि नहीं, तो वह व्यवहार या उपासना के योग्य नहीं, केवल तर्क-वितर्क के लिए ही है ।

गोपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन लगाने को कहते हो उसकी कोई ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताओ जिस पर मन ठहराया जा सके । पहले तो देश और काल के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो—

निर्गुण कौन देश को वासी ?

मधुकर ! हँसि समझाय; सौँह दे वृक्षति सौँच, न हाँसी ।

स्त्रियों के कैसे स्वाभाविक हाव-भाव-भरे ये वचन हैं—
“कसम है, हम ठीक-ठीक पूछती हैं, हँसी नहीं, कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ का रहनेवाला है” । कुछ विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्टता—कितनी बातें इस छोटे से वाक्य से टपकती हैं !

ज्ञान-मार्गी वेदांतियों और दार्शनिकों के सिद्धांतों की लोक में अव्यवहार्यता तथा उनके वेडौल और भड़कीले शब्दों के अर्थों की अस्पष्टता और दुर्वोधता आदि की ओर गोपियों की यह भँकलाहट कैसा संकेत कर रही है—

याकी सीख सुनै ब्रज को, रे ।

जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समुक्ति अति थोरे ॥

‘इसकी बात कौन सुने जो कहता कुछ है और करता कुछ है; तथा जो ऐसी बातें मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम समझता है’ । पिछले कथन से सबके नहीं तो अधिकांश ब्रह्म ज्ञान

छाँटनेवालों के स्वरूप का चित्रण हो जाता है। वे बहुत से ऐसे बँधे हुए वाक्यों और शब्दों की झड़ी बाँधा करते हैं जिनके अर्थ की स्पष्ट धारणा उन्हें कुछ भी नहीं रहती। बिना समझी हुई बातें बककर वे लोगों के बीच बड़े समझदार बना करते हैं।

निर्गुण की नीरसता और सगुण की सरसता किस प्रकार अपने हृदय के सच्चे अनुभव के रूप में गोपियाँ उद्धव के सामने क्या जगत् के सामने रखती हैं।

उनो कर्म कियो मातुल बधि मदिरा-मत्त प्रमाद ।

सूरस्थाम एते अवगुन में निर्गुन तें अति स्वाद ॥

ज्ञान-मार्ग का गोपियों ने तिरस्कार तो किया, पर यह सोच कर कि कहीं उद्धव का जी न दुखा हो, वे उनका समाधान भी करती हैं। वे समझती हैं कि ज्ञान-मार्ग को हम बुरा नहीं कहती हैं, वह अत्यन्त श्रेष्ठ मार्ग है; पर अपनी रुचि को हम क्या करें? वह हमारे अनुकूल नहीं पड़ता। रुचि-भिन्नता दो समान वस्तुओं में भी भेद करके एक ओर आकर्षित करती है और दूसरी से दूर रखती है—

ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान ।

द्वै लोचन जो विरद किये खुति गावत एक समान ।

भेद चकोर कियो तिनहू में विधु प्रीतम, रिपु भान ॥

उद्धव अपनी सी कहते जा रहे हैं कि बीच में कोयल बोले उठती है। गोपियाँ चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हैं—

ऊधो ! कोकिल कूजत कानन ।

तुम हमको उपदेस करत हौ भस्म लगावन आनन ।

वह सुनो ! कोयल कूक रही है । तुम तो हमें राख मलने को कह रहे हो ; उधर प्रकृति क्या कह रही है, वह भी सुनो ।

‘भ्रमरगीत’ की भूमिका के रूप में ही यहाँ सूर के सम्बन्ध में कुछ विचार संक्षेप में प्रकट किए गए हैं । आशा है विस्तृत आलोचना का अवसर भी कभी मिलेगा ।

गुरुधाम, काशी
श्री पंचमी सं० १९८२

रामचन्द्र शुक्ल

अभरगीत-सार

भ्रमरगीत-सार

श्रीकृष्ण का वचन उद्धव-प्रति

राग सारंग

पहिले करि परनाम नंद सों समाचार सब दीजो ।
और वहाँ वृषभानु गोप सों जाय सकल सुधि लीजो ॥
श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो^१ भेंटियो ।
सुख-संदेस सुताय हमारो गोपिन को दुख मेटियो ॥
मंत्री इक वन बसत हमारो ताहि मिले सचु^२ पाइयो ।
सावधान ह्वै मेरे हुतो ताही माथ नवाइयो ॥
सुंदर परम किसोर बयक्रम चंचल नयन बिसाल ।
कर मुरली सिर मोरपंख पीतांबर उर वनमाल ॥
जनि डरियो तुम सघन वनन में ब्रजदेवी रखवार ।
वृंदावन सो बसत निरंतर कबहुँ न होत नियार^३ ॥
उद्धव प्रति सब कही स्यामजू अपने मन की प्रीति ।
सूरदास किरपा करि पठए यहै सकल ब्रजरीति ॥ १ ॥

राग सोरठ

कहियो नंद कठोर भए ।
हम दोउ बीरै^४ डारि पर-घरै मानो थाती सौंपि गए ॥
तनक तनक तैं पालि बड़े किए बहुते सुख दिखराए ।

(१) हुतो = ओर से, तरफ से । (२) सचु = सुख । (३) नियार =
गरे, अलग । (४) बीरै = भाई ।

गोचारन को चलत हमारे पाछे कोसक धाए ॥
 ये वसुदेव देवकी हमसों कहत आपने जाए ।
 बहुरि विधाता जसुमतिजू के हमहि न गोद खिलाए ॥
 कौन काज यह राज, नगर को सब सुख सों सुख पाए ?
 सूरदास ब्रज समाधान^१ करु आजु काल्हि हम आए ॥ २ ॥

राग विलावल

तवहि उपँगसुत^२ आय गए ।

सखा सखा कछु अंतर नार्ही भरि भरि अंक लेए ॥
 अति सुंदर तन स्याम, सरीखो देखत हरि पछिताने ।
 ऐसे को वैसी बुधि होती ब्रज पठवै तब आने ॥
 या आगे रस-काव्य प्रकासे जोग-बचन प्रगटावै ।
 सूर ज्ञान हृदय के हिरदय जुवतिन जोग सिखावै ॥ ३ ॥

हरि गोकुल की प्रीति चलाई ।

सुनहु उपँगसुत मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई ॥
 यह चित होत जाउँ मैं अबही, यहाँ नहीं मन लागत ।
 गोप सुगवाल गांय वन चारत अति दुख पायो त्यागत ॥
 कहँ माखन-चोरी ? कह जसुमति 'पूत जेव' करि प्रेम ।
 सूर स्याम के वचन सहित^३ सुनि व्यापत आपन नेम ॥ ४ ॥

राग रामकली

जदुपति लख्यो तेहि मुसकात ।

कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात ॥
 वचन परगट करन लागे प्रेम-कथा चलाय ।

(१) समाधान = प्रबोध, तसल्ली । (२) उपँगसुत = उद्धव ।

(३) सहित = हित या प्रेम युक्त ।

सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराय ॥
 रैनि सोवत, चलत, जागत लगत नहि मन आन ।
 नंद जसुमति नारि नर ब्रज जहाँ मेरो प्रान ॥
 कहत हरि, सुनि^१ उषंगसुत ! यह कहत हौ रसरोति ।
 सूर चित तें टरति नाही राधिका की प्रीति ॥ ५ ॥

राग सारंग

सखा ! सुनो मेरी इक बात ।
 वह लतागत संग गोपिन सुधि करत पछितात ॥
 कहाँ वह बृषभानुत्तनया परम सुंदर गात ।
 सुरति आए रासरस की अधिक जिय, अकुलात ॥
 सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या-जात ।
 सूर प्रभु यह सुनौ मोसों एक ही सों नात ॥ ६ ॥

राग टोड़ी

उद्धव ! यह मन निश्चय जानो ।
 मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो^२ ॥
 पूरन ब्रह्म, सकल, अविनासी ताके तुम हौ ज्ञाता ।
 रेख, न रूप, जाति, कुल नाही जाके नहि पितु माता ॥
 यह भत दै गोपिन कहँ आवहु विरह-नदी में भासति^३ ।
 सूर तुरत यह जाय कहौ तुम ब्रह्म बिना नहि आसति^४ ॥ ७ ॥

राग नट

उद्धव ! वेगि ही ब्रज जाहु ।
 सुरति सँदेस सुनाय भेटौ बल्लभिन^५ को दाहु ॥

(१) सुनि = सुन । (२) पलानो = जाओ, प्रस्थान करो (३) भासति =
 झूचती है । (४) आसति = आसति, सामीप्य, मुक्ति । (५) बल्लभी = ध्यारी ।

५ स्वरूप कास्र पावक, तूलमय तन, विरह-स्वास समीर ।
 भसम नाहिन होन पावतु लोचनन के नीर ॥
 अजौ लौ यहि भाँति है है कछुक सजग सरीर ।
 इते पर विनु समाधाने क्यों धरै तिय धीर ॥
 कहाँ कहा बनाय तुमसों सखा साधु प्रवीन ?
 सूर सुमति विचारिए क्यों जियै जल विनु मीन ॥ ८ ॥

राग सारंग

पथिक ! सँदेसों कहियो जाय ।

आवैंगे हम दोनों भैया, भैया जनि अकुलाय ॥
 ते याको विलगु^१ बहुत हम मान्यो, जो कहि पठयो धाय^२ ।
 कहँ लौ कीर्ति मानिए तुम्हरी, वड़ो कियो प्रय प्याय ॥
 कहियो जाय नंद बाबा सों, अरु गहि पकन्यो पाय ।
 दोऊ दुखी होन नहि पावहि धूमरि धौरी^३ गाय ॥
 यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम विनु कछु न सुहाय ।
 सूरदास ब्रजवासी लोगनि भेंटत हृदय जुड़ाय ॥ ९ ॥

नीके रहियो जसुमति भैया ।

आवैंगे दिन चारि पाँच में हम हलधर दोउ भैया ॥
 जा दिन तैं हम तुमतेँ विछुरे काहु न कह्यो 'कन्हैया' ।
 कवहूँ प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पोन्ही^४ घैया^५ ॥
 वंसी वेनु सँभारि राखियो और अवेर सवेरो ।
 मति लै जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो मेरो ॥

(१) विलग मानना = बुरा मानना । (२) धाय = दाई । यशोदा ने
 ए के मथुरा जाने पर देवकी के पास कहला भेजा था कि—“हैं तो
 धात्र तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो” (३) धौरी = सफेद । (४)
 पोन्ही = पी । (५) घैया = थन से सीधी छूटती दूध की धारा ।

कहियो जाय नंद बाबा सों निपट निठुर जिय कीन्हो ।
सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी^१ बहुरि सँदेस न लीन्हो ॥१०॥

राग कल्याण

उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो ।

जटुपति जोग जानि जिय साँचो, नयन अकास चढ़ायो ॥

नारिन पै मोको पठवत हौ कहत सिखावन जोग ।

मनहीं मन अब करत प्रसंसा है मिथ्या सुख-भोग ॥

आयसु मानि लियो सिर ऊपर प्रभु-आज्ञा परमान ।

सूरदास प्रभु पठवत गोकुल मैं क्यों कहौ कि आन ॥११॥

जब मातिका ही मंगरूदा है तो मै और बात कैसे कहूँ

उद्धव प्रात कुञ्जा क वाक्य

राग सारंग

सुनियो एक सँदेसो ऊधो तुम गोकुल को जात ।

ता पाछे तुम कहियो उनसों एक हमारी बात ॥

मात-पिता को हेत जानि कै कान्ह मधुपुरी आए ।

नाहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥

समुझौ वूझौ अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हो ।

कह वालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबै आप-वस कीन्हो ॥

और जसोदा माखन-काजै बहुतक त्रास दिखाई ।

तुमहिं सबै मिलि दाँवरि दीन्ही रंच^२ दया नहिं आई ॥ ?

अरु वृषभानसुता जो कीन्ही सो तुम सब जिय जानो ।

याही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो ?

सूरदास यह सुनि सुनि बातें स्याम रहे सिर नाई ।

इत कुञ्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु वनि आई ॥१२॥

(१) मधुपुरी = मथुरा । (२) रंच = तनिक, ज़रा भी ।

उद्धव का ब्रज में आना

राग मलार

कोऊ आवत है तन स्याम ।

वैसेइ पट, वैसिय रथ-वैठनि, वैसिय है उर दाम ॥

जैसी हुति उठि तैसिय दौरिं, छाँड़ि सकल गृह-काम ।

रोम पुलक, गदगद भई तिहि छन सोचि अंग अभिराम ॥

इतनी कहत आय गए ऊधो, रहीं ठगी तिहि ठाम ।

सूरदास प्रभु ह्यौ क्यों आवै वँधे कुञ्जा-रस स्याम ॥१३॥

उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना

राग मलार ३. श्री रक्त सप्त ५०

है कोई वैसीई अनुहारि ।

मधुवन तें इत आवत, सखि री ! चितौ तु नयन निहारि ॥

माथे मुकुट, मनोहर कुंडल, पीत वसन रुचिकारि ।

रथ पर वैठि कहत सारथि सों ब्रज-तन^१ बाँह पसारि ॥

जानति नाहिंन पहिचानति हौं मनु वीते जुग चारि ।

सूरदास स्वामी के विछुरे जैसे मीन बिनु वारि ॥१४॥

राग सोरठ

देखो नंदद्वार रथ ठाढ़ो ।

बहुरि सखी सुफलकसुत^२ आयो परथो सँदेह उर गाढ़ो ॥

प्राण हमारे तवहिं गयो तौ अब केहि फारन आयो ।

जानति हौं अनुमान सखी री ! कृपा करन उठि धायो ॥

इतने अंतर आय उपांगसुत तेहि छन दरसन दीन्हो ।
 तब पहिचानि सखा हरिजू को परम सुचित तन कीन्हो ॥
 तब परनाम कियो अति रुचि सों और सबहि कर जोरे ।
 सुनियत रहे तैसेई देखे परम चतुर मति-भोरे ॥
 तुम्हरो दरसन पाय आपनो जन्म सफल करि जान्यो ।
 सूर ऊधो सों मिलत भयो सुख ज्यों भूख पायो पान्यो २ ॥१॥

कहौ कहाँ तें आए हौ ।

जानति हौ अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हो ॥
 वैसोई बरन, बसन पुनि वैसेइ, तन भूषन सजि ल्याए हौ ।
 सरबसु लै तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हौ ॥
 सुनहु, मधुप ! एकै मन सबको सो तो वहाँ लै छाए हौ ।
 मधुवन की मानिनी मनोहर तहँहिं जाहु जहँ भाए हौ ॥
 अब यह कौन सयानप ? ब्रज पर का कारन उठि धाए हौ ।
 सूर जहाँ लौं स्यामगात हैं, जानि भले करि पाए हौ ॥१६॥

राग नट

३

A

ऊधो को उपदेस सुनौ किन कान दै ? —

सुंदर स्याम सुजान पठायो मान दै ॥ ध्रुव ॥

कोउ आयो उत तायँ जितै नँदसुवन सिधारे ।

वहै वेनु-धुनि होय मनो आए नँदप्यारे ॥

धाई सब गलगाजि कै^३ ऊधो देखे जाय ।

बै आई ब्रजराज पै हो, आनँद उर न समाय ॥

अरघ आरती, तिलक, डूब, दधि माथे दीन्ही ।

(१) भोरे = भोले । (२) पान्यो = पानी । भूख पायो पान्यो = मछली

पानी पाया । (३) गलगाजि कै = आनंदित होकर ।

कंचन-कलस भराय आनि परिकरमा कीन्हौ ॥
 गोप-भीर आँगन भई मिलि बैठे यादवजात^१ ।
 जलभारी आगे धरी, हो, वृष्ति हरि कुसलात ॥
 कुसल-छेम वसुदेव, कुसल देवी कुवजाऊ ।
 कुसल-छेम अक्रूर, कुसल नीके वलदाऊ ॥
 पूछि कुसल गोपाल की रहौ सकल गहि पाय ।
 प्रेम-भगन ऊधो भए, हो, देखत ब्रज को भाय^२ ॥
 मन मन ऊधो कहै यह न वृष्णिय गोपालहि^३ ।
 ब्रज को हेतु विसारि जोग सिखवत ब्रजवालहि ॥
 पाती वाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि ।
 देखि प्रेम गोपीन को, हो, ज्ञान-गरव गयो दूरि ॥
 तव इत छत बहराय नीर नयनन में सोख्यो ।
 ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु समोख्यो^४ ॥
 जो व्रत मुनिवर ध्यावहौ पर पावहि नहि पार ।
 सो व्रत सीखो गोपिका, हो, छाँड़ि विषय-विस्तार ॥
 सुनि ऊधो के वचन रहौ नीचे करि तारे^५ ।
 मनो सुधा सौ सींचि आनि विषज्वाला जारे ॥
 हम अवला कह जानहीं जोग-जुगुति की रीति ।
 नदंनदन व्रत छाँड़ि कै, हो, को लिखि पूजै भीति^६ ?
 अविगत, अगह, अपार, आदि अवगत है सोई ।
 आदि निरंजन नाम ताहि रंजै सब कोई ॥

- (१) यादवजात = यादव से उत्पन्न अर्थात् उद्भव । (२) भाय=भाँ
 (३) यह न...गोपालहि = गोपाल की यह बात समझ में नहीं आती
 (४) समोख्यो = सहेज कर कहा । (५) तारे = पुतली, आँख
 (६) भीति = दीवार ।

नैन नासिका-अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास ।
 अबिनासी बिनसै नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥
 घर लागै^१ औघूरि कहे मन कहा^२ बँधावै ।
 अपना घर परिहरे कहे को घरहि बतावै ?
 मूरख जादवजात हैं हमहि सिखावत जोग ।
 हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधौ लोग ?
 गोपिहु तैं भयो अंध ताहि दुहुँ लोचन ऐसे !
 ज्ञाननैन जो अंध ताहि सूझै धौ कैसे ?
 वूझै निगम बोलाइ कै, कहे वेद समुभाय ।
 आदि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय ?
 चरन नहीं, भुज नहीं, कहौ, ऊखल किन बाँधो ?
 नैन नासिका मुख नहीं चोरि दधि कौने खाँधो^३ ?
 कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बैन ?
 ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूझै नैन ॥
 हम ब्रूभक्ति सतभाव न्याव तुम्हरे मुख साँचो ।
 प्रेम-नेम रसकथा कहौ कंचन की काँचो^४ ॥
 जो कोउ पावै सीस दै^५ ताको कीजै नेम ।
 मधुप हमारी सौ^६ कहौ, हो जोग भलो किधौ प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम सां होय प्रेम सां पारहि जैए ।
 प्रेम बँध्यो संसार, प्रेम परमारथ पैए ॥

(१) घर लागै = ठिकाने लगता है । औघूरि = घूमकर । घर
 बँधावै = मन घूमकर फिर अपने ही ठिकाने आता है उसे कह सुनकर
 क्या कोई बाँध सकता है ? (२) खाँधो = (सं० खादन) खाया । (३)
 काँचो = काँच । (४) सीस दै = सिर देकर, प्राण खोकर । (५) हमारी
 सौ = हमारी सौगंध ।

एकै निहचै प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल ।
 साँचो निहकै प्रेम को, हो, जो मिलिहैं नँदलाल ॥
 सुनि गोपिन को प्रेम नेम^१ ऊधो को भूल्यो ।
 गावत गुन-गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो ॥
 छन गोपिन के पग धरै, धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय द्रुम भेंटहीं, हो, ऊधो छाके प्रेम ॥
 धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी वनचारी ।
 धन्य, धन्य ! सो भमि जहाँ विहरे वनवारी ॥
 उपदेसन आयो हुतो मोहिं भयो उपदेस ।
 ऊधो जदुपति पै गए, हो, किए गोप को वेस ॥
 भूल्यो जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाँई ।
 एक वार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥
 गोकुल को सुख छाँड़ि कै कहाँ वसे हो आय ।
 कृपावंत हरि जानि कै, हो, ऊधो पकरे पाय ॥
 देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावै ।
 उमड़यो नयननि नीर वात कछु कहत न आवै ॥
 सूर स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाव ।
 पौछि पीतपट साँ कह्यो, 'आए जोग सिखाय' ? ॥१७॥

राग धनाश्री

हमसों कहत कौन की बातें ?

सुनि ऊधो ! हम समुझत नाहीं फिरि पूँछति हैं तातें ॥
 को नृप भयो कंस किन मान्यो को वसुधौ-सुत आहि ?
 यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं मुख चाहि^२ ॥

(१) नेम = नियम, योग (२) चाहि = देखकर ।

दिनप्रति जात सहज गोचारन गोप सखा लै संग ।
 वासरगत रजनीमुख^१ आवत करत नयन-गति पंग^२ ॥
 को व्यापक पूरन अबिनासी, को बिधि-वेद-अपार ?
 सूर वृथा बकवाद करत हौ या ब्रज नंदकुमार ॥१८॥

राग सारंग

तू अलि ! कासों कहत बनाय ?

बिन समुझे हम फिरि वृभक्ति हैं एक बार कहौ गाय ॥
 किन वै गवन कीन्हों सकटनि चढ़ि सुफलकसुत के संग ।
 किन वै रजक लुटाइ, विविध पट पहिरे अपने अंग ?
 किन हति चाप निदरि गज मारयो किन वै मल्ल मथि जाने^३ ?
 उग्रसेन बसुदेव देवकी किन वै निगड़ हठि भाने^४ ?
 तू काकी है करत प्रसंसा, कौने घोष^५ पठायो ?
 किन मातुल बधि लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो ?
 माथे मोरमुकुट बनगुंजा, मुख मुरली-धुनि बाजै ।
 सूरजदास जसोदानंदन गोकुल कह न बिराजै ॥१९॥

राग सारंग

हम तो नंदघोष की बासी ।

नाम गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप गोपाल-उपासी ॥
 गिरिवरधारी, गोधनचारी, वृंदावन-अभिलासी ।
 राजा नंद, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी ॥
 प्राण हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी ।
 सूरदास प्रभु कहौं कहाँ लौ अष्ट महासिधि दासी ॥२०॥

(१) रजनीमुख=संध्या । (२) पंग=स्तब्ध । (३) मथि जाने =
 पछाड़ा । (४) निगड़ भाने = वेड़ी तोड़ी । (५) घोष = अहीरों की बस्ती ।

राग केदार

गोकुल सबै गोपाल-उपासी ।

जोग-अंग साधत जे ऊधो ते सब वसत ईसपुर कासी ॥
 यद्यपि हरिहम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रसरासी^१ ।
 अपनी सीतलताहि न छाँड़त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥
 का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेमभजन तजि करत उदासी^२ ।
 सूरदास ऐसी को विरहिन माँगति मुक्ति तजे गुनरासी ? ॥२१॥

राग धनाश्री

जीवन मुँहचाही^३ को नीको । कुँवा
 दरस परस दिनरात करति हैं कान्ह. पियारे स्त्री को ॥६॥
 नयनन मूँदि मूँदि किन देखौ बँधो ज्ञान पोथी को ।
 आछे सुंदर स्याम मनोहर और जगत सब फीको ॥
 सुनौ जोग को का लै कीजै जहाँ ब्यान^४ है जी को ?
 खाटी मही नहीं रुचि मानै सूर खवैया घी को ॥२२॥

राग काफ़ी

आयो घोप वड़ो व्योपारी ।
 लादि खेप^५ गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥
 फाटक^६ दै कर हाटक माँगत भोरै निपट सु धारी^७ ॥
 धुर^८ ही तें खोत्रो खायो है लये फिरत सिर भारी ॥
 इनके कहे कौन डहकावै^९ ऐसी कौन अजानी ?

(१) रासी=रसी या पगी हुई । (२) उदासी=विरक्त । (३) मुँहचाही=
 ली, प्रिया । (४) ब्यान=जिवान, हानि । (५) खेप=माल का
 ढाँचा । (६) फाटक=अनाज फटकने से निकला हुआ कदन्न, फटकन ।
 (७) धारी=समझकर । (८) धुर=मूल, आरंभ । डहकावै=सौदे में
 खा खाय, ठगाए ।

अपनी दूध छाँड़ि को पीवै खार कूप को पानी ॥
 उधो जाहु सवार^१ यहाँ तँ वेगि गहरु^२ जनि लावौ ।
 मुँहमाँग्यो पैहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावौ ॥
 जोग ठगौरी^३ ब्रज न बिकैहै ।

यह व्योपार तिहारो उधो ऐसोई फिरि जैहै ॥
 जापै लै आए हौ मधुकर ताके उर न समैहै ।
 दाख छाँड़ि कै कटुक निबौरी^४ को अपने मुख खैहै ?
 मूरी के पातन के केना^५ को मुक्ताहल दैहै ।
 सूरदास प्रभु गुनहिं छाँड़ि कै को निगुंन निरबैहै ? ॥२४॥

राग नट

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमार्था पुराननि लादे उयो बनजारे टाँडे^६ ॥

हमरी गति पति कमलनयन की जोग सिखै ते राँडे ।

कहौ, मधुप, कैसे समायँगे एक म्यान दो खाँडे ॥

कहु षटपद, कैसे खैयंतु है हाथिन के सँग गाँडे^७ ।

काकी भूख गई बयारि भखि बिना दूध घृत माँडे ॥

काहे को भाला लै मिलवत, कौन चोर तुम डाँडे^८ ।

सूरदास तीनों नहिं उपजत धनिया धान कुम्हाँडे^९ ॥२५॥

~~निर देखावै मोय । पुराननि । अजनिवना । दूध ।~~

- (१) सवार = सवरे । (२) गहरु = विलंब, देर । (३) ठगौरी = ठगने का सौदा । (४) निबौरी = नीम का फल । (५) केना = सौदा । छोटा मोटा साग मूली आदि का बदला । (६) टाँडा = व्यापार का माल । (७) गाँडा = गन्ने या चारे का कटा हुआ टुकड़ा । हाथी के साथ गाँडे खाना = (कहावत) देखादेखी अनहोनी बात करना । (८) भाला = झल, वक्रवाद । (९) डाँडे = दंड दिया । (१०) धनिया.....कुम्हाँडे = धनिया, धान और कुम्हाड़ा ।

राग विलावल

ए अलि ! कहा जोग में नीको ?

तजि रसरोति नंदनंदन को सिखवत निर्गुन फीको ॥
देखत सुनत नाहि कछु खवननि, ज्योति ज्योति करि ध्यावत ।
सुंदरस्याम दयालु कृपानिधि कैसे हौ विसरावत ?
सुनि रसाल मुरली-सुर की धुनि सोइ कौतुक रस भूलै ।
अपनी भुजा ग्रीव पर मैलै^१ गोपिन के सुख फूलै ॥
लोककानि कुल को भ्रम प्रभु मिलि मिलि कै घर बन खेली^२ ।
अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की वेली ॥२६॥

राग मलार

हमरे कौन जोग व्रत साधै ?

मृगत्वच, भस्म, अधारि^३, जटा को को इतनो अवरधै ?
जाकी कहूँ थांह नहि पैए अंगम, अपार, अगाधै ।
गिरिधर लाल छवीले मुख पर इते बाँध^४ को बाँधै ?
आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननि को अवरधै ?
सूरदास मानिकं परिहरि कै राख गाँठि को बाँधै ? ॥२७॥

राग धनाश्री

हम तो दुहूँ भाँति फल पायो ।

जो ब्रजनाथ मिलै तो नीको, नातरु जग जस गायो ॥
कहूँ वै गोकुल की गोपी सब वरनहीन लघुजाती ।
कहूँ वै कमला के स्वामी संग मिलि बैठौं इक पाँती ॥

(१) मैलै = डालते थे । (२) खेली = खेल डाला, कुछ न समझा ।

(३) अधारी = साधुओं की टेकने की लकड़ी । (४) बाँध = आडंबर ।

निगमध्यान मुनिज्ञान अगोचर, ते भए घोषनिवासी ।
ता ऊपर अब साँच कहो धौं मुक्ति कौन की दासी ?
जोग-कथा, पा लागों^१ ऊँधो, ना कहु बारंबार ।
सूर स्याम तजि और भजै जो ताकी जननी छार^२ ॥२८॥

राग कान्हरी

७

पूरनता इन नयन न पूरी ।

तुम जो कहत सवननि सुनि समुभक्त, ये याही दुख मरति बिसूरी^३ ॥
हरि अंतर्दामी सब जानत बुद्धि बिचारत बचन समूरी^४ ।
वै रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि पाय खवावत धूरी^५ ॥
रहु रे कुटिल, चपल, मधुलंपट, कितव^६ सँदेस कहत कटु कूरी^७ ।
कहँ मुनिध्यान कहाँ ब्रजयुवती ! कैसे जात कुलिस करि चूरी^८ ॥
देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी^९ ।
सूर स्वातिजल बसै जिय चातक चित लागत सब मूरी^{१०} ॥२९॥

राग धनाश्री

हमतेँ हरि कबहूँ न उदास ।

राति खवाय पिवाय अधररस सो क्यों बिसरत ब्रज को वास ॥
तुमसों प्रेमकथा को कहिबो मनहुँ काटिबो घास ।
बहिरो तान—स्वाद कह जानै, गूँगो बात - मिठास ॥
सुनु री सखी, बहुरि फिरि ऐ हैं वे सुख विविध बिलास ।
सूरदास ऊँधो अब हमको भयो तेरहों मास^{१०} ॥३०॥

- (१) पा लागो = पैर पड़ती हूँ । (२) छार = भस्म, राख, मिट्टी ।
(३) बिसूरी = विलख कर । (४) समूरी = जल मूल से । (५) धूरी = धूल ।
(६) कितव = धूर्त, छली । (७) कूरी = क्रूर, निष्ठुर । (८) रूरी = अच्छी ।
(९) मूरी = नीरस । (१०) तेरहों मास भयो = अवधि बीत गई, बहुत दिन हो गए ।

तेरो बुरो न कोऊ मानै ।

रस की बात मधुप नीरस, सुनु, रसिक होत सो जानै ॥

दादुर वसै निकट कमलन के जन्म न रस पहिचानै ।

अलि अनुराग उड़न मन वाँध्यो कहे सुनत नहिं कानै ॥

सरिता चलै मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भानै १ ।

कायर वकै, लोह^२ तें भाजै, लरै जो सूर बखानै ॥३१॥

~~विषयों के लिये~~ घर ही के वाढ़े^३ रावरे । ~~पर पर ही वाढ़े करे~~
नाहिन मीत वियोगवस परे, अनवउगे^४ अलि वावरे !
~~वसते जाते~~

मुख मरि जाय चरै नहिं तिनुका सिंह की यहै स्वभाव रे !

खवन सुधा-मुरली के पोषे जोग-जहर न खवाव, रे ;

ऊधो हमहि सीख का दैहो ? हरि विनु अनत न ठाँव रे !

सूरजदास कहा लै, कीजै थाही नदिया नाव, रे ! ॥३२॥
~~नदी के जहाँ भाग्य है नाव को ली कर कया कर~~

राग मलार

स्याममुख देखे ही परतीति ।

जो तुम कोटि जतन करि सिखवत जोग ध्यान की रीति ॥

नाहिन कछू सयान ज्ञान में यह हम कैसे मानै ।

कहौ कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आनै ॥

यह मन एक, एक वह सूरति, भृंगकीट^५ सम माने ।

सूर सपथ दै वृक्षत ऊधो यह ब्रज लोग सयाने ॥३३॥

(१) भानै=तोड़ती है । (२) लोह = लोहा, हथियार । (३) घर ही के वाढ़े=अग्ने ही घर बढ़ाकर वात करनेवाले । (४) अनवउगे=अंगवोगे, सहोगे । (५) भृंगकीट=त्रिलनी नाम का कीड़ा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह और कीड़े को पकड़कर उसे अपने रूप का कर देता है ।

राग धनाश्री

लरिकार्ई को प्रेम, कहौ अलि, कैसे करिकै छूटत ?

कहा कहौ ब्रजनाथ-चरित अब अंतरगति^१ यों लूटत ॥
चंचल चाल मनोहर चितवनि, वह मुसुकानि मंद धुनि गावत ॥
नटवर भेस नंदनंदन को वह बिनोद गृह बन तें आवत ॥
चरनकमल की सपथ करति हौ यह सँदेस मोहिं विष सम लागत ॥
सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मूरति सोवत जागत ॥३४॥

राग सोरठ

(६)

अटपटि बात तिहारी ऊधो सुनै सो ऐसी को है ?

हम अहीरि अबला सठ, मधुकर ! तिन्हें जोग कैसे सो है ?

बूचिहि^२ खुभी^३ आँभरी काजर, नकटी पहिरै बेसरि^४ ।

मुँडली पाटी पारन चाहै, कोढ़ी अंगहि केसरि ॥

बहिरी सों पति मतो^५ करै सो उतर कौन पै पावै ?

ऐसो न्याव है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावै ॥

जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्है । (पौ३)

सूरदास नरियर जो विष को करहि बंदना कीन्है ॥३५॥

गारिपल

राग विहागरो

बरु वै कुब्जा भलो कियो ।

सुनि सुनि समाचार ऊधो मो कछुक सिरात हियो ॥

जाको गुन, गति, नाम, रूप, हरि हारयो, फिरि न दियो ।

- (१) अंतरगति = चित्त की वृत्ति, मन । (२) बूची = कनकटी, जिसका न कटा हो । (३) खुभी = कान में पहनने का एक गहना, लौंग । (४) रि = नाक में पहनने का एक गहना । (५) मतो करै = सलाह करे ।

तिन अपनो मन हरत न जान्यो हँसि हँसि लोग जियो ॥
 सूर तनक चंदन चढ़ाय तन ब्रजपति बस्य कियो ।
 और सकल नागरि नारिन को दासी दाँव लियो ॥३६॥

राग सारंग

हरि काहे के अंतर्यामी ?

जौ हरि मिलत नहीं यहि औसर, अवधि बतावत लामी^१ ॥
 अपनी चोप^२ जाय उठि बैठे और निरस वेकामी^३ ?
 सो कह पीर पराई जानै जो हरि गरुडागामी ॥
 आई उघरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी ।
 सूर इते पर अनख^४ मरति है, ऊधो, पीवत मामी^५ ॥३७॥

विलगं जनि मानहु, ऊधो प्यारे !

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते कारे ॥

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप भवारें ।

हे तिनके संग अधिक छवि उपजत कमलनेन मनिआरे^६ ॥

मानहु नील माट^७ तें काढ़े लै जमुना व्यो पखारे ।

ता गुन स्याम भई कालिंदी सूर स्याम-गुन न्यारे ॥३८॥

राग सारंग

अपने स्वारथ को सब कोऊ ।

चुप करि रहौ, मधुप रस-लंपट ! तुम देखे अरु वोऊ ।

औरौ कछू सदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ ।

(१) लामी = लंबी । (२) चोप = चाह, चाव । (३) वेकामी =
 शकाम । (४) अनख = कुढ़न । (५) मामी पीना = किसी बात को पी
 ाना, साफ़ इनकार करना । (६) मनिआरे = सुहावना, रौनक । (७)
 ाट = मटका, मिट्टी का बरतन ।

लीन्हे फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ ॥
 तब कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हुतोऊ ?
 अब हमरे जिय बैठो यह पद 'होनी होउ सो होऊ' ॥
 मिटि गयो मान परेखो' ऊधो हिरदय हतो सो होऊ ।
 सूरदास प्रभु गोकुलनायक चित-चिंता अब खोऊ ॥३६॥

तुम जो कहत सँदेसो आनि ।

प्र. ५९

कहा करौ वा नँदनंदन साँ होत नहीं हितहानि ॥
 जोग-जुगुति किहि काज हमारे जदपि महा सुखखानि ?
 सने सनेह स्यामसुंदर के हिलि मिलि कै मन मानि ॥
 सोहत लोह परसि पारस ज्यों सुवरन बारह बानि^२ ।
 पुनि वह चोप कहाँ चुंबक ज्यों लटपटाय लपटानि ।
 रूपरहित नीरासा निरगुन निगमहु परत न जानि ।
 सूरजदास कौन बिधि तासों अब कीजै पहिचानि ? ॥४०॥

निरगुन निरगुन

राग धनाश्री

हम तौ कान्ह-केलि की भूखी ।

कैसे निरगुन सुनहिं तिहारो बिरहिनि बिरह-बिदूखी^३ ?
 कहिए कहा यहौ नहिं जानत काहि जोग है जोग ।
 पा लागों तुमहीं सो वा पुर बसत बावरे लोग ॥
 अंजन, अभरन, चीर, चारु बरु नेकु आप तन कीजै ।
 दंड, कमंडल, भस्म, अधारी जो जुवतिन को दीजै ॥
 सूर देखि दृढ़ता गोपिन की ऊधो यह व्रत पायो ।
 कहै 'कृपानिधि हो कृपाल हो ! प्रेमै पढ़न पठायो' ॥४१॥

(१) मान परेखो = आसरा भरोसा । (२) बारह बानि = द्वादश वर्ण
 यार्त् सूर्य की तरह चमकनेवाला, खरा । (३) बिदूषी = दुखी ।

अखिया हरि-दरसन की भूखी ।

कैसे रहें रूपरसराची ये वतियाँ सुनि रूखी ॥
 अवधि गनत इकटक मग जोवत तव एती नहिं मूखी^१ ।
 अब इन जोग-सँदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ॥
 वारक^२ वह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी^३ ↓
 सूर सिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी^४ ॥४२॥

राग सारंग

जाय कहौ वृष्ठी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानै कही तिहारी बात ॥
 करो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात ।
 जौ पै भले होत कहूँ कारे तौ कत बढ़लि सुता लै जात^५ ॥
 हमको जोग, भोग कुवजा को काके हिये समात ?
 सूरदास सेए सो पति कै पाले जिन्ह तेही, पछितात ॥४३॥

कहाँ लौं कीजै बहुत बढ़ाई ।

अतिहि अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई ॥
 जल विनु तरंग, भीति विनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई ।
 अब ब्रज में अनरीति कछु यह ऊधो आनि चलाई ॥
 रूप न रेख, वदन, वपु जाके संग न सखा सहाई ।
 ता निर्गुन सों प्रीति निरंतर क्यों निवहै, री माई ?
 मन चुभि रही माधुरी मूरति रोम रोम अरुमाई ।
 हौं बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई ॥४४॥

(१) भूखी = संतप्त हुई । (२) वारक = एक वार । (३) पतू = खी पत्ते का दोना । (४) सूर...सूखी = व्यर्थ बालूमें नाव चलाते हो, ये सूखी नदियाँ हैं (५) तौ कत...लै जात = तो क्यों लड़के (कृष्ण) को बढ़ाकर लड़की ले जाते ?

राग मलार

काहे को गोपीनाथ कहावत ?

जो पै मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत ?

सपने की पहिचानि जानि कै हमहि कलंक लगावत ।

जो पै स्याम कूबरी रीके सो किन नाम धरावत ?

ज्यों गजराज काज के औसर औरे दसन दिखावत ।

कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अंत^२ विरमावत ॥४५॥

मलार काहे को दसरी मान्य कह्यो ?
अब कत सुरति होति है, राजन् ?

दिन दस प्रीति करी स्वारथ-हित रहत आपने काजन ॥

सबै अयानि भई सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन ।

अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन ॥

वह नातो टूटो ता दिन तें सुफलकसुत-संग भाजन ।

गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत मारत हौ लाजन ॥४६॥

राग सोरठ

लिखि आई ब्रजनाथ की छाप^३ ।

बाँधे फिरत सीस पर ऊधो देखत आवै ताप ॥

नूतन रीति नंदनंदन की घरघर दीजत थाप ।

हरि आगे कुब्जा अधिकारी, तातें है यह दाप ॥

आए कहन जोग अवराधो अविगत-कथा की जाप ।

सूर सँदेसो सुनि नहिं लागै कहौ कौन को पाप ॥४७॥

(१) ज्यों गजराज दिखावत = कहावत) हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और । (२) अंत = अनंत, अन्यत्र । (३) छाप = चिह्न, मुहर ।

राग सारंग

फिरि फिरि कहा सिखावत वात ?

प्रातकाल उठि देखत, ऊधो, घरघर माखन खात ॥
जाकी वात कहत हौ हमसों सो है हमसों दूरि ।
ह्यौ है निकट जसोदानंदन प्रान-सजीवनमूरि ॥
बालक संग लये दधि चोरत खात स्वभावत डोलत ।
सूरसीस सुनि चौकत नावहिं अब काहे न सुख बोलत ? ॥४८॥

राग धनाश्री

अपने सगुन गोपालै, माई ! यहि विधि काहे देत ?
ऊधो की ये निरगुन वातैं मीठी कैसे लेत ।
धर्म, अधर्म कामना सुनावत सुख औ मुक्ति समेत ॥
काकी भूख गई मनलाहू सो देखहु चित चेत ।
सूर स्याम तजि को भुस फटकै^१ मधुप तिहारे हेत ? ॥४९॥

राग सारंग

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अपनी ज्ञानकथा हो, ऊधो ! मथुरा ही लै गाव ॥
नागरि नारि भले वूमैंगी अपने वचन सुभाव ।
पा लागों, इन बातनि, रे अलि ! उनहीं जाय रिभाव ॥
सुनि, प्रियसखा स्यामसुंदर के जो पै-जिय सति भाव ।
हरिमुख अति आरत इन नयननि वारक वहुरि दिखाव ॥
जो कोड कोटि जतन करै, मधुकर, विरहिनि और सुहाव ॥
सूरजदास मीन को जल विनु नाहिंन और उपाव ॥५०॥

(१) भुस फटकै = भूसी फटकारै अर्थात् भूसी में से कुछ सार निकालने का प्रयत्न करे ।

राग कान्हरो



अलि हो ! कैसे कहाँ हरि के रूप-रसहि ?

मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जानै नयन की दसहि ॥

जिन देखे ते आहिं बचन विनु, जिन्हें बचन दरसन न तिसहि ।

बिन बानी भरि उमगि प्रेमजल सुभिरि वा सगुन-जसहि ॥

बार बार पछितात यहै मन कहा करै जो विधि न बसहि^१ ।

सूरदास अंगन की यह गति को समुभावै पाछपद पसुहि^२ ? ॥११॥

राग सारंग



हमारे हरि हारिल^३ की लकरी ।

मन बच क्रम नंदनंदन सौं उर यह दृढ़ करि पकरी ॥

जागत सोवत, सपने सौं तुख^४ कान्ह कान्ह जक^५री ।

सुनतहि जोग लगत ऐसो अलि ! ज्यों करुई ककरी ॥

सोई व्याधि हमें लै आए देखी सुनी न करी ।

यह तौं सूर तिन्हें लै दीजै जिनके मन चकरी^५ ॥१२॥

फिरि फिरि कहा सिखावत मौन ? ॥१३॥

दुसह बचन अलि यों लागत उर ज्यों जारे पर लौन ॥

सिंगी, भस्म, त्वचाभृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन ।

हम अबला अहीर, सठ मधुकर ! घर बन जानै कौन ॥

(१) न बसहि=वश में नहीं है । (२) पाछपद पसुहि=पश्चात्पद

पशु को । (३) हारिल = एक पत्नी जो प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या

तिनका लिए रहता है । (४) जक=रट, धुन । (५) चकरी=चकई ।

चकई नामक खिलौने की तरह चंचल या घूमता हुआ ।

* इसका पाठ 'या छपद पसुहि' जान पड़ता है । अर्थ होगा—'इस

पशु (मूर्ख) छपद (षट्पद=अमर) को कौन समझाए' ।

यह मत लै तिनहीं उपदेसौ जिन्हें आजु सब सोहत ।
सूर आज लौ सुनी न देखी पोत ? सूतरी पोहत ॥५३॥

राग जैतश्री

प्रेमरहित यह जोग कौन काज गायो ?
दीनन सौं निठुर बचन कहे कहा पायो ?
नयनन निज कमलनयन सुंदर मुख हेरो ।
मूँदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो ?
तामें कहु मधुकर ! हम कहा लैन जाहीं ।
जामें प्रिय प्राननाथ नंदनँदन नाहीं ?
जिनके तुम सखा साधु वातें कहु तिनकी ।
जीवै सुनि स्यामकथा दासी हम जिनकी ॥
निरगुन अविनासी गुन आनि आनि भाखौ ।
सूरदास जिय के जिय कहाँ कान्ह राखौ ? ॥५४॥

राग केदारो

जनि चालौ, अलि वात पराई । ^{यसरी}
ना कोउ कहै सुनै या ब्रज में, नई करति सब जाति हिराई ॥
वृमैं समाचार मुख ऊधो कुल की सब आरति विसराई ।
भले संग वसि भई भली मति, भले मेल पहिचान कराई ॥
सुंदर कथा कटुक सी लागति उपजत उर उपदेस खराई २ ।
उलटी न्याव सूर के प्रभु को वहे जात माँगत ॥५५॥

राग मलार

१०५५
याकी सीख सुनै ब्रज को, रे ?
जाकी रहनि कहनि अनमिल, अलि, कहत समुक्ति अति थोरे ॥

आपुन पद - मकरंद - सुधारस हृदय रहत नित बोरे ।
 हमसों कहत बिरस समझौ, है गगन कूप खनि खोरे^१ ॥
 धान को गाँव प्यार तैं जानौ ज्ञान विषयरस भोरे ।
 सूर सो बहुत कहे न रहै रस, गूलर को फल फोरे^२ ॥५६॥

निरखत अंक स्यामसुंदर के बारबार त्वावति छाती ।

लोचन-जल कागद-मसि मिलि कै ह्वै गइ स्याम स्याम की पाती^३ ॥
 गोकुल बसत संग गिरिधर के कबहुँ बयारि लगी नहिं ताती ।
 तब की कथा कहा कहाँ, ऊधो, जब हम वेनुनाद सुनि जाती ॥
 हरि के लाड़^४ गनति नहिं काहू निसिदिन सुदिन रासरसमाती ।
 प्राननाथ तुम कब धौ मिलौगे सूरदास प्रभु बालसँघाती ॥५७॥

राग मारू

संयोग और विभोग दोनों प्रयुक्त हैं

मोहिं अलि दुहूँ भाँति फल होत ।

तब रस-अधर लेति मुरली, अब भई कूबरी सौत ॥
 तुम जो जोगमत सिखवन आए भस्म चढ़ावन अंग ।
 इन बिरहिन में कहुँ कोउ देखी सुमन गुहाये मंग^५ ?
 कानन मुद्रा पहिरि मेखली धरे जटा आधारी ।
 यहाँ तरल तरिवन कहँ देखे अरु तनसुख^६ की सारी ॥
 परम बियोगिनि रटति रैन दिन धरि मनमोहन-ध्यान ।
 तुम तो चलो बेगि मधुवन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥
 निसिदिन जीजतु है या ब्रज में देखि मनोहर रूप ।
 सूर जोग लै घरघर डोलौ, लेहु लेहु धरि सूप ॥५८॥

(१) खोरे=नहाए । (२) गूलर को फल फोरे=गूलर का फल फोड़ने से अर्थात् ढकी छिपी बात खोलने से । (३) पाती=पत्री, चिन्ही ।
 (४) लाड़=प्रेम । (५) मंग=माँग । तनसुख=एक कपड़ा ।

राग सारंग

दुरा

विलग जनि मानौ हमरी वात ।

डरपति वचन कठोर कहति, मति विनु पति यों उठि जात^{१)} ॥
जो कोउ कहत जरे अपने^२ कछु फिरि पाछे पछितात ।
जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृष्ण नाम लै खात ॥
मन जु तिहारो हरिचरनन तर अचल रहत दिनरात ।
‘सूर स्याम तें जोग अधिक’^{३)} केहि कहि आवत यह वात ? ॥५६॥

अपनी सी^{४)} कठिन करत मन निसिदिन ।

हि कहि कथा, मधुप, समुझावति तदपि न रहत नंदनंदन विन ॥
रजत श्रवन सँदेस, नयन जल, मुख बतियाँ कछु और चलावत ।
हुत भाँति चित धरत निठुरता सब तजि और यहै जिय आवत ॥
गोति स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि-समीप-समता नहिं पावत ।
कित सिंधु-नौका के खग व्यों फिरि फिरि फेरि वहै गुन गावत ॥
^{हो नहिं} वासना न विदरत अंतर^{५)} तेइ तेइ अधिक अनूअर^{६)} दाहत ।
रदास परिहरि न सकत तनावारक बहुरि मिल्यो है चाहत ॥६०॥

राग धनाश्री

रहु रे, मधुकर ! मधुमतवारे ।

कहा करौं, निर्गुन लै कै हौं जीवहु कान्ह हमारे ॥
लोटत नीच परागपंक में पचत, न आपु सम्हारे ।
वारंवार सरक^{६)} मदिरा की, अपरस^{७)} कहा उचारे ॥

(१) पति उठि जात = मर्यादा जाती रहती है । (२) जरे अपने = अपना जी जलने पर । (३) अपनी सी = अपने भरसक । (४) जे वासना = अंतर = जिस वासना के कारण हृदय नहीं फटता है । (५) अनूअर = अनुत्तर, लगातार । (६) सरक = मद्यपात्र । (७) अपरस = विरस, रसहीन ।

तुम जानत हमहूँ वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे ।
 घरी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कारे ॥
 सुंदरस्याम कमलदल-लोचन जसुमति-नंद-दुलारे ।
 सूर स्याम को सर्वस अप्यो अब कापै हम लेहि उधारे ॥६१॥

राग बिलावल

काहे को रोकत मारग सूधो ।

सुनहु मधुप ! निर्गुन-कंटक तें राजपंथ क्यों रूधो ?
 कै तुम सिखै पठाए कुब्जा, कै कही स्यामघन जू धौ ।
 वेद पुरान सुमृति सब हूँ दौ जुवतिन जोग कहूँ धौ ?
 ताको कहा परेखो^३ कीजै जानत छाछ न दूधो ।
 सूर सूर अक्रूर गए लै व्याज निवेरत^४ ऊधो ॥६२॥

राग मलार

बातन सब कोऊ समुभावै ।

जेहि विधि मिलन मिलै वै माधव सो विधि कोउ न बताव ॥
 जद्यपि जतन अनेक रची पचि और अनत बिरभावै ।
 तद्यपि हठी हमारे नयना और न देखे भावै ॥
 बासर-निसा प्रानबल्लभ तजि रसना और न गावै ।
 सूरदास प्रभु प्रेमहिं लागि करि कहिए जो कहि आवै ॥६३॥

राग सारंग

निर्गुन कौन देस को वासी ?

मधुकर ! हंसि समुभाय, सौंह दै ब्रूमति साँच, न हाँसी ॥

(१) उधारे = उधारे में, उधारे, कर्ज । (२) रूधो = रोकते हो, रुँकते हो । (३) परेखो = विश्वास । (४) निवेरत = निवद्यते हैं, वसूल करते हैं ।

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ?
कैसे वरन भेस है कैसे केहि रस में अभिलासी ॥
पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी ? ।
सुनत मौन है रह्यो ठग्यो सो सूर सबै मति नासी ॥६४॥

राग केदारो

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।
इन्दनदन अछूत कैसे आनिए डर और ?
चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति ।
हृदय तें वह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥
कहत कथा अनेक उधो लोक-लाभ दिखाय ।
कहा करौ तन प्रेम-पूरन घटे न सिंधु समाय !
स्याम गात सरोज-आनन ललित अति मृदु हास ।
सूर ऐसे रूप-कारन मरत लोचन प्यास ॥६५॥

राग मलार

ब्रजजन सकल स्याम-व्रतधारी ।
विन गोपाल और नहि जानत आन कहें व्यभिचारी ॥
जोग मोट सिर बोझ आनि कै कत तुम घोष उत्तारी ?
इतनी दूरि जाहु चलि कासी जहाँ विकृति है प्यारी ॥
यह संदेस नहि सुनै तिहारो, है मंडली अनन्य हमारी ।
जो रसरति करी हरि हमसों सो कत जात विसारी ?
महामुक्ति कोऊ नहि वृभै, जदपि पदारथ चारी ।
सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी ॥६६॥

(१) गाँसी=गाँस या कपट की बात, चुभनेवाली बात । (२) प्यारी=
महँगी (पंजाबी) ।

राग धनाश्री



कहति कहा ऊधो सों बौरी^१ ।

जाको सुनत रहे हरि के ढिग स्यामसखा यह सो री !
हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत ?
कहा कहत री ! मैं पत्यात^२ री, नहीं सुनी कहनावत ।
करनी भली भलेई जानै, कपट कुटिल की खानि ।
हरि को सखा नहीं री माई ! यह मन निसचय जानि ॥
कहाँ रास-रस कहाँ जोग-जप ? इतनो अंतर भाखत ।
सूर सबै तुम कत भई बौरी याकी पति^३ जो राखत ॥६॥

राग रामकली



ऐसेई जन दूत कहावत ।

कहति


मोको एक अचंभो आवत यामें ये कहू पावत ?
बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी महत^४ गवावत ।

ऐसी परकृति^५ परति छाँह की जुवतिन ज्ञान बुभावत ॥

आपुन निलज रहत नखसिख लौ एते पर पुनि गावत ।

सूर करत परसँसा अपनी, हारेहु जीति कहावत ॥६८॥

राग धनाश्री



प्रकृति जोई जाके अंग परी ।

स्वान-पूँछ कोटिक जो लागै सूधि न काहु करी ॥

जैसे काग भच्छ नहिँ छाँडै ज्ञानमत जौन घरी ।

(१) बौरी = पगली । (२) पत्यात = विश्वास करती हूँ । (३) पति राखत = प्रतीति या विश्वास रखती है । (४) महत = महत्ता, महिमा । (५) परकृति = प्रतिकृति वा प्रकृति अर्थात् संसर्ग या छाया का ऐसा प्रभाव पड़ता है ।

धोये रंग जात, कहु कैसे ज्यों कारी कमरी ?
ज्यों अहि डसत उदर नहिं पूरत ऐसी धरनि धरी ?
सूर होउ सो होउ सोच नहिं, तैसे हैं एउ री ॥६६॥

राग रामकली

तौ हम मानै वात तुम्हारी ।
अपनो ब्रह्म दिखावहु उधो मुकुट-पितांबरधारी ॥
भजि हैं तव ताको सब गोपी सहि रहि हैं बरु गारी ।
भूत समान वतावत हमको जारहु स्याम विसारी ॥
जे मुख सदा सुधा अँचवत हैं ते विष क्यों अविकारी ?
सूरदास प्रभु एक अंग पर रीफि रहीं ब्रजनारी ॥७०॥

राग विलावल

यहै सुनत ही नयन पराने । भाज निराले
जबहीं सुनत वात तुव मुख की रोवत रमत ढराने ? ॥
वारंवार स्यामघन घन तें भाजत फिरत लुकाने ।
हमकों नहिं पतियात तवहिं तें जव ब्रज आपु समाने ॥
नातरु यहौ काछ हम काछति^३ वै यह जानि छपाने ।
नोष हमरे सिर धरिहौ तुम हौ वडे सयाने ॥७१॥

राग धनाश्री

नयननि वहै रूप जौ देख्यो ।
तौ उधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेख्यो ॥
लोचन चारु चपल-खंजन, मनरंजन हृदय हमारे ।

(१) धरनि धरी = टेक पकड़ी । (२) ढराने = ढले । (३) काछ काछति = वेप धारण करती, चाल चलती ।

रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वेत अरुन अरु कारे ॥
 रतन जटित कुंडल श्रवणनि वर, गुंड कपोलनि भाँई ।
 मनु दिनकर-प्रतिबिंब मुकुर महँ दूढ़त यह छवि पाई ॥
 मुरली अधर विकट भौँहैं करि ठाढ़े होत त्रिभंग ।
 मुकुतमाल उर नीलसिखर तें धँसि धरनी ज्यों गंग ॥
 और भेस को कहै वरनि सब अँग अँग केसरि खौर ।
 देखत बनै, कहत रसना सो सुर बिलोकत और ॥७२॥

राग नट

नयनन नंदनंदन ध्यान


लै उपदेस दीजै जहाँ निरगुन ज्ञान ॥
 पानपल्लव-रेख गनि गुन-अवधि विधि-बंधान ।
 इते पर कहि कटुक बचनन हनत जैसे ग्रान ॥
 चंद्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान ।
 कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजित दान ॥
 भृकुटि कोटि कुदंड^२ रुचि अवलोकनी^३ संधान^४ ।
 कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक वान ॥
 कंबु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान ।
 आजानुवाहु उदार अति कर पद्म सुधानिधान ॥
 स्याम तन पटपीत की छवि करै कौन बखान ?
 मनहु नितंत नील घन में तड़ित अति दुतिमान ॥
 रासरसिक गोंपाल मिलि मधु अधर करती पान ।
 सुर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रच्छक आन ? ॥७३॥

- (१) कहत बिलोकत और = उसको जीभ कहती है जो देखती नहीं, देखता और कोई (नेत्र) है । (२) कुदंड = कोदंड, धनुष । (३) अवलोकनी = चितवन । (४) संधान = धनुष खींचना ।

राग जैतश्री

देन आए ऊधो मत नीको ।

आवहु री ! सब सुनहु संयानी, लेहु न जस को टीको ॥
 तजन कहत अंवर, आभूखन, गेह नेह सब ही को ।
 सीस जटा, सब अंग भस्म, अति सिखवत निर्गुन फीको ॥
 मेरे जान यहै जुवतिन को देत फिरत दुख पी को ।
 तेहि सग-पंजर भए स्याम तन, अब न गहत डर जी को ॥
 जाकी प्रकृति परी प्रानन सों, सोच न पोच भली को ।
 जैसे सूर व्याल डसि भाजत का मुख परत अमी को ? ॥७४॥



राग सारंग

प्रीति करि दीन्हीं गरे छुरी ।

जैसे अधिक चुगाय कपटकन पाछे करत बुरी ॥
 मुरली मधुर चंप कर काँपो^१ मोरचंद्र ठटवारी^३ ।
 चंद्र विलोकनि लूक लागि वस सकी न तनहिं सम्हारी ॥
 तलफत छाँड़ि चले मधुवत को फिरि कै लई न सार^४ न च^५ ।
 सूरदास वा कलप-तरावर फिरि न बैठी डार ॥७५॥

राग धनाश्री

कोउ ब्रज वाँचत नाहिन पाती ।

कत लिखि लिखि पठवत नँदनंदन कठिन विरह की काती^५ ॥

(१) पोच = बुरा । (२) काँपो = कंपा, बाँस की पतली तीलियाँ
 इनमें बहेलिए लासा लगाकर चिड़िया फँसाते हैं । (३) ठटवारी = टट्टी ।
 (४) सार = साल, सालनेवाली वस्तु या गाँसी । (५) काती = छुरी ।

* दूसरे पद्य में 'सार' का अर्थ 'समाचार, खोज खबर' लेना होगा ।
 तुलसीदास ने भी इस अर्थ में इसका व्यवहार किया है—

सवकर सार सँभार गोसाईं । करव जनक जननी की नाई ॥

नयन, सजल, कागद अति कोमल, कर अँगुरी अति ताती ।
 परसत जरै, बिलोकत भोजै दुहँ भाँति दुख छाती ॥
 क्यों समुझै ये अंक सूर सुनु कठिन मदन-सर-घाती ॥
 देखे जियहि स्यामसुन्दर के रहहिं चरन दिनराती ॥७६॥

राग जैतश्री

मुकुति आनि मंदे^१ में मेली^२ ।

समुझि सगुन लै चले न, ऊधो ! ये सब तुम्हरे पूँजि अकेली ॥
 कै लै जाहु अनत ही बेचन, कै लै जाहु जहाँ विष-बेली ।
 याहि लागि को मरै, हमारे वृंदावन पायँन-तर पेली ॥
 सीस धरे घर घर कत डोलत, एकमते सब भई सहेली ॥
 सूर वहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी मुजा अस^३ गहि मेली ॥७७॥

राग कान्हरो

हम, अलि, गोकुलनाथ अराध्यो ।

मन बच क्रम हरि सों धरि पतिव्रत प्रेमयोग-तप साध्यो ॥
 मातु-पिता-हित-प्रीति, निगम-पथ तजि दुख-सुख-भ्रम नाख्यो^४ ।
 मानऽपमान परम परितोषी अस्थिर थित मन राख्यो ॥
 सकुचासन, कुलसील परस करि, जगतबन्ध करि बंदन ।
 मानऽपवाद पवन - अवरोधन हित - क्रम काम-निकंदन ॥
 गुरुजन-कानि^५ अगिनि चहुँदिसि, नभ-तरनि-ताप विनु देखे ।
 पिवत धूम - उपहास जहाँ तहँ, अपजस श्रवन-अलेखे ॥
 सहज समाधि बिसारि वपु करी, निरखि निमेख न लागत ।
 परम ज्योति प्रतिअंग-माधुरी धरत यहै निसि जागत ॥

(१) मंदे में = मंदे बाजार में । (२) मेली = डाली, उतारी ।

३) अस = कंधा । (४) नाख्यो = लाँघा, पार किया, दूर किया, ।

५) कानि = लज्जा ।

६ ' या निशा एकभूलनां तस्यां जागति संयति ।

अम रगीत-सार

त्रिकुटी^१ सँग भ्रमर, तराटक^२ नन नन लाग लाग ।
हँसन प्रकास, सुमुख कुंडल मिलि चंद्र सूर अनुरागे ॥
सुरली अधर श्रवन धुनि सो सुनि अनहद सवद प्रमाने ।
वरसत रस रुचि-वचन-संग, सुख-पद-आनंद-सामने ॥
मंत्र दियो मनजात^३ भजन लागि, ज्ञान ध्यान हरि ही को ।
सूर, कहौ गुरु कौन करै, अलि, कौन सुनै मत फीको ? ॥७८॥

राग सारंग

कहिबे जीय न कछु सक राखो १ ५१ ००
लावा मेलि दए^४ हैं तुमको वकत रहौ दिन आखो^५ ।
जाकी वात कहौ तुम हमसों सो धौं कहौ को काँधी^६ ।
तेरो कहो सो पवन भूस भयो, वहो जात ज्यों आँधी ॥
कत श्रम करत, सुनत कोह्यौ है, होत जो वन को रोयो ।
सूर इते पै समुक्त नाहीं, निपट दई को खोयो^७ ॥७९॥

राग धनाश्री

अव नीके कै समुक्ति परी ।
जिन लागि हुती बहुत उर आसा सोऊ वात निवरी^८ ॥
वै सुफलकसुत, ये, सखि ! ऊधो मिली एक परिपाटी ।
उन तो वह कीन्ही तव हमसों, ये रतन छँड़ाइ गहावत माटी ॥

(१) त्रिकुटी = दोनों भौंहों के बीच का स्थान, त्रिकूटचक्र । (२) तराटक = त्राटक । योग के छ कर्मों में से एक । अनिमेष रूप से किसी बिंदु पर दृष्टि गढ़ाने का अभ्यास । (३) मनजात = कामदेव । (४) लावा मेल देना = जादू वा टोक्का करके पागल बना देना । (५) आँधों = सारा (सं० अक्षय) । (६) काँधी = अंगीकार की, मानी । (७) दई को खोयो = गया बीता (स्त्रियों की गाली) । (८) निवरी =

ऊपर मृदु भीतर तें कुलिस सम, देखत के अति भोरे ।
जोइ जोइ आवत वा मथुरा तें एक डार के से तोरे ॥
यह, सखि, मैं पहिले कहि राखी असित न अपने होंहीं ।
सूर कोटि जौ माथो दीजै चलत आपनी गौं हों ॥८०॥

राग मलार

मधुकर रह्यो जोग लौं नातो ।

कतहिं बकत बेकाम काज बिनु, होय न ह्याँ तें हातो^१ ॥
जब मिलि मिलि मधुपान कियो हो तब तू कहि धौं कहाँ तो ।
तू आयो निर्गुन उपदेसन सो नहिं हमैं सुहातो ॥
काँचे गुन^२ लै तनु ज्यों वेधौ; लै बारिज को ताँतो ।
मेरे जान गह्यो चाहत हौ फेरि कै मैगल^३ मातो ॥
यह लै देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो ।
जब चहि हैं तब माँगि पठै हैं जो कोउ आवत-जातो ॥८१॥

राग नट



मोहन माँग्यो अपनो रूप ।

या ब्रज बसत अँचै तुम बैठी, ता बिनु तहाँ निरूप^४ ॥
मेरो मन, मेरो अलि । लोचत लै जो गए धुपधूप^५ ।

(१) हातो = दूर, अलग । (२) गुन = तागा । (३) मैगल = मस्त
हाथी । (४) मोहन निरूप = सखी राधिका से कहती है कि तुम
मोहन का रूप अँचै (पी) गई हो अर्थात् अपने ध्यान में ले बैठी हो
जिससे वे बेचारे वहाँ निराकार हो गए हैं । इससे उद्धव को वही रूप
माँगने के लिए उन्होंने भेजा है । उद्धव के बार बार निराकार की चर्चा
करने पर यह उक्ति है । (५) धुपधूप = शगदगा, धुला हुआ, साफ, चोखा ।

हमसों वदलो लेन उठि धाए मनो धारि कर सूप ॥
 अपनो काज सँवारि सूर, सुनु, हमहि बतावत कूप ॥
 लेवा-देइ वरावर में है, कोन रंक को भूप ॥८२॥
 हरि सों भलो सो पति सीता को । प्रभु को सो ही
 वन वन खोजत फिरे वंधु-संग, कियो सिंधु बीता को ॥ ८३ ॥
 रावन मारयो, लंका जारी, मुख देख्यो भीता^२ को ।
 दूत हाथ उन्हैं लिखि न पठायो निगम-ज्ञान गीता को ॥
 अब धौं कहा परेखो कीजै कुवजा के मीता को ।
 जैसे चढ़त सबै सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को^३ ?
 कोन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री ! ताको ।
 सूरजदास प्रेम कह जानै लोभी नवनीता को ॥८३॥

राग सोरठ

निरमोहिया सों प्रीति कीन्हीं काहे न दुख होय ?
 कपट करि करि प्रीति कपटी लै गयो मन गोय^४ ॥
 काल-मुख तें काढ़ि आनी वहरि दीन्हीं डोय ।
 मेरे जिय की सोइ जानै जाहि वीती होय ॥
 सोच, आँखि मँजीठ कीन्हीं निपट काँची पोय^५ ।
 सूर गोपी मधुप आगे दरकि^६ दीन्हों रोय ॥८४॥

- (१) बीता को = बीते भर का । (२) भीता = डरी हुई । (३) पीता चीता को = किस पीनेवाले ने चेता अर्थात् किसी ने नहीं । (४) गोय लै गयो = चुरा ले गया । (५) सोच, आँखि मँजीठ काँची पोय = आँखें भी मँजीठ की तरह लाल (धूँएँ आदि से) की, कच्चा पकाया भी । काँची पोय = कच्ची रोटी बनाकर अर्थात् प्रेम का कच्चा व्यवहार करके । (६) दरकि = फूट-फूटकर ।

✓ राग सारंग (०)

बिन गोपाल वैरिन भई कुंज ।

तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज ॥
 वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलें, अलि गुंज ॥
 पवन पानि घनसार संजीवनि दधिसुत^१ किरन भानु भई भुंज^२ ॥
 ए, ऊधो, कहियो माधव सों बिरह कदन करि मारत लुंज^३ ॥
 सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन^४ ज्यों गुंज^५ ॥६५॥

राग नट

संदेसो कैसे कै अब कहौ ?

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लौं देति रहौ ?
 जो कछु विचार होय उर-अंतर रचि पचि सोचि गहौ ।
 मुख आनत, ऊधो-तन^६ चितवत न सो विचार, न हौ^७ ॥
 अब सोई सिख देहु, सयानी ! जातें सखहिं लहौ ।
 सूरदास प्रभु के सेवक सों बिनती कै निबहौ ॥६६॥

राग कान्हरो

बहुरो ब्रज वह बात न चाली ।

वह जो एक बार ऊधो-कर कमलनयन पाती दै घाली ॥
 पथिक ! तिहारे पा लागति हौं मथुरा जाव जहाँ बनमाली ।
 करियो प्रगट पुकार द्वार है 'कालिंदी' फिरि आयो काली ॥

(१) दधिसुत=उदधिसुत, चंद्रमा । (२) भुंजें=भूनती हैं । (३) कदन = छुरी । (४) बरन = वर्ण; रंग । (५) गुंजें=गुंजा, घुंक्ची । (६) तन=ओर, तरफ । (७) न सो.....न हौं = न वह विचार रह जाता है और न मैं अर्थात् सब सुधनुष भूल जाती है । (८) काली=काली नाग ।

जवै कृपा जदुनाथ कि हमपै रही, सुरुचि जो प्रीति प्रतिपाली ।
माँगत कुसुम देखि द्रुम ऊँचे, गोद पकरि लेत गहि डाली ॥
हम ऐसी उनके केतिक हैं अंग-प्रसंग सुनहु री, आली ।
सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुमिरि सुमिरि राधा-उरं साली ॥८७॥

राग गौरी

✓ ऊधो ! क्यों राखौं ये नैन ?

सुमिरि सुमिरि गुन अधिक तपत हैं सुनत तिहारो वैन ॥
हैं जो मनोहर वदनचंद्र के सादर कुमुद चकोर ।
परम-नृपारत सजल स्यामघन के जो चातक मोर ॥
मधुप, मराल चरनपंकज के, गति-विलास-जल मीन ।
चक्रवाक, मनिदुति दिनकर के, मृग मुरली आधीन ॥
सकल लोक सूनी लागतु है विन देखे वा रूप ।
सूरदास प्रभु नंदनंदन के नखसिख अंग अनूप ॥८८॥

राग मलार

✓ सँदेसनि मधुवन-कूप भरे ।

जो कोउ पथिक गए हैं ह्यौं तें फिरि नहिं अवन करे ॥
कै वै स्याम सिखाय समोधे^१ कै वै बीच मरे ?
अपने नहिं पठवत नंदनंदन हमरेउ फेरि धरे ॥
मसि खूँटी^२ कागर जल भीजे, सर दव^३ लागि जरे ।
पाती लिखें कहो क्यों करि जो पलक-कपाट अरे ? ॥८९॥


राग नट

नंदनंदन मोहन सों मधुकर ! है काहे की प्रीति ?

जौ कीजै तौ है जल, रवि औ जलधर की सी रीति ॥

(१) समोवे = समझा बुझा दिया । (२) खूँटी = चुक गई (३) दव = दावाग्नि, आग ।


जैसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गइ बीति ।
तलफत, जरत, पुकारत सुनु, सठ ! नाहिन है यह रीति ॥
मन हठि पड़े, कबंध जुद्ध ज्यों, हारेहू भइ जीति ।
बंधत न प्रेम-समुद्र सूर बल कहूँ बारुहि की भीति ॥६०॥

मधुवनियाँ लोगनि को पतिआय ? 

मुख औरै अंतर्गत औरै पतियाँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥
ज्यों कोइलसुत काग जिआवत भाव-भगति भोजनहि खवाय ।
कुहकुहाय^१ आए वसंत ऋतु, अंत मिलै कुल अपने जाय ॥
जैसे मधुकर पुहुप-वास लै फेरि न वूमै बातहु आय ।
सूर जहाँ लौं स्यामगात हैं तिनसों क्यों कीजिए लगाय^२ ? ॥६१॥

हरि हैं राजनीति पढ़ि आए ।

समुभी बात कहत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए ?
इक अति चतुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए ।
जानी बुद्धि बड़ी, जुवतिन को जोग-सँदेस पठाए ॥
भले लोग आगे के, सखि री ! परहित डोलत धाए ।
वे अपने मन फेरि पाइए जे हैं चलत चुराए ॥
ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनि रीति छुड़ाए ?
राजधर्म सब भए सूर जहँ प्रजा न जायँ सताए ॥६२॥

जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई ।  ३५
सुलगि सुलगि हम रही तन में, फूँक आनि दई ॥
जोग हमको, भोग कुवजहि, कौने सिख सिखई ?
सिंह गज तजि तनहि खंडत सुनी बात नई ॥
कर्मरेखा मिटति नाहीं जो विधि आनि ठई ।
सूर हरि की कृपा जापै सकल सिद्धि भई ॥६३॥

(१) कुहकुहाय = कूकती हैं । (२) लगाय = लगन, प्रीति ।

राग धनाश्री

ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो ।

जानै कहा राजगति-लीला अंत अहीर विचारो ॥
हम सबै अयानी, एक सयानी कुवजा सौं मन मान्यो ।
आवत नाहिं लाज के मारे, मानहु कान्ह खिस्यान्यो^१ ॥
ऊधो जाहु वाँह धरि ल्याओ सुंदरस्याम पियारो ।
व्याहौ लाख, धरौ^२ दस कुवरी, अंतहि कान्ह हमारो ॥
संन, री सखी ! कछु नहिं कहिए माधव आवन दीजै ।
वहीं मिलैं सूर के स्वामी हाँसी करि करि लीजै ॥६४॥

१. ॐ

राग केदारो

उर में माखनचोर गड़े ।

व कैसह निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे है जो अडे ॥
इपि अहीर जसोदानंदन तदपि न जात छँडे ।
हैं वने जटुवंस महाकुल हमहिं न लगत वडे ॥
वसुदेव, देवकी है को, ना जानैं औ वृभै ।
स्यामसुंदर विनु देखे और न कोऊ सूरभै ॥६५॥

राग सारंग

गोपालहिं कैसे कै हम देति ?

गो की इन मीठी वातन निर्गुन कैसे लेति ?
धर्म, धर्म, कामना सुनावत सब सुख सुकुति-समेति ।
व्यापकहिं विचारत वरनत निगम कहत हैं नेति ॥
की भूलि गई मनसाहू देखहु जौ चित चेति ।
सूर स्याम तजि कौन सकत है, अलि, काकी गति एति ॥६६॥

(१) खिस्यान्यो=लजाया । (२) धरौ=रखे, बैठा ले ।

१३५ राग गौरी (१)

उपमा एक न नैन गही ।

कविजन कहत कहत चलि आए सुधि करि करि काहू न कही ॥
 कहे चकोर, मुख-बिधु बिनु जीवन; भँवर न, तहँ उड़ि जात ।
 हरिमुख - कमलकोस बिल्लुरे तें ठाले^१ क्यों ठहरात ?
 खंजन मनरंजन जन जौ पै, कबहुँ नाहिं सतरात ॥
 पंख पसारि न उड़त, मंद है समर^२-समीप विकात ॥
 आए बधन व्याध है ऊधो, जौ मृग, क्यों न पलाय ?
 देखत भागि वसै घन वन में जहँ कोउ संग न धाय ॥
 ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति छिन अति दुख बाढ़त ।
 सूरदास मीनता कछु इक, जल भरि संग न छाँड़त^३ ॥६७॥

राग गौरी (२)

हरिमुख निरख निमेख विसारे ।

ता दिन तें मनो भये दिगंबर इन नैनन के तारे ॥
 घूँघट-पट छाँड़े वीथिन महँ अहनिसि अटत^४ उघारे ।
 सहज समाधि रूपरुचि इकटक टरत न टक तें टारे ॥
 सूर, सुमति समुक्ति, जिय जानति, ऊधो ! बचन तिहारे ।
 करै कहा ये कद्यो न मानत लोचन हठी हमारे ॥

राग सारंग (१)

दूर करहु वीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिंन होत चंद्र को ढरिबो^५

- (१) ठाले = ठाले में, अभाव में । (२) समर = स्मर, कामदेव ।
 (३) कुछ थोड़ी सी मीनता रह गई है कि जल का संग नहीं छोड़ते, जलभरे
 होते हैं । नेत्रों की उपमा मछली से भी दी जाती है । (४) अटत = घूमते
 । (५) मोहे... ढरिबो = वीना की तान से मोहित होकर चंद्रमा के

वीती जाहि पै सोई जानै कठिन है प्रेम-पास को परिवो ।
जब तें विछुरे कमलनयन, सखि, रहत न नयन नीर को गरिवो ॥
सीतल चंद्र अग्नि सम लागत कहिए धीर कौन विधि धरिवो ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु सब झूठो जतननि को करिवो ॥६६

राग जैतश्री *नाम्य कौमुदी*
अति मलीन वृषभानुकुमारी ।

हरि-स्रमजल अंतर-तनु भीजे ता लालच न धुआवति सारी
अधोमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गथ^१ हारे थकित जुआरी ।
छूटे चिहुर,^२ वदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥
हरि-संदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि दूजे अलि जारी ।
सूर स्याम बिनु यों जीवति हैं ब्रजवनिता सब स्यामदुलारी ॥१००॥

राग मल्लार

(W)

ऊधो ! तुम हौ अति बड़भागी ।

अपरस^३ रहत सनेहतगी^४ त, नाहिं मन अनुरागी ॥
पुरइनि-पात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी^५ ।
ज्यों जल माँह तेल की गागरि वूँद न ताके लागी ॥
श्रीति-नदी में पावँ न वोर्यो, दृष्टि न रूप-परागी ।
सूरदास अवला हम भोरी गुर चींटी ज्यों पागी ॥१०१॥

(12)

ऊधो ! यह मन और न होय ।

पहिले ही च... स्याम-रंग छुटत न देख्यो धोय ॥

रथ के मृग चलते नहीं इससे न चंद्रास्त होता है न रात वीतती है । जायसी भी पद्मावत में यह उक्ति इस प्रकार लाए हैं—गहै वीन मकु रैन विहाई । इत्यादि ।

(१) ग... (२) चिहुर = चिकुर, बाल । (३) अपरस = अनासक्त, दे... (४) देह न दागी = देह में दाग नहीं लगाया ।

कैतव^१-वचन छाँड़ि हरि हमको सोइ करें जो मूल ।
जोग हमें ऐसो लागत है ज्यों तोहि चंपक फूल ॥
अब क्यों मित्त हाथ की रेखा ? कहौ कौन बिधि कीजै ?
सूर, स्याममुख आनि दिखाओ जाहि निरखि करि जीजै ॥१०२॥

(14)

राग गौड़

उधो ! ना हम विरही, ना तुम दास ।
कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तजि भजहु अकास ॥
विरही मीन मरत जल बिछुरे छाँड़ि जियन की आस ।
दास भाव नहिं तजत पपीहा बरु सहि रहत पियास ॥
प्रगट प्रीति दूसरथ प्रतिपाली प्रीतम के बनवास ।
सूर स्याम साँ दृढ़व्रत कीन्हों मेटि जगत-उपहास ॥१०३॥

राग सोरठ

omp.

उधो ! कही सो बहुरि न कहियो ।
जौ तुम हमहिं जिवायो चाहौ अनबोले^२ है रहियो ॥
हमरे प्रान आघात^३ होत हैं, तुम जानत हौ हाँसी^४ ।
या जीवन तें मरन भलो है करवट लैबो कासी^५ ॥
जब हरि गवन कियो पूरव लौं तब लिखि जोग पठायो ।
यह तन जरिकै भस्म है निबन्धो^६ बहुरि मसान जगायो ॥
कै रे ! मनोहर आनि मिलायो, कै लै चलु हम साथे ।
सूरदास अब मरन बन्यो है, पाप तिहारे माथे ॥१०४॥

(१) कैतव = छल, कपट । (२) अनबोले = चुप । (३) काशी
करवट लेना = पहले लोग मुक्ति की इच्छा से काशी में अपने को आरे से
चिंवा डालते थे, उसी को करवट लेना कहते थे । कर्ण - कर्ण
आरा । (४) भस्म है निबन्धो = भस्म ही हो कर रहा ।

राग सारंग

ऊधो ! तुम अपनो जतन करौ ।

हित की कहत । कुहित की लागै, किन बेकाज ररौ ?
जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जो की ।
कछु कहत कछुवै कहि डारत, धुन देखियत नहि नीकी ।
साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि ।
याही तैं तुम्हैं नँदनदनजू यहाँ पठाए टारि ॥
मथुरा वेगि गहौ इन पाँयन, उपज्यौ है तन रोग ।
सूर सुवैद वेगि किन दूँदौ भए अर्द्धजल^१ जोग ॥१०५॥

राग सोरठ

ऊधो ! जाके माये भाग ।

कुवजा को पटरानी कीन्हीं, हमहिं देत वैराग ॥
तलफत फिरत सकल ब्रजवनिता चेरी चपरि^२ सोद्वाम ।
बन्यो बनायो संग सखो री ! वै रे ! हंस वै काग ॥
लौंडी के घर डौंडी बाजी स्याम राग अनुराग ।
हाँसी, कमलनयन-सँग खेलति वारहमासी फाग ॥
जोग की वेलि लगावन आए काटि प्रेम को वाग ।
सूरदास प्रभु ऊख छाँड़ि कै चतुर चिचोरत आग^३ ॥१०६॥
जोग के अर्थ का अर्थ राग को गी

(१) अर्द्धजल-जोग हुए = मरने के निकट हुए (शव को दाह के पूर्व अर्द्धजल देते हैं) । (२) चपरि = चुपड़कर, संयुक्त करके । (३) आग = आक, मदार ।

* इसका अर्थ 'एकवारगी' होता है । तुलसी ने इसका कई स्थानों पर प्रयोग किया है ।

राग सारंग

ऊधो ! अब यह समुक्त भई ।

नँदनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई^१ ॥

कुंतल, कुटिल, भँवर, भरि भँवरि मालति भुरै लई ।

तजत न गहरु^२ कियो कृपटी जब जानी निरस गई ॥

आनन इंदुवरन-संमुख^३ तजि, करखे तें न नई ।

निरमोही नहि नेह, कुमुदिनी अंतहि हेम^३ हई ॥

तन घनस्याम सेइ निसिबासर, रटि रसना छिजई ।

सूर विवेकहीन चातक-मुख बूंदौ तौ न सई^४ ॥१०७

राग धनाश्री

ऊधो ! हम अति निषट अनाथ ।

जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम बिनु ब्रजनाथ ॥

अधर-अमृत की पीर मुई, हम बालदसा तें जोरी ।

सो तौ बधिक सुफलकसुत लै गयो अनायास ही तोरी ॥

जब लगि पलक पानि मीड़ति रही तब लगि गए हरि दूरी ।

कै निरोध निबरे तिहि अवसर दै पग रथ की धूरी ॥

सब दिन करी कृपन की संगति, कबहुँ न कीन्हों भोग ।

सूर विधाता रचि राख्यो है, कुबजा के मुख-जोग ॥१०८॥

राग सोरठ

ऊधो ! ब्रज की दसा विचारौ ।

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोगकथा विस्तारौ ॥

(१) उपमा न्याय दई=उचित उपमाएँ दीं, अर्थात् अंगों ने उपमानों के अनुरूप ही आचरण किया । (२) गहरु=देर । (३) हेम हई=पाले से मारा या पाला मार गई । हेम=हिम, पाला । चन्द्रमा को हिमकर कहते हैं । (४) सई=गई ।

जेहि कारन पठए नँदनंदन सो सोचहु मन माहीं ।
 केतिक बीच विरह परमारथ जानत हौ किधौ नाहीं ॥
 तुम निज^१ दास जो सखा स्याम के संतत निकट रहत हौ ।
 जल वूडत अवलंब फेन को फिरि फिरि कहा गहत हौ ?
 वै अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहि विसारौ ।
 जोग जुक्ति औ युक्ति विविध विधि वा मुरली पर वारौ ॥
 जेहि उर वसे स्यामसुंदर घन क्यों निर्गुन कहि आवै ।
 सूरस्याम सोइ भजन वहावै जाहि दूसरो भावै ॥१०६॥

नरक प्राण क्षिप्त

राग सारंग

ऊधो ! यह हित लागै काहे ?

निसिद्धिन नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय-माहे ॥
 नींद न परति चहुँदिसि चितवति विरह अनल के दाहे ।
 उर तें निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है ॥
 पा लागौ ऐसेहि रहन दे अवधि-आस-जल-था है^२ ।
 जनि वोरहि निर्गुन-समुद्र में, फिरि न पायहौ चाहे^३ ॥
 जाको मन जाही तें राच्यो तासों वनै निवाहे ।
 सूर कहा लै करै पपीहा एते सर सरिता हैं ? ॥

राग सारंग

ऊधो ! ब्रज में पैठ^४ करी ।

यह निर्गुन, निर्मूल गाठरीं अब किन करहु खरा ।
 नफा जानिकै ह्यौ लै आए सबै वस्तु अकरी^५ ।
 यह सौदा तुम ह्यौ लै वैचौ जहाँ बड़ी नगरी ॥

(१) निज = खास । (२) थाहे = थाह में । (३) चाहे = चाहने पर हमें फिर न पाओगे । (४) पैठ = दूकान, हाट । (५) अकरी = वहाँगी ।

हम ग्वालिन, गोरस दधि बेंचौ, लेहिं अबै सबरी । ~~ए~~
सूर यहाँ कोउ गाहक नाही, देखियत गरे परी ॥१११॥

राग सारंग

गुप्त मते की बात कहौ जनि कहूँ काहू के आगे ।
कै हम जानै कै तुम, ऊधो ! इतनी पावै माँगे ॥
एक बेर खेलत बृंदावन कंटक चुभि गयो पाँय ।
कंटक सौं कंटक लै काढ्यो अपने हाथ सुभाय ॥
एक दिवस बिहरत बन-भीतर मैं जो सुनाई भूख ।
पाके फल वै देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल-वास ।
सूरदास प्रभु सब बिसराई मधुवन कियो निवास ॥११२॥

राग सारंग

मधुकर ! राखु जोग की बात ।

कहि कहि कथा स्यामसुंदर की सीतल करु सब गात ॥
तेहि निर्गुन गुनहीन गुनैबो सुनि सुंदरि अनखात ।
दीरघ नदी नाव कागद की को देख्यो चढ़ि जात ?
हम तन हेरि, चितै अपनो पट देखि पसारहि लात ।
सूरदास वा सगुन छाँड़ि छन जैसे कल्प बिहात ॥११३॥

राग विलावल

ऊधो । तुम अति चतुर सुजान ।

जे पहिले रँग रंगी स्यामरँग तिनहँ न चढ़े रँग आन ॥
द्वे लोचन जो विरद किए सुति गावत एक समान ।
भेद चकोर कियो तिनहूँ में विधु प्रीतम, रिपु भान ॥

(१) दुइ लोचन समान=उपनिषद् आदि में सूर्य और चंद्रमा ईश्वर के दो नेत्र कहे गए हैं ।

रगित-सार
ने विरह

विरहिनि विरह भजै, पा लागों तुम हा पूरन-ज्ञान सु
दादुर जल विनु जियै पवन भखि, मीन तजै हठि प्रान ॥
वारिजवदन नयन मेरे पटपद कव करि हैं मधुपान ?
सूरदास गोपीन प्रतिज्ञा, छुवत न जोग विरान^१ ॥१॥

✓ उधो ! कोकिल कूजत कानन ।

तुम हमको उपदेस करत हो भस्म लगावन आनन ॥
औरौ सब तजि, सिंगी लै लै टेरन, चढ़न पखानन ।
पै नित आनि पपीहा के मिस मदन हनत निज वानन ॥
हम तौ निपट अहीरि वावरी जोग दीजिए ज्ञानिन ।
कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन ॥
सुंदरस्याम मनोहर मूरति भावति नीके गानन ।
सूर मुकुति कैसे पूजति^२ है वा मुरली की तानन ? ॥११५॥

राग सारंग

✓ उधो: हम अजान मति भोरी ।

जानति हैं ते जोग की बातें नागरि नवल किसोरी ॥
कंचन को मृग कौनै देख्यौ, कौनै वाँध्यो डोरी ?
कहु धौं, मधुप ! वारि मथि माखन कौनै भरी कमोरी^३ ?
विन ही भीत चित्र किन काढ्यो, किन नभ वाँध्यो भोरी ।
कहौ कौन पै कढ़त कनूकी^४ जिन हठि भुसी पछोरी ॥
यह व्यवहार तिहारो, वलि वलि ! हम अवला मति थोरी ।
निरखहि सूर स्याम-मुख चंद्रहि अखिया लगनि-चकोरी ॥११६॥

(१) विरान=विराना, पराया । (२) पूजति है=वावरी को पहुँचती है । (३) कमोरी=दूध, दही रखने की मटकी । (४) कनूकी=कण, दाना ।

राग गौरी



ऊधो ! कमलनयन विनु रहिए ।

इक हरि हमैं अनाथ करि छाँड़ी दुजे विरह किमि सहिए ?
ज्यों ऊजर खेरे^१ की मूरति को पूजै, को मानै ?
ऐसी हम गोपाल विनु ऊधो ! कठिन बिथा को जानै ?
तन मलीन, मन कमलनयन सों मिलिवे की धरि आस ।
सूरदास स्वामी विन देखे लोचन मरत पियास ॥११७॥

राग सारंग

ऊधो ! कौन आहि अधिकारी ?

लै न जाहु यह जोग आपनो कत तुम होत दुखारी ?
यह तो वेद उपनिषद मत है महापुरुष व्रतधारी ।
हम अहीरि अबला ब्रजवासिनि नाहिन परत सँभारी ॥
को है सुनत, कहत हौ कासों, कौन कथा अनुसारारी ?
सूर स्याम-सँग जात भयो मन अहि केंचुलि सी डारी ॥११८॥

राग जैतश्री

ऊधो ! जो तुम हमहिं सुनायो ।

सो हम निपट कठिनई करिकै या मन केँ समुभायो ॥
जुगुति जतन करि हमहुँ ताहि गहि सुपथ^२ पंथ लौँ लायौ ।
भटकि फिन्यो बोहित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पै आ ॥
हमको सबै अहित लागति है तुम अति हितहि बतायो ।
सर-सरिता-जल होम किये तें कहा अग्नि सचु^३ पायो ?
अब वैसो उपाय उपदेसौ जिहि जिय जाय जियायो ।
एक वार जौ मिलहिं सूर प्रभु कीजै अपनो भायो ॥११९॥

(१) खेरी = गाँव । (२) सुपथ = अच्छा मार्ग । (३) सचु = मुख, संतोष ।

10

राग सारंग

ऊधो ! जोग विसरि जनि जाहु ।

बाँधहु गाँठि कहूँ जनि छूटै फिरि पाछे पछिताहु ॥
 ऐसी वस्तु अनूपम मधुकर मरम न जानै और ।
 ब्रजवासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे ही है ठौर ॥
 जो हरि हित करि हमको पठयो सो हम तुमको दीन्हीं ।
 सूरदास नरियर ज्यों विप को करै वंदना कीन्हीं ॥१२०॥

ऊधो ! प्रीति न मरन विचारै ।

प्रीति पतंग जरै पावक परि, जरत अंग नहिं टारै ॥
 प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ि गिरत न आप सम्हारै ।
 प्रीति मधुप केतकी-कुसुम वसि कंटक आपु प्रहारै ॥
 प्रीति जानु जैसे पुय पानी जानि अपनपो^१ जारै ।
 प्रीति कुरंग नादरस, लुब्धक तानि तानि सर मारै ॥
 प्रीति जान जननी सुत-कारन को न अपनपो^१ हारै ?
 सूर स्याम सों प्रीति गोपिन की कहु कैसे निरुवारै ॥१२१॥

राग रामकली

ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहिं पठाए तुम हौ बीच भुलाने ॥
 ब्रजवासिन सों जोग कहत हौ, बातहु कहन न जानै ।
 वड़ लागै न विवेक तुम्हरो, ऐसे नए अयाने ॥
 हमसों कही लई सो सहिकै जिय गुनि लेहु अपाने ।
 कहँ अवला कहँ दसा दिगंबर सँमुख करौ, पहिचाने ॥

(१) अपनपो = अपनापन, आत्मभाव ।

साँच कहौ तुमको अपनी सौँ^१ बूझति बात निदाने ।
 सर स्याम जब तुम्हें पठाए तब नेकहु मुसुकाने ? ॥१२२॥

राग घनाश्री

ऊधो ! स्यामसखा तुम साँचे ।

कै करि लियो स्वाँग बीचहि तें, वैसेहि लागत काँचे ॥
 जैसी कही हमहि आवत ही औरनि कही पछिताते ।
 अपनो पति तजि और बतावत महिमानी कछु खाते^२ ॥
 तुरत गौन कीजै मधुवन को यहाँ कहाँ यह ल्याए ?
 सूर सुनत गोपिन की बानी उद्वव सीस नवाए ॥१२३॥

राग केदारो

ऊधोजू ! देखे हौ ब्रज जात ।

जाय कहियो स्याम सौँ या विरह को उत्पात ॥
 नयनन कछु नहिं सूझई, कछु श्रवन सुनत न बात ।
 स्याम बिन आँसुवन बूड़त दुसह धुनि भइ वात ॥
 आइए तो आइए, जिय बहुरि सरीर समात ।
 सूर के प्रभु बहुरि मिलिहौ पाछे हू पछितात ॥१२४॥

राग नट

ऊधो ! बेगि मधुवन जाहु ।

जोग लेहु सँभारि अपनो बँचिए जहाँ लाहु^३ ॥
 हम विरहिनी नारि हरि विनु कौन करै निबाहु ?
 तहाँ दीजै मूर पूजै^४, नफा कछु तुम खाहु ॥

(१) सौँ = कसम, सौगंध । (२) महिमानी खाते = सत्कार पाते
 अर्थात् खूब कोसे जाते । (३) लाहु = लाभ । (४) मूर पूजै = मूल धन
 निकल आए ।

जौ नहीं ब्रज में विकानो! नगरनारि विसाहु।
सूर वै सब सुनत लैहैं जिय कहा पछिताहु ॥१२५॥

उधो ! कछु कछु समुझि परी ।
तुम जो हमको जोग लाए भली करनि करी ॥
एक विरह जरि रहीं हरि के, सुनत अतिहि जरी ।
जाहु जनि अब लोन लावहु देखि तुमहि डरी ॥
जोग-पाती दई तुम कर वड़े जान^१ हरी ।
आनि आस निरास कीन्ही, सूर सुनि हहरी^२ ॥१२६॥

राग धनाश्री



उधो ! सुनत तिहारे वोल ।
ल्याए हरि-कुसलात धन्य तुम घर घर पर्यो गोल^३ ॥
कहन देहु कह करै हमारो, वरि उड़ि जैहै भोल^४ ॥
आवत ही याको पहिचान्यो निपटहि ओछो तोल ॥
जिनके सोचन रही कहिवे तैं, ते बहु गुननि अमोल ।
जानी जाति सूर हम इनकी वतचल^५ चञ्चल लोल ॥१२७॥

राग नटनारायण

ऐसी वात कहौ जनि उधो !
ज्यों त्रिदोष उपजे जक्र लागति, निकसत वचन न सूधो ॥
आपन तौ उपचार करौ कछु तव औरन सिख देहु ।
मेरे कहे वनाय न राखौ थिर के कतहूँ गेहु ॥

(१) जान = मुजान, चतुर । (२) हहरी = दहल गई । (३) गाल पाज्यो = गढ़वड़ मचाया, गोलमाल किया । (४) भोल = राख, भस्म । (५) वतचल = वकवादी ।

जौ तुम पद्मपराग छाँड़िकै करहु प्रास-बसबास^१ ।
तौ हम सूर यहौ करि देखें निमिष छाँड़ही पास ॥१२३॥

राग नट

ऊधो ! जानि परे सयान ।
नारियन को जोग लाए, भले जान सुजान ॥
निगम हू नहिं पार पायो कहत जासों ज्ञान ।
नयनत्रिकुटी जोरि संगम जेहि करत अनुमान ॥
पवन धरि रवि-तन निहारत, मनहिं राख्यो मारि ।
सूर सो मन हाथ नाहीं गयो संग बिसारि ॥१२४॥

राग धनाश्री

ऊधो ! मन नहिं हाथ हमारे । ✓ ^२
रथ चढाय हरि संग गए लै मथुरा जबै सिधारे ॥
नातरु कहा जोग हम छाँड़हि अति रुचि कै तुम ल्याए ।
हम तौ भक्ति^३ स्याम की करनी, मन लै जोग पठाए ॥
अजहूँ मन अपनो हम पावैं तुमतेँ होय तो होय ।
सूर, सपथ हमैं कोटि तिहारी कहौ करैगी साथ ॥१३०

ऊधो ! जोग सुन्यो हम दुर्लभ । ^{तुमतेँ होय}

आपु कहत हम सुनत अर्चभित जानत हौ जिय सुलभ ॥
रेख न रूप वरन जाके नहिं ताकोँ हमैं बतावत ।
अपनी कहो^४ दरस वैसे को तुम कवहूँ हौ पावत ?
सुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन वन चारत ?
नैन विसाल भौंह बंकट^४ करि देख्यो कवहूँ निहारत ?

(१) बसबास = निवास । (२) भक्ति = भीखती है । (३) अपनी कहो = अपना हाल बताओ । (४) बंकट = टेढ़ी, वक्र ।

तन त्रिभंग करि नटवर वपु धरि पीतांबर तेहि सोहत ।
सूर स्याम ज्यों देत हमैं सुख, त्यों तुमको सोड मोहत ॥१३१॥

राग रामकली

(५)

ऊधो ! हम-लायक सिख दीजै ।

यह उपदेस अग्नि तें तातो, कहो कौन विधि कीजै ?
तुमहीं कहौ यहाँ इतनिन में सीखनहारी को है ?
जोगी जती रहित माया तें तिनको यह मत सोहै ॥
जो कपूर चंदन तन लेपत तेहि विभूति क्यों छाजै ?
सूर कहौ सोभा क्यों पावै आँख आँधरी आजै ॥१३२॥

ऊधो ! कहा कथत विपरीति ?

जुवतिन जोग सिखावन आए यह तौ उल्टी रीति ॥
जोतत धेनु, दुहत पय वृष को, करन लगे जो अनीति ।
चक्रवाक ससि को क्यों जानै ? रवि चकोर कह प्रीति ?
पाहन तरै, काठ जौ वूडै, तौ हम मानै नीति ।
सूर स्याम-प्रति-अंग-माधुरी रही गोपिका जीति ॥१३३॥

(५)

ऊधो ! जुवतिन ओर निहारौ ।

तव यह जोग-मोट हम आगे हिये समुझि विस्तारौ ॥
जे कच स्याम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए ॥
तिनको तुम जो विभूति घोरिकै जटा लगावन आए ॥
जेहि मुख मृगमद मलयज उवटति, छन छन धोवति माँजति ।
तेहि मुख कहत खेह लपटावन सो कैसे हम छाजति ॥
लोचन आजि स्याम-ससि दरसति तवहीं ये वृत्ति ॥
सूर तिन्हें तुम रवि दरसावत यह सुनि सुनि करुआति ॥१३४॥

(१) करुआति = दुखती हैं ।

ऊधो ! इन नयनन अंजन देहु ।

आनहु क्यों न स्याम रँग काजर जासों जुर्यो सनेहु ॥

तपति रहति निसि-बासर, मधुकर, नहिं सुहात तन रोहु ।

जैसे मीन मरत जल बिछुरत, कहा कहौं दुख एहु ॥

सब विधि बाँधि ठानि कै राख्यो खरि कपूर कोरेहु^१ ।

बारक मिलवहु स्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जग लेहु ? ॥१३५॥

ऊधो ! भली करी तुम आए ।

ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥

कौन काज वृंदावन को सुख, दही-भात की छाक^२ ?

अब वै कान्ह कूबरी राचे बने एक ही ताक^३ ॥

मोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठवौं सौज^४ हमारी ।

अपनी जटाजूट अरु मुद्रा लीजै भस्म अधारी ॥

वै तौ बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति ।

सूर सबै मति भली स्याम की जमुना-जल सों प्रीति ॥१३६॥

राग सारंग

ऊधो ! वृभक्ति गुपुत तिहारी ।

सब काहू के मन की जानत बाँधे मूरि^५ फिरत ठगवारी ॥

पीत ध्वजा उनके पीतांबर, लाल ध्वजा कुबिजा व्यभिचारी ।

सत की ध्वजा स्वेत ब्रज ऊपर अजस हेतु ऊधो ! सो प्यारी ॥

(१) कोरेहु = कोर या कोने में भी । (२) छाक = कलेवा (३) ताक = तार, मेल । (४) सौज = वस्तु । (५) ठगवारी मूरि = ठगों की जड़ी जिसे धोखे से खिलाकर वे पथिकों को वेहोश करते हैं ।

उनके प्रेम-प्रीति मनरंजन, पै ह्यौ सकल सीलव्रतधारी ।
सूर वचन मिथ्या, लँगराई^१ ये दोऊ ऊधो की न्यारी ॥१३७॥

ऊधो ! मन माने की वात ।
जरत पतंग दीप में जैसे, औ फिरि फिरि लपटात ॥
रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! ससि^२ अकास भरमात ।
ऐसो ध्यान धरो हरिजू पै छन इत उत नहिं जात ॥
दादुर रहत सदा जल-भीतर कमलहिं नहि नियरात ।
काठ फोरि घर कियो मधुप तै वँधे अबुज के पात ॥
वरषा वरसत निसिदिन, ऊधो ! पुहुमी पूरि अघात ।
स्वाति-वृन्द के काज पपीहा छन छन रटत रहात ॥
सेहि^३ न खात अमृतफल भोजन तोमरि^४ को ललचात ।
सूरज कृसन कुवरी रीके गोपिन देखि लजात ॥१३८॥

ऊधो ! खरिऐ जरी हरि के मूलन की ।

कुंज कलोल करे वन ही वन सुधि विसरी वा भूलन की ॥
ब्रज हम दौरि आँक भरि लीन्ही देखि छाँह नव मूलन की ।
अव वह प्रीति कहाँ लौ वरनों वा जमुना के कूलन की ॥
वह छवि छाकि रहे दोउ लोचन बहियाँ गाँहि वन मूलन की ।
खटकति है वह सूर हिये मों माल दई मोहि फूलन की ॥१३९॥

मधुकर ! हम न होहिं वे वेली । ५
जिनको तुम तजि भजत प्रीति विनु करत कुसुमरस-केली ॥
वाहे^५ तैं बलवीर^६ बढ़ाई पोसी प्याई पानी ।
विनि पिय-परस प्रात उठि फूलत, होत सदा हित-हानी ॥

(१) लँगराई = लव्धारपन । (२) ससि = चन्द्रमा । (३) सेहि = साही पशु । (४) तोमरि = तुमड़ी, कडुआ घीया या लौका । (५) वारें तैं = लङ्कपन से । (६) बलवीर = बलराम के भाई, कृष्ण ।

ये बल्ली बिहरत वृंदावन अरुभी स्याम-तमालहिं ।
 प्रेमपुष्प-रस-बास हमारे बिलसत मधुप् गोपालहिं ॥
 जोग-समीर धीर नहिं डोलत, रूपडार-ढिग लागी ।
 सूर पराग न तजत हिये तें कमल-नयन-अनुरागी ॥१४०॥

मधुकर ! स्याम हमारे ईस ।

जिनको ध्यान धरे उर-अंतर आनहिं नए न उन बिन सीस ॥
 जोगिन जाय जोग उपदेसौ जिनके मन दस वीस ।
 एकै मन, एकै वह मूरति, नित बितवत दिन तीस ॥
 काहे निर्गुन-ज्ञान आपुनो जित तित डारत खीस^१ ।
 सूरज प्रभू नंदनंदन हैं उनतें को जगदीस ? ॥१४१॥

राग मलार (॥)

मधुकर ! तुम हौ स्याम-सखाई ।

पा लागों यह दोष बरुसियो 'संमुख करत ढिठाई ॥
 कौने रंक संपदा बिलसी सोवत सपने पाई ?
 किन सोने की उड़त चिरैया डोरी बांधि खिलाई ?
 धाम धुआँ के कहौ कौन के, बैठी कहाँ अथाई^२ ?
 किन अकास तें तोरि तरैयाँ आनि धरी घर, माई !
 बौरन की माला गुहि कौनै अपने करन बनाई ?
 बिन जल नाव चलत किन देखी, उतरि पार को जाई ?
 कौनै कमलनयन-व्रत बीड़ो^३ जोरि समाधि लगाई ?
 सूरदास तू फिरि फिरि आवत यामें कौन बड़ाई ? ॥१४२॥

(१) खीस डारना = नष्ट कर डालना । (२) अथाई = बैठक, चौवारा । (३) बीड़ो जोरि = बीड़ा उठाकर, प्रतिज्ञा करके ।

राग धनाश्री

मधुकर ! मन तो एकै आहि ।

सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ?
रे सठ, कुटिल-वचन, रसलंपट ! अवलन तन धौं चाहि^१ ।
अब काहे को देत लोन हौ विरहअनल तन दाहि ॥
परमारथ उपचार करत हौ, विरहव्यथा नहिं जाहि ।
जाको राजदोष कफ व्यापै दही खवावत ताहि ॥
सुंदरस्याम-सलोनी-मूरति पूरि रही हिय माहि ।
सूर ताहि तजि निगुन-सिधुहि कौन सकै अवगाहि ? ॥१४३॥

राग सारंग

मधुकर ! छाँडु अटपटी बातें ।

फिरि फिरि बार बार सोइ सिखवत हम दुख पावति जातें ॥
अनुदिन देति असीस प्रात उठि, अरु सुख सोवत न्हातें ।
तुम निसिदिन उर-अंतर सोचत ब्रजजुवतिन को घातें ॥
पुनि पुनि तुम्हें कहत क्यों आवै, कछु जाने यहि नाते^२ ।
सूरदास जो रंगी स्यामरंग फिरि न चढ़त अब राते^३ ॥१४४॥

मधुप ! रावरी पहिचानि ।

वास रस लै अनत बैठे पुहुप की तजि कानि ॥
वाटिका बहु विपिन जाके एक जौ कुम्हलानि ।
फूल फूले सघन कानन कौन तिनकी हानि ?
कामपावक जरति छाती लोन लाए आनि ।
जोग-पाती हाथ दीन्हीं विप चढ़ायो सानि ॥

(१) चाहि = तू देख । (२) यहि नाते = इसी संबंध से, इसी ।
कारण । (३) राते = लाल ।

सीस तें मनि हरी जिनके कौन तिनमें बानि^१ ।

सूर के प्रभु निरखि हिरदय ब्रज तज्यो यह जानि ॥१४५॥

(१०)

मधुकर ! स्याम हमारे चोर ।

मन हरि लियो माधुरी मूरति चितै नयन को कोर ॥

पकर्यो तेहि हिरदय उर-अंतर प्रेम-प्रीति के जोर ।

गए छँडाय छोरि सब बँधन दै गए हँसनि अँकोर^२ ॥

सोवत तें हम उचकि परी हैं दूत मिल्यो मोहि भोर ।

सूर स्याम मुसकनि मेरो सर्वस लै गए नंदकिसोर ॥१४६॥

मधुकर ! समुझि कहौ मुख बात ।

हौ मद पिए मत्त, नहिं सूभत, काहे को इतरात ?

बीच जो परै^३ सत्य सो भाखै, बोलै सत्य स्वरूप ।

मुख देखत को न्याव न कीजै, कहा रंक कह भूप ॥

कछु कहत कछुए मुख निकसत, परनिदक व्यभिचारी ।

ब्रजजुवतिन को जोग सिखावत कीरति आनि पसारी ॥

हम जान्यो सो भँवर रसभोगी जोग-जुगुति कहँ पाई ?

परम गुरु सिर मूँडि बापुरे करमुख^४ छार लगाई ॥

यहै अनीति बिधाता कीन्हीं तौऊ समुभत नाहीं ।

जो कोउ परहित कूप खनावै परै सो कूपहि माहीं ॥

सूर सो वे प्रभु अंतर्दामी कासों कहौ पुकारी ?

तब अक्रूर अबै इन ऊधो दुहुँ मिलि छाती जारी ॥१४७॥

(१) बानि = वर्ण आभा, कान्ति । (२) अँकोर = भेंट । (३) बीच जो परै = जो बीच में पड़ता है । अर्थात् मध्यस्थ या दूत होता है । (४) करमुख = काले मुँहवाला, करमुँहा, भौरे के काले मुँह के ऊपर पीला दाग होता है ।

मधुकर ! हम जो कहौ करै ।
 पठयो है गोपाल कृपा कै आयसु तैं न टरै ॥
 रसना वारि फेरि नव खँड कै, दै निर्गुन के साथ ।
 इतनी तनक विलग जनि मानहुँ, अखियाँ नाहीं हाथ ॥
 सेवा कठिन, अपूरव दरसन कहत अबहुँ मैं फेरि ।
 कहियो जाय सूर के प्रभु सों केरा पास व्यो वेरि ॥१४८॥

राग धनाश्री

मधुकर ! तौ औरनि सिख देहु ।
 जानौगे जव लागैगो, हो, खरो कठिन है नेहु ॥
 मन जो तिहारो हरिचरनन-तर, तन धरि गोकुल आयो ।
 कमलनयन के संग तैं विछुरे कहु कौने सचु पायो ?
 ह्याँई रहौ जाहु जनि मथुरा, सूठो माया-मोहु ।
 गोपी सूर कहत ऊधो सों हमहीं से तुम होहु ॥१४९॥

मधुकर ! जानत नाहिन वात ।
 फूँकि फूँकि हियरा सुलगावत उठि न यहाँ तैं जात ॥
 जो उर वसत जसोदानंदन निर्गुन कहाँ समात ?
 कत भटकत डोलत कुसुमन को तुम हौ पातन पात ?
 जदपि सकल बल्ली वन विहरत जाय वसत जलजात ॥
 सूरदास ब्रज मिले वनि आवै ? दासी की कुसलात ॥१५०॥

राग सारंग

तिहारी प्रीति किधौ तरवारि ?
 द्वाष्ट-धार करि मारि साँवरे धायल सब ब्रजनारि

(१) केरा.....वेरि = वेर के पेड़ के पास रहने से केले के डाल-
 त्ति में बराबर काँटे चुभते रहते हैं। (२) जलजात = कमल ।

रहा सुखत ठार वृंदावन, रनहु न मानति हारि ।
 बिलपति रही सभारत छन छन बदन-सुधाकर-बारि ।
 सुंदरस्याम-मनोहर-मूरति रहि हौ छविहि निहारि ।
 रंचक सेष रही सूरज प्रभु अब जनि डारौ मारि ॥१५१॥

काज

42

राग धनाश्री

Jm/p

मधुकर ! कौन मनायो मानै ?

अविनासी अति अगम अगोचर कहा प्रीति-रस जानै ?
 सिखबहु ताहि समाधि की बाते जैहैं लोग सयाने ।
 हम अपने ब्रज ऐसेहि बसिहैं विरह-बाय-त्रौराने ॥
 सोवत जागत सपने सौतुख^१ रहिहैं सो पति माने ।
 बालकुमार किसोर को लीलासिंधु सो तामें साने ॥
 पंच्यो जो पयनिधि बूढ़ अल्प^२ सो को जो अब पहिचाने ?
 जाके तन धन प्रानं सूर हरिमुख-मुसुकानि विकाने ॥१५२॥

12

राग मल्लार

मधुकर ! ये मन विगरि परे ।

समुभक्त नाहिं ज्ञानगीता को हरि-मुसुकानि अरे ॥
 बालमुकुंद-रूप-रसराचे तातें बक्र खरे ।
 होय न सूधी स्वान पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे ॥ ८
 हरि-पद-नलिन विसारत नाहीं सीतल उर सँचरे ॥^{१२}
 जोग गंभीर^३ है अंधकूप तेहि देखत दूरि डरे ॥
 हरि-अनुराग सुहाग भाग भरे अमिय तें गरल गरे ।
 सूरदास बरु ऐसेहि रहिहैं कान्हवियोग-भरे ॥१५३॥

(१) सौं तुख = सामने । (२) अल्प = अल्प, थोड़ा । (३)

गंभीर = गहरा ।

मधुकर ! जौ तुम हितू हमारे ।
 जौ या भजनसुधानिधि में जनि डारौ जोग-जल खारे ॥
 पुनु सठ रीति, सुरभि पयदायक^१ क्यों न लेत हल फारे^२ ?
 नो भयभीत होत रजु^३ देखत क्या बढवत अहि कारे ॥
 नेज कृत वृष्णि, विना दसनन हति तजत धाम नहि हारे^४ ।
 नो बल अछुत निसा पंकज में दल कपाट नहि टारे ॥
 अलि, चपल मोडरस-लंपट ! कतहि वकत विन काज ?
 मूर स्याम-छवि क्यों विसरत है नखसिख अंग विराज ? ॥१५४॥

राग सोरठ



मधुकर कौन गाँव की रीति ?

ब्रजजुवतिन को जोग-कथा तुम कहत सवै विपरीति ॥
 जा सिर फूल फुलेल मेलिकै हरि-कर ग्रंथें छोरी ।
 ता सिर भसम, मसान पै सेवन, जटा करत आधोरी ॥
 रतनजटित ताटंक विराजत अरु कमलन की जोति ।
 तिन स्रवनन पहिरावत मुद्रा तोहि दया नहि होति ॥
 वेसरि नाक, कंठ मनिमाला, मुखनि सार असवास ।
 तिन मुख सिगी कहौ वजावन, भोजन आक, पलास ॥
 जा तन को मृगमद वसि चंदन सूछम^५ पट पहिराए ।
 ता तन को रचि चीर पुरातन दै ब्रजनाथ पठाए ॥

(१) पयदायक = दूध देने वाली ! (२) हल फारे = हल और फाल,
 त्रि गाय हल से क्यों नहीं जुतती ? (३) रजु = रज्जु, रस्सी । (४)
 कृत हारे = अपने कर्म को देख, कि तू विना काटे छत्ता छोड़
 कर नहीं जाता । (५) सूछम = महीन ।

वै अविनासी ज्ञान घटैगो यहि बिधि जोग सिखाए ।

करै भोग भरिपूर सूर तहँ, जोग करै ब्रज आए ॥१५५॥

राग नट

मधुकर ! ये नयना पै हारे ।

निरखि निरखि मग कमलनयन को प्रेमभगन भए भारे ॥

ता दिन तें नींदौ पुनि नासी, चौकि परत अधिकारे ।

सपन तुरी^१ जागत पुनि सोई जो हैं हृदय हमारे ॥

यह निर्गुन लै ताहि बतावो जो जानै याके सारे ।

सूरदास गोपाल छाँडि कै चूसै टेटी^२ खारे ॥१५६॥

राग धनाश्री

मधुकर ! कह कारे की जाति ?

ज्यों जल मीन, कमल पै अलि की, त्यों नहीं इनकी प्रीति ॥

कोकिल कुटिल कपट वायस छलि फिरि नहिं वहि बन जाति ।

तैसेहि कान्ह केलि-रस अँचयो बैठि एक ही पाँति ॥

सुत-हित जोग जज्ञ ब्रत कीजत बहु बिधि नीकी भाँति ।

देखहु अहि मन मोहमया तजि ज्यों जूननी जनि^३ खाति ॥१॥

तिनको क्यों मन बिसमौ कीजै, औगुन लौ सुख-साँति ।

तैसेइ सूर सुनौ जदुनंदन, बजी एकस्वर ताँति ॥१५७॥

राग रामकली

मधुकर ! ल्याए जोग-सँदेसो ।

भली स्याम-कुसलात सुनाई, सुनतहिं भयो अँदेसो ॥

आस रही जिय कबहुँ मिलन की, तुम आवत ही नासी^४ ।

(१) तुरी = तुरीयावस्था । (२) टेटी = करील का फल । (३) जनि = जनकर, पैदा करके । (४) नासी = नष्ट की ।

जुवतिन कहत जटासिर बाँधहु तौ मिलिहैं अविनासी ॥
तुमको जिन गोकुलहिं पठायो ते वसुदेव-कुमार ।
सूर स्याम मनमोहन विहरत ब्रज में नंददुलार ॥१५८॥

राग सोरठ

स्याम विनोदी रे मधुवनियाँ ।

अब हरि गोकुल काहे को आवहिं चाहत नवयौवनियाँ ॥
वे दिन माधव भूलि विसरि गए गोद खिलाए कनियाँ ।
गुहि गुहि देते नंद जसोदा तनक काँच के मनियाँ^१ ॥
दिना चारि तें पहिरन सीखे पट पीतांबर तनियाँ^२ ।
सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकनियाँ^३ ॥१५९॥

राग धनाश्री

ऊधो ! हम ही हैं अति बौरी ।

सुभग कलेवर कुंकुम खौरी । गुंजमाल अरु पीत पिछौरी ॥
रूप निरखि दृग लागे ढोरी^४ । चित चुराय लयो मूरति सो, री !
गहियत सो जा समय अँकोरी^५ । याही तें बुधि कहियत बौरी ॥
सूर स्याम सों कहिय कठोरी ! यह उपदेस सुने तें बौरी ॥१६०॥

कहाँ लगि मानिए अपनी चूक ?

विन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती है न गई द्वै दूक ॥
तन, मन, जीवन वृथा जोत है ज्यों भुवंग की फूँक ।
हृदय अग्नि को दवा वरत है, कठिन विरह की हूक^६ ॥

(१) मनियाँ = गुरिया । (२) तनियाँ = तनी, कुरती । (३) चिकनियाँ = छैला । (४) ढोरी लागे = सँग लगे, = पीछे हो लिए । (५) अँकोरी = गोद । (६) हूक = ज्वाला, व्यथा, शूल ।

जाकी मनि हरि लई सीस तें कहा करै अहि सूक ?
सूरदास ब्रजबास बसीं हम मनहुँ दाहिने सूक^१ ॥१६१॥

राग कल्याण

ऊधो ! जोग जानै कौन ?

हम अबला कह जोग जानै जियत जाको रौन^२ ॥
जोग हम पै होय न आवै, धरि न आवै मौन ।
बाँधिहैं क्यों मन-पखेरु साधि हैं क्यों पौन ?
कहौ अंबर पहिरि कै मृगछाल ओढै कौन ?
गुरु हमारे कूबरी - कर - मंत्र - माला जौन ॥
मदनमोहन बिन हमारे परै बात न कौन^३ ?
सूर प्रभु कब आय हैं वे स्याम दुख के दौन^४ ? ॥१६२॥

राग केदारो

फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ ।

बहुरि न तुमहिं जगाय पठवौं गोधनन के साथ ॥
वरजौ न माखन खात कबहूँ, दैहौं देन लुटाय ।
कबहूँ न दैहौं उराहनो जसुमति के आगे जाय ॥
दौरि दाम न देहुँगी, लकुटी न जसुमति-पानि ।
चोरी न देहुँ उघारि, किए औगुन न कहिहौं आनि ॥

(१) दाहिने सूक = दक्षिण शुक्रग्रह होने पर (जो ज्योतिष में ह
योग माना जाता है) । (२) रौन = रमण करने वाला, पति । (३)
परै.....कौन = कोई बात मन में नहीं पड़ती अर्थात् बैठती । (४)
दौन = दमन करनेवाले ।

करिहौं न तुमसों मान हठ, हठिहौं न माँगत दान ।
 कहिहौं न मृदु मुरली वजावन, करन तुमसों गान ॥
 कहिहौं न चरनन देन जावक, गुह्य वेनी फूल ।
 कहिहौं न करन सिंगार बट-तर, बसन जमुना-कूल ॥
 भुज भूपननयुत कंध धरिकै रास नृत्य न कराउँ ।
 हौं सँकेत-निक्कुंज वसिकै दूति-मुख न बुलाउँ ॥
 एक वार जु दरस दिखवहु प्रीति-पंथ वसाय ।
 चँवर करौं, चढ़ाय आसन, नयन अँग अँग लाय ॥
 देहु दरसन नंदनंदन मिलन ही की आस ।
 सूर प्रभु की कुँवर-छवि को मरत लोचन प्यास ॥१६३॥

राग सारंग

कवहुँ सुधि करत गोपाल हमारी ?
 पूछत नंद पिता ऊधो सों अरु जसुमति महतारी ॥
 कवहुँ तौ चूक परी अनजानत, कह अवके पछिताने ?
 वासुदेव धर-भीतर आए हम अहीर नहिं जाने ॥
 पहिले गरग कह्यो हो हमसों, 'या देखे जनि भूलै' ।
 सूरदास स्वामी के विछुरे राति-दिवस उर सूलै ॥१६४॥

राग बिलावल

भली बात सुनियत है आज ।
 गेरु कमलनयन पठयो है तन वनाय अपनो सो साज ॥
 मसौ सखा कहाँ कैसे कै, अब नार्ही कीवे कछु काज ।
 तस मारि वसुदेव गृह आने, उग्रसेन को दीनो राज ॥
 राजा भए कहाँ है यह सुख, सुरभि-संग वन गोप-समाज ?
 प्रथ जो सूर करौ कोउ कोटिक नार्हिन कान्ह रहत ब्रज आज ॥१६५॥

राग नट

ऊधो ! हम आजु भई बड़ भागी ।

जैसे सुमन-गंध लै आवतु पवन मधुप अनुरागी ॥

अति आनंद बढ्यो अंग अंग में, परै न यह सुख त्यागी ।

बिसरे सब दुख देखत तुमको स्यामसुंदर हम लागीं^१ ॥

ज्यों दर्पन मधि दृग निरखत जहँ हाथ तहाँ नहिं जाई ।

त्यों ही सूर हम मिलीं साँवरे बिरह-बिथा बिसराई ॥१६६॥

राग सारंग

पाती सखि ! मधुवन तें आई ।

ऊधो-हाथ स्याम लिखि पठई, आय सुनो, री माई !

अपने अपने गृह तें दौरीं लै पाती उर लाई ।

नयनन नीर निरखि नहिं खंडित, प्रेम न बिथा बुझाई ॥

कहा करौं सुनो यह गोकुल हरि विनु कछु न सुहाई ।

सूरदास प्रभु कौन चूक तें स्याम सुरति बिसराई ? ॥१६७॥

उद्धव वचन

राग नट

सुनु गोपी हरि को संदेस ।

करि समाधि अंतर-गति चितवौ प्रभु को यह उपदेस ॥

वै अविगत, अविनासी, पूरन, घटघट रहे समाय ।

तिहि निश्चय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमलमन लाइ ॥

यह उपाय करि बिरह तजौगी मिलै ब्रह्म तव आय ।

तत्त्वज्ञान विनु मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥

सुनत संदेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी ।

सूर बिरह की कौन चलावै, नयन ढरत अति पानी ॥१६८॥

(१) लागीं = मिलीं ।

राग सारंग

मधुकर ! भली सुमति मति खोई ।
 हाँसी होन लगी या ब्रज में जोगै राखौ गोई^१ ॥
 आतमराम लखावत डोलत घटघट व्यापक जोई ।
 चापे^२ काँख फिरत निर्गुन को, हाँ गाहक नहिं कोई ॥
 प्रेम-विथा सोई पै जानै जापै वीती होई ।
 तू नीरस एती कह जानै ? बूझि देखिवे ओई ॥
 बड़ो दूत तू, बड़े ठौर को, कहिए बुद्धि बड़ोई ।
 सूरदास पूरीपहि^३ षटपद ! कहत फिरत है सोई ॥१६६॥

→ सुनियत ज्ञानकथा अलि गात ।

जिहि मुख सुधा वेनुरवपूरित हरि प्रति छनहिं सुनात ॥

जहँ लीलारस सखी-समाजहिं कहत कहत दिन जात ।

विधिना फेरि दियो सब देखत, तहँ षटपद समुभात^४ ॥

विद्यमान रसरस लड़ैते कत मन इत अरुभात ?

रूपरहित कछु वकत बदन तें मति कोउ ठग भुरवात^५ ॥

साधुवाद सुतिसार जानिकै उचित न मन बिसरात ।

नदनंदन कर-कमलन कीं छवि मुख डर पर परसात ॥

एक एक तें सबै सयानी ब्रजसुंदरि न सकात^६ ।

सुर स्याम रससिधुगामिनी नहिं वह दसा हिरात ॥१७०

ऊधो ! इतनी कहियो जाय ।

अति कृसगात भई हैं तुम विनु बहुत दुखारी गाय ॥

(१) गोई राखहु = छिपा रखो । (२) चापे = दवाए हुए । (३)
 रीप = पुरीष, मल । (४) समुभात = समभाता है । (५) भुरवात =
 मूलाता है । (६) सकात = डरती हैं ।

जल समूह बरसत अखियन तें, हूँकत^१ लीने नाँव ।
जहाँ जहाँ गोदोहन करते दूढ़त सोई सोई ठाँव ॥
परति पछार खाय तेहि तेहि थल अति व्याकुल है दीन ।
मानहुँ सूर काढ़ि डारे हैं बारि-मध्य तें मीन ॥१७१॥

ॐ उधो जोग सिखावन आए ।

सिधी, भस्म, अधारी, मुद्रा लै ब्रजनाथ पठाए ॥
जौपै जोग लिख्यो गोपिन को, कस रसरास खिलाए ?
तबहिं ज्ञान काहे न उपदेस्यो, अधर-सुधारस प्याए ॥
मुरली-सब्द सुनत बन गवनति सुत पति गृह बिसराए ।
सूरदास संग छाँड़ि श्याम को मनहिं रहे पछिताए ॥१७२॥

उधो ! लहनौ अपनो पैए ।

जो कछु विधना रची सो भइए आन दोष न लगैए ॥
कहिए कहा जु कहत बनाई सोच हृदय पछितैए ।
कुब्जा बर पावै मोहन सो, हमहीं जोग बतैए ॥
आज्ञा होय सोई तुम कहिबो, बिनती यहै सुनैए ।
सूरदास प्रभु-कृपा जानि जो दरसन-सुधा पिबैए ॥१७३॥

उधो ! कहा करै लै पाती ?

जौ लगि नाहिं गोपालहिं देखति विरह दहति मेरी छाती ॥
निमिष एक मोहिं बिसरत नाहिन सरद-समय की राती ।
मन तौ तबही तें हरि लीन्हों जब भयो मदन बराती ॥
पीर पराई कह तुम जानौ तुम तो श्याम-सँघाती ।
सूरदास स्वामी सों तुम पुनि कहियो ठकुरसुहाती^२ ॥१७४॥

(१) हूँकत = हुँकरती हैं, हुँकार मारती है । (२) ठकुरसुहाती = चापलूसी, खुशामद ।

ऊधो ! विरही प्रेमु करै^१ ।

ज्यों विनु पुट पट गहै न रंगहि^२, पुट गहे रसहि परै ॥
 जौ आँवों^३ घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरै ।
 जौ धरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरै ॥
 जौ सर सहत सुभट संमुख रन तौ रविरथहि रकरै ।
 सूर गोपाल प्रेमपथ-जल तें कोड न दुखहि डरै ॥१७५॥

७

ऊधो ! इतनी जाय कहो ।

सब वल्लभी कहति हरि सो ये दिन मधुपुरी रहो ॥
 आज काल तुमहूँ देखत हौ तपत तरनि^४ सम चंद्र ।
 सुंदरस्याम परम कोमल तनु क्यों सहिहैं नंदनंद ॥
 मधुर मोर पिक परुष^५ प्रवल अति वन उपवन चढ़ि बोलत ।
 सिंह, वृकन सम गाय वच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत ॥
 आसन असन, बसन विष छहि सम भूषन भवन भंडार ।
 जित तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष लए सत मार^६ ॥
 तुम तौ परम साधु कोमलमन जानत हौ सब रीति ।
 सूर स्याम को क्यों बोलैं ब्रज विन टारे यह ईति^६ ॥१७६॥

राग मलार

↑ जौ पै ऊधो ! हिरदय माँफ हरी ।

।तौ पै इती अबज्ञा उनपै कैसे सही परी ?

- (१) विरहौ प्रेमु करै = विरह से भी प्रेम होता या बढ़ता है । (२) ज्यों विनु पुट...रंगहि = जैसे बिना पुट दिए कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता ।
 (३) आँवों = आँवाँ जिसमें मिट्टी के बरतन पकते हैं । (४) जौ धरि बीज...फरै = जब बीज चिरकर देह में अंकुर धारण करता है तब सैकड़ों प्रकार के फल फलता है । (५) तरनि = सूर्य । (६) परुष = कठोर, कड़े ।
 (७) मार = कामदेव । (८) बोलैं = बुलावें । (९) ईति = बाधा, उपद्रव ।

तबहि दवा^१ द्रुम दहन न पाये, अब क्यों देह जरी ?
 सुंदरस्याम निकसि उर तें हम सीतल क्यों न करी ?
 इंद्र रिसाय बरस नयनन मग, घटत न एक घरी ।
 भोजत सीत भीत तन काँपत रहे, गिरि क्यों न धरी ?
 कर कंकन दर्पन लै दोऊ अब यहि अनख^२ मरी ।
 एतो मान सूर सुनि योग जु बिरहिनि बिरह धरी ॥१७७॥

ऊधो ! इतै हितूकर^३ रहियो ।

या ब्रज के व्योहार जिते हैं सब हरि सों कहियो ॥
 देखि जात अपनी इन आँखिन दावानल दहियो ।
 कहँ लौँ कहौ बिथा अति लाजति यह मन को सहियो ॥
 कितो प्रहार करत मकरध्वज हृदय फारि चहियो ।
 यह तन नहिं जरि जात सूर प्रभु नयनन को बहियो ॥१७८॥

ऊधो ! यहि ब्रज बिरह बढ्यो ।

घर, बाहर, सरिता, बन, उपवन, बल्ली, द्रुमन चढ्यो ॥
 वासर-रैन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर मढ्यो ।
 दूँदू करत अति प्रबल होत पुर, पय सों अनल डढ्यो ॥
 जरि किन होत अस्म छन महियाँ हा हरि, मंत्र पढ्यो ।
 दास प्रभु नँदनंदन बिनु नाहिन जात कढ्यो ॥१७९॥

राग धनाश्री

ऊधो ! तुम कहियो ऐसे गोकुल आवैं ।

दिन दस रहे सो भली कीनी अब जनि गहरु लगावैं ॥
 तुम बिनु कछु न सुहाय प्रानपति कानन भवन न भावैं ।

(१) दवा = बन की आग । (२) अनख = रिस, कुड़न, क्रोध ।

३) हितूकर = कृपालु ।

बाल विलख, मुख गौ न चरत तृन, बछरनि छीर नं प्याव ॥
देखत अपनी आँखिन, ऊधो, हम कहि कहा जनावैं ।
सूर स्याम विनु तपति रैन-दिनु हरिहि मिले सचु पावैं ॥१८०॥

ऊधो ! अब जो कान्ह न ऐहैं ।

जिय जानौ अरु हृदय विचारौ हम न इतो दुख सैहैं ॥
बूमौ जाय कौन के ढोटा, का उत्तर तव दैहैं ?
खायो खेल्यो संग हमारे, ताको कहा वनैहैं ॥
गोकुलमनि मथुरा के बासी कौ लौं मूठो कैहैं ।
अब हम लिखि पठवन चाहति हैं वहाँ पाँति नहि पैहैं ॥
इन गैयन चरिवो छाँड्यो है जौ नहि लाल चरैहैं ।
एते पै नहि मिलत सूर प्रभु फिरि पाछे पछितैहैं ॥१८१॥

✧ ऊधो ! हमैं दोउ कठिन परी ।

जो जीवै तो, सुन सठ ! ज्ञानी, तन तजैं रूपहरी ॥
गुन गावैं तौ सुक-सनकादिक, संग धावैं तौ लीला करी ।
आसा अवधि संतोष धरैं तौ धार्मिक ब्रज-सुंदरी ॥
स्यामा हैं सब सखी सुजाती पै सब विरह-भरी ।
सोक-सिंधु तरिवे की नौका जिहि मुख मुरलि धरी ॥
निसिदिन फिरत निरंकुस अति बड़ मातो मदन-करी ॥
हाहैगो सब धाम सूर जो चितौ न वह केहरी ॥१८२॥

ऊधो ! बहुते दिन गए चरनकमल-विमुख ही ।

दरस-हीन, दुखित दीन, छन छन विपदा सही ॥
रजनी अति प्रेमपीर, गृह वन मन धरै न धीर ।
दासर मग जोवत, उर सरिता वही नयननीर ॥

आवन की अवधि-आस सोई गनि घटत स्वास ।
इतो विरह विरहिनि क्यों सहि सकै कह सूरदास ? ॥१८३॥

राग आसावरी

ऊधो ! कहत न कछू बनै ।

अधरामृत-आस्वादिनि रसना कैसे जोग भनै ?
जेहि लोचन अबलोके नखसिख-सुंदर नंदनै ।
ते लोचन क्यों जायँ और पथ लै पठए अपनै ?
रागिनि राग तरंग तान धन जे स्रुति सुरलि सुनै ।
ते स्रुति जोग-सँदेस कठिन कह काँकर मेलि हनै ॥
सूरदास स्यामा मोहन के यह गुन विविध गुनै ।
कनकलता त उपज न मुक्ता, षटपद ! रंग चुनै ॥१८४॥

राग मारू

ऊधो ! इन नयनन नेम लियो ।

नँदनंदन सों पतिव्रत बाँधयो, दरसत नाहिँ वियो^१ ॥
इंदु चकोर, मेघ प्रति चातक जैसे धरन दियो ।
तैसे ये लोचन गोपालै इकटक प्रेम पियो ॥
ज्ञानकुसुम लै आए ऊधो ! चपल न उचित कियो ।
इरिमुख-कमल अमियरस सूरज चाहत वहै लियो ॥१८५॥

राग केदारो

ऊधो ! ब्रजरिपु बहुरि जिए ।

ज हमरे कारन नँदनंदन हति हति दूरि किए ॥
X निसि के वेष बकी है आवति अति डर करति सकंप हिए । २०१
तिन पथ तें तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिए ॥

वन वृकरूप, अघासुर सम गृह, कितहू तौ न बितै सकिए।
कोटिक कालीसम कालिंदी, दोषन सलिल न जात पिए ॥
अरु ऊँचे उच्छ्वास तृनात्रत, तिहि सुख सकल उड़ाय दिए।
केसी सकल कर्म केसव बिन, सूर सरन काकी तकिए ? ॥१८६॥

राग सारंग

ऊधो ! कहिए काहि सुनाए ?

हरि विल्लुरत जेली सहियत हैं इते विरह के घाए ॥
चरु माधव मधुवन ही रहते, कत जसुदा के आए ?
कत प्रभु गोप-वेष ब्रज धारयो, कत ये सुख उपजाए ?
कत गिरि धारि इंद्र-भद्र मेष्ट्यो, कत बन रास बनाए ?
अब कह निठुर भए हम ऊपर लिखि लिखि जोग पठाए ?
परम प्रवीन सवै जानत हौ, तातें यह कहि आए।
अपनी कौन कहै सुनु सूरज मात-पिता विसराए ॥१८७॥

ऊधो ! भली करी गोपाल ।

आपुन तौ आवत नाहीं ह्यौ, वहाँ रहे यहि काल ॥
चंदन चंद्र हुतो तव सीतल, कोकिलसद्वद रसाल ।
अब समीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ॥
हार, चीर कंचुकि, कंटक भए, तरनि तिलक भए भाल ।
सेज सिंह, गृह तिमिर-कंदरा, सर्प सुमन-मनि-माल ॥
हम तौ न्याय सहै एतो दुख वनवासी जो ग्वाल ।
सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी भ्रमर भुवाल ॥१८८॥

राग सौरठ

अपने मन सुरति करत रहिवी ।

ऊधो ! इतनी बात स्याम सौ समय पाय कहिवी ॥

घोष बसत की चूक हमारी कछू न जिय गहिबी ।
 परम दीन जदुनाथ जानिकै गुन विचारि सहिबी ॥
 एकहि बार दयाल दरस दै बिरह-रासि दहिबी ।
 सूरदास प्रभु बहुत कहा कहाँ बचन-लाज बहिबी ॥१८६॥

राग केदारो

उधो ! नँदनंदन सों इतनी कहियो ।

जद्यपि ब्रज अनाथ करि छाँड़्यो तदपि बार इक चित करि रहियाँ ॥
 तिनकातोर^१ करौ जनि हमसों एक बास की लज्जा गहियो ।
 गुन-श्रौगुनन रोष नहिं कीजत दासनिदासि की इतनी सहियो ॥
 तुम बिन स्याम कहाँ हम करिहैं यह अबलंब न सपने लहियो ।
 सूरदास प्रभु यह कहि पठई कहाँ जोग कहँ पीवन-दहियो ॥१९०॥

राग सारंग

उधो ! हरि करि पठवत जेती ।

जौ मन हाथ हमारे होतो तौ कत सहती एती ?
 हृदय कठोर कुलिस हू तें अति तामें चेत अचेती ।
 तव उर बिच अंचल नहिं सहती, अब जमुना की रेती ॥
 सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को, सरन देहु अब सेंती^२ ।
 बिन देखे मोहिं कल न परति है जाको खुति गावत है नेती ॥१९१॥

राग सौरठ

उधो ! यह हरि कहा कन्यौ ?

राजकाज चित दियो साँवरे, गोकुल क्यों विसर्यौ ?
 जौ लों घोष रहे तौ लों हम संतत सेवा कीनी ।
 वारक कबहूँ उलूखल परसे, सोई मानि जिय लीनी ॥

(१) तिनकातोर = नातातोड़, संबंध-त्याग । (२) अब सेंती = अब से ।

जौ तुम कोटि करौ ब्रजनायक बहुतै राजकुमारि ।
 तौ ये नंद पिता कहँ मिलिहँ अरु जसुमति महतारि ?
 कहँ गोधन, कहँ गोप-वृंद सब, कहँ गोरस को खैवो ?
 सूरदास अब सोई करौ जिहि होय कान्ह को ऐवो ॥१६२॥

राग आसावरी

† ऊधो ! ऐसो काम न कीजै ।
 एकरंग कारे तुम दोऊ धोय सेत क्यों कीजै ?
 फेरि फेरिकै दुख अवगा हैं हम सब करी अचेत ।
 कत पटपर^१ गोता मारत हौ निरे भूँड़^२ के खेत ॥
 तरपट^३ कोट^४ कीटकुल जनमे, कहा भलाई जाने ?
 फोरत वाँस-गाँठि दाँतन सों वार वार ललचाने ॥
 छाँड़ि कमल सों हेतु आपनो तू कत धनतहि जाय ?
 लंपट, ठीठ, बहुत अपराधी कैसे मन पतिआय ?
 य है जु वात कहति हौँ तुमसों फिरि मति कवहूँ आवहु ।
 एक वार समुभावहु सूरज अपनो ज्ञान सिखावहु ॥१६३॥

राग सारंग

ऊधो ! औरै कथा कहौ ।
 तजि जस, ज्ञान सुने तावत^५ तनु, वरु गहि भौन रहौ ॥
 जाके विच राजत मन-परवत^६ स्यामसूल-अनुरागी ।
 तापै रतिद्रुम रीति^६ नयनजल सींचत निसदिन जागी ॥

(१) पटपर = मैदान । (२) भूँड़ = भूर, लालरंग की बालू मिली हुई
 मुरभुरी मिट्टी जिसमें कुछ उपजता नहीं । (३) तरपट = अंतर । (४)
 कोट = वाँस की कोठी । (५) तावत = तपाता है, जलाता है । (६) रीति =
 रीतों या खाली करके ।

प्रीषम अलि आए प्रगट्यो ब्रज; कठिन जोग-रवि हेरे ।
सो मुरझात सूर को राखै सेह-नेह बिन तेरे ? ॥१६४॥

उधो ! साँच कहौ हम आगे ।

घर में कहा बचै कहु ताके प्रकट आगि के लागे ॥
जा दिन तें गोपाल सिधारे स्वास-अनल तन जा-यो ।
ऋषि-हिरदय मुखचंद मुग्ध भयो काढ़ि वाहि दै डार-यो ॥
एते पै तोहि सूझत नाहिन, जोग सिखावन आयो ।
फिरि लै जाहु सूर के प्रभु पै जिहि हैं यहाँ पठायो ॥१६५॥

उधो ! सब स्वारथ के लोग ।

आपुन केलि करत कुञ्जा-सँग, हमहिं सिखावत जोग ॥
अमि बन जात साँवरी मूरति नित देखहिं बह रूप ।
अब रस-रास पुलिन जमुना के करत लाज, भए भूप ॥
अनुदिन नयन निमेष न लागत, भयो बिरह अति रोग ।
मिलबहु कान्ह कुमार अश्विनी^१ मिटै सूर सब रोग ॥१६६॥

उधो ! दीनी प्रीति-दिनाई^२ । नि ५

वातनि सुहृद, करम कपटी के, चले चोर की हाई^३ ॥
बिरह-बीज बघवार^४ सलिल मानो अधर-माधुरी प्याई ।
सो है जाय खगी^५ अंतर्गत, औषधि बल न बसाई ॥
गरल-दान दीनो है नीको, याको नहीं उपाय ।
कै मारै, कै काज सरै, यह दुख देख्यो नहिं जाय ॥
कहि मारै सो सूर कहावै, मित्रद्रोह न भलाई ।
सूरदास ऐसे अलि, जग में तिनकी गति नहिं काई^६ ॥१६७॥

(१) कुमार अश्विनी = देवताओं के वैद्य । (२) दिनाई = विषप्रयोग की वस्तु । (३) हाई = घाय, घात । (४) बघवार = बाघ की मूछ के बाल जो विष समझे जाते हैं । (५) खगी = चुभी । (६) काई = कभी ।

ऊधो ! जो हरि आवैं तो प्रान रहैं ।

आवत, जात, उलटि फिरि बैठत जीवन-अवधि गहे ॥
जव हे दाम उखल सों बाँधे बदन नवाय रहे ।
चुभि जु रही नवनीत-चोर-छवि, क्यों भूलति सो ज्ञान गहे ?
तिनसों ऐसी क्यों कहि आवैं जे कुल-पति की त्रास महे ?
सूर स्याम गुन-रसनिधि तजिकै को घटनीर वहे ? ॥१६८॥

ऊधो ! यह निश्चय हम जानीं ।

खोयो गयो नेहनग उनपै, प्रीति-कोठरी भई पुरानी ॥
पहिले अधरसुधा करि सींची, दियो पोष बहु लाड़ लड़ानी ।
बहुरै खेल कियो केसव सिसु-गृहरचना ज्यों चलत बुझानी ॥
ऐसे ही परतीति दिखाई पन्नग केंचुरि ज्यों लपटानी ।
बहुरौ सुरति लई नहिं जैसे भँवर लता त्यागत कुम्हिलानी ॥
बहुरंगी जहँ जाय तहाँ सुख, एकरंग दुख देह दहानी^२ ।
सूरदास पसु धनी चोर के खायो चाहत दाना पानी ॥१६९॥

ऊधो ! हम हैं तुम्हरी दासी ।

काहे को कटु वचन कहत हौ, करत आपनी हाँसी ॥
हमरे गुनहि गाँठि किन बाँध्यों, हमपै कहा विचार ?
जैसी तुम कीनी सो सब ही जानतु है संसार ॥
जो कछु भली बुरी तुम कहि हौ सो सब हम सहि लैहैं ।
अपनो कियो आप भुगतैगी दोष न काहू दैहैं ॥
तुम तौ बड़े, बड़े के पठए, अरु सबके सरदार ।
यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥२००॥

(१) महे = मथ डाला, नष्ट किया । (२) दहानी = जली ।

ऊधो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत हैं ।
 कैसे होय प्रतीति क्रूर सुनि ये बातें जु सहत हैं ॥
 बासर-रैनि कठिन विरहानल अंतर प्रान दहत है ।
 प्रजरि प्रजरि^१ पचि निकसि धूम अब नयनन नीर बहत है ॥
 अधिक अबज्ञा होत, देह दुख मर्यादा न गहत है ।
 कहि ! क्यों मन मानै सूरज प्रभु इन बातनि जु कहत है ॥२०१॥

ऊधो ! तुमहीं हौ सब जान^२ ।

हमको सोई सिखावन दीजै नंदसुवन की आन ॥
 आमिष भोजन हित है जाके सो क्यों साग प्रमान ।
 ता मुख सेमि-पात क्यों भावत जा मुख खाए पान ?
 किंगिरी-सुर कैसे सचु मानत सुनि मुरली को गान ?
 ता भीतर क्यों निगुन आवत जा उर स्याम सुजान ?
 हम बिन स्याम वियोगिनि रहिहैं जब लग यहि घट प्रान ।
 सुख ता दिन तें होय सूर प्रभु ब्रज आवैं ब्रजभान् ॥२०२॥

ऊधो ! यहै विचार गहौ ।

कै तन गए भलो मानैं, कै हरि ब्रज आय रहौ ॥
 कानन-देह विरह-द्व लागी इन्द्रिय - जीव जरौ ।
 बुझै स्याम-धन कमल-प्रेम, मुख मुरली-वृंद परौ ॥
 चरन - सरोवर - मनस^३, मीन - मन रहै एक रसरतीति ।
 तुम निर्गुनबारू महँ डारौ; सूर कौन यह नीति ? ॥२०३॥

ऊधो ! कत वे बातें चाली ?

अति मीठी मधुरी हरि - मुख की है उर - अंतर साली ॥

(१) प्रजरि = सुलगकर । (२) जान = सुजान, चतुर । (३) सरोवर
 मनस = मानस सरोवर ।

अमरगीत-सार

स्याम सघन तन सींची वेली, हस्तकमल धरि पाली ।
अव ये वेली सूखन लागीं, छाँड़ि दई हरि - माली ॥
तव तो कृपा करत ब्रज ऊपर संग लता ब्रजवाली ।
सूर स्याम वित मरि न गई क्यों विरहविधा की घाली १ ॥२०४॥

राग केदारो

अधो ! जो हरि हितू तिहारे ।
तौ तुम कहियो, जाय कृपाकै जे दुख सवै हमारे ॥
तन तरुवर ज्यों जरति विरहिनी, तुम दव ज्यों हम जारे ।
नहिं सिरात^२, नहिं जरत छार है सुलगि सुलगि भए कारे ॥
जद्यपि उमगि प्रेमजल भिजवत वरषि वरषि घन-तारे^३ ।
जौ सींचे बहिं भाँति जतन करि तौ इतने प्रतिपारे ॥
कीर, कपोत, कोकिला, खंजन बधिक - बियोग विडारे ।
इन दुःखन क्यों जियहिं सूर प्रभु ब्रज के लोग विचारे ? ॥२०५॥

राग सारंग

अधो ! तुम आए किहि काज ?
हित की कहत अहित की लागत, वकत न आवै लाज ॥
आपुन को उपचार करौ कछु तव औरनि सिख देहु ।
मेरे कहे जाहु सत्वर ही, गहौ सोयरे गेहु^४ ॥
हाँ भेषज नानाविधि के अरु मधुरिपु से है वैदु ।
हम कांतर डराति अपने सिर कहुँ कलंक है कैदु^५ ॥

(१) घाली = मारी हुई । (२) सिरात = दंडी होती है । (३)
तारे = आँख की पुतली रूपी वादल । (४) गहौ सोयरे गेहु = ठंढे ठंढे घर
का रास्ता पकड़ो अर्थात् चुपचाप वर जाओ । (५) कैदु = कदाचित् ।

साँची बात छाँड़ि अब मूठी कहौ कौन बिधि सुनि हैं ?
सूरदास मुक्ताफलभोगी हंस बहि^१ क्यों चुनि हैं ? ॥२०६॥

राग विलावल

१२

ऊधो ! तुम कहियो हरि सों जाय हमारे जिय को दरद ।
दिन नहि चैन, रैन नहि सोवत, पावक भई जुनहैया सरद ॥५॥
जब तें अक्रूर लै गए मधुपुरी, भई बिरह तन बाय^२ छरद^३ ।
कीन्हीं प्रबल जगी अति, ऊधो ! सोचन भई जस पीरी हरद^४ ।
सखा प्रवीन निरंतर हौ तुम तातें कहियत खोलि परद^५ !
क्वाथ रूप दरसन विन हरि के, सर सरि नहि हियो सरद^६ ॥२०७॥

ऊधो ! क्यों आए ब्रज धावते ?

सहायक, सखा राजपदवी मिलि दिन दस कछुक कमावते ॥
कह्यो जु धर्म कृपा करि कानन सो उत बसिकै गावते ।
गुरु निवर्ति देखि आँखिन जे छोता सकल आघावते ॥
इत कोउ कछू न जानत हरि विन, तुम कत जुगुति बनावते ?
जो कछु कहत सवन सों तुम सो अनुभव कै सुख पावते ॥
मनमोहन विन देखे कैसे उर सों औरहि चाहते ?
सूरदास प्रभु दरसन विनु वह बार बार पछितावते ॥२०८॥

राग देसाख

ऊधो ! यहै प्रकृति परि आई तेरे ।

जो कोउ कोटि करै कैसे हू फिरत नहीं मन फेरे ॥

जा दिन तें सुसुदागृह आए मोहन जाद्वराई ।

(१) बहि=भाग । (२) बाय = बाई । (३) छरद=छर्दि, वसन

(४) हरद=हलदी । (५) परद=परदा । (६) सुरद=सुहृद् ।

ता दिन तें हरिदरस परस विनु और न कछु सुहाई ॥
 क्रीडत, हँसत, कृपा अवलोकत, जुग छन भरि तव जात ॥
 परम वृत्त सवहिन तन होती, लोचन हृदय अघात ॥
 जागत, सोवत, स्वप्न स्यामघन सुंदर तन अति भाव ॥
 सूरदास अब कमलनयन विनु बातन ही बहरावै ॥२०९॥

राग धनाश्री

ऊधो ! मन नाहीं दस वीस ।

एक हुतो सो गयो हरि के संग, को अराध तुव ईस ?
 भँई अति सिधिल सवै माधव विनु जथा देह विन सीस ।
 स्वासा अटकि रहे आसा लगि, जीवहिं कोटि बरीस ॥
 तुम तौ सखा स्यामसुंदर के सकल जोग के ईस ।
 सूरजदास रसिक की वतियाँ पुरवौ मन जगदीस ॥२१॥
 ६ प्राये मन को हो तुम रसिक कृपण ही ०॥१॥ ले

राग मलार श्रुति न ००२०

ऊधो ! तुम सब साथी भोरे ।

मेरे कहे विलग मानौगे, कोटि कुटिल लै जोरे ॥
 वै अक्रूर क्रूर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे १ ॥
 वै घनस्याम, स्याम अंतरमन, स्याम काम मँह बोरे ॥
 ये मधुकर दुति निर्गुन गुनते, देखे फटकि पछोरे ।
 सूरदास कारन संगति के कहा पूजियत २ गोरे ? २११॥

राग सोरठ

ऊधो ! समुझावै सो वैरनि ।

१ मधुकर ! निसिदिन मरियतु है कान्ह-कुँवर-औसेरनि ३ ॥

(१) ढारे=ढाले, ढरकाए । (२) पूजियत=पूरे पड़ते हैं, पहुँचते हैं ।

(३) औसेर=बाधा या दुःख ।

चित चुभि रही मोहनी मूरति, चपल दृगन की हेरनि ।
 तन मन लियो चुराय हमारो वा मुरली, की ढेरनि ॥
 बिसरति नाहि सुभग तन-सोभा पीतांबर की फेरनि ।
 कहत न बनै काँध लकुटी धरि छबि बन गायन घेरनि ॥
 तुम प्रवीन, हम बिरहि, बतावत आँखि मँदि भटभेरनि^१ ।
 जिहि उर बसत स्यामघन सो क्यों परे मुक्ति के भेरनि^२ ।
 तुम हमको कहँ लाए, ऊधो ! जोग-दुखत के ढेरनि ।
 सूर रसिक बिन क्यों जीवत है निर्गुन कठिन करेरनि ? ॥२१२॥

राग सारंग

ऊधो ! स्यामहिं तुम लै आओ ।

ब्रजजन-चातक प्यास मरत हैं, स्वातिबूँद बरसाओ ॥
 घोष-सरोज भए हैं, संपुट, दिनमनि ह्वै विगसाओ ।
 ह्याँ तें जाव बिलंब करौ जनि, हमरी दसा सुनाओ ॥
 जौ ऊधो हरि यहाँ न आवैं, हमको तहाँ बुलाओ ।
 सूरदास प्रभु वेगि मिलाए संतन में जस पाओ ॥२१३॥

ऊधोजू ! जोग तबहिं हम जान्यो ।

जा दिन तें सुफलकसुत के संग रथ ब्रजनाथ पलान्यो ॥
 जा दिन तें सब छोह-मोह मिटि सुत-पति-हेत भुलान्यो ।
 तजि माया संसारसार की ब्रजबनितन व्रत ठान्यो ॥
 नयन मुँदे, मुख रहे मौन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो ।
 नंदनंदन-मुख मुरलीधारी, यहै रूप उर आन्यो ॥
 सोउ सँजोग जिहि भूलैं हम कहिं तुमहूँ जोग बखान्यो ॥
 ब्रह्मा पचि पचि मुए प्राण तजि तेऊ न तिहि पहिचान्यो ॥

(१) भटभेर=मुठभेड़, धक्कमधुका । (२) झेर=झंझट ।

कहौ सु जोग कहा लै कीजै ? निर्गुन परत न जान्यो ।
सूर वहै निज रूप स्याम को है उर साहिं समान्यो ॥२१४॥

ऊधो ! व सुख अबै कहाँ ?

छन छन नयनन निरखति जो मुख, फिरि मन जात तहाँ ॥
मुख मुरली, सिर मोरपखौआ उर घुँघुचिन को हारु ।
आगे धेनु रेनु तन-मंडित तिरछि चितवनि चारु ॥
राति-द्यौस तव संग आपने, खेलत, बोलत, खात ।
सूरदास यह प्रभुता चितवत कहि न सकति वह वात ॥२१५॥

कहि ऊधो ! हरि गए तजि मथुरा कौन बड़ाई पाई ।
भुवन चतुर्दस की विभूति वह, नृप की जूठि पराई ॥
जो यह काज करै ताको सेवक स्रुति पढ़ै वताई ।
सेवत सेवत जन्म घटावत करत फिरत निठुराई ॥
तुम तौ परम साधु अंतरहित जनि कछु कहाँ बनाई ।
सूर स्याम मन कहा विचाऱ्यो, कौन ठगौरी लाई ॥२१६॥

राग धनाश्री

ऊधो ! जाय वहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नंदकुमार ।
यह न होय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥
निर्गुन ज्योति कहा उन पाई सिखवत वारंवार ।
कालिहहि करत हुते हमरे अंग अपने हाथ सिंगार ॥
व्याकुल भए गोपालहि विछुरे गयो गुनज्ञान सँभार ।
ताते ज्यों भावै त्यों बकत हौ, नाहीं दोष तुम्हार ॥
विरह सहन को हम सिरजी है, पाहन हृदय हमार ।
सूरदास अंतरगति मोहन जीवन-प्राण-अधार ॥२१७॥

राग बिलावल

ऊधो ! कह मत दीन्हो हमहि गोपाल ?

आवहु री सखि ! सब मिलि सोचै ज्यों पावै नँदलाल ॥
 घर बाहर तें बोलि लेहु सब जावदेक ब्रजबाल ।
 कमलासन बैठहु री माई ! मूँदहु नयन बिसाल ॥
 षट्पद कही सोऊ कर देखी, हाथ कछू नहिं आई ।
 सुंदरस्याम कमलदललोचन नेकु न देत दिखाई ॥
 फिरि भई मगन विरहसागर में काहुहि सुधि न रही ।
 पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥
 कहूँ धुनि सुनि स्रवननि चातक की प्रान पलटि तव आए ।
 सूर सु अबकै टेरि पपीहै विरहिन मृतक जिवाँए ॥२१८॥

ऊधो ! ते कि चतुर पद पावत ?

जे नहिं जानै पीर पराई हैं सर्वज्ञ कहावत ॥
 जो पै मीन नीर तें बिछुरै को करि जतन जियावत ?
 प्यासे प्रान जात हैं जल विनु सुधासमुद्र बतावत ॥
 हम बिरहिनी स्यामसुंदर की तुम निर्गुनहिं जनावत ।
 ये दृग-मधुप सुमन सब परिहरि कमलवदन-रस भावत ॥
 कहि पठवत संदेसनि मधुकर ! कत बरुवाद बढ़ावत ?
 करौ न कुटिल निठुर चित अंतर सूरदास कवि गावत ॥२१९॥

राग कल्याण

ऊधो ! भली करी अब आए ।

विधि-कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि
 रंग दियो हो कान्ह साँवरे, अँग अँग चित्र बनाए ।
 गलन न पाए नयन-नीर तें अवधि-अटा जो छाए ॥

अमरगीत-सार

ब्रज करि अँवाँ, जोग करि ईंधन सुरति-अग्नि सुलगाए ।
 फँक उसास, विरह परेजोरनि, दरसन-आस फिराए ॥
 भए टँपूरन भरे प्रेम-जल, छुवन न काहू पाए । ।
 राजकाज तें गए सूर सुनि, नँदनँदन कर लाए ॥२२०॥

श्री कृष्ण के लिये —
 राग मलार

अधो ! कुलिस भई यह छाती ।

मेरो मन रसिक लग्यो नँदलालहि, फखत रहत दिनराती ॥
 तजि ब्रजलोक, पिता अरु जननी, कंठ लाय गए काती ।
 ऐसे निठुर भए हरि हमको कवहुँ न पठई पाती ॥
 पिय पिय कहत रहत जिय मेरो है चातक की जाती ।
 सूरदास प्रभु प्रानहिं राखहु है कै बूँद-सवाती ॥२२१॥

राग सारू

अधो ! कहु मधुवन की रीति ।

राजा है ब्रजनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ?
 निसि लौं करत दाह दिनकर ज्यों हुतो सदा ससि सीति ।
 पुरवा पवन कह्यो नहिं मानत गए सहज वपु जीति ॥
 कुब्जा-काज कंस को मारयो, भई निरंतर प्रीति ।
 सूर विरह ब्रज भलो न लागत जहाँ व्याह तहँ गीति । २२२ ॥

अधो । काल-चाल चौरासी ।

मन हरि मदनगोपाल हमारो बोलत बोल उदासी ॥
 एते पै हम जोग करहिं क्यों लै अविगत अविनासी ।
 गुप्त गोपाल करी वनलीला हम लूटी सुखरासी ॥
 लोचन उमगि चलत हरि कै हित विन देखे वरिसा सी ।
 रसना सर स्याम के रस विन चातकह तें प्यासी ॥२२३॥

राग कान्हरो



ऊधो ! सरद समयहू आयो ।

बहुते दिवस, रटत त्वातक तकि तेउ स्वाति-जल पायो ॥

केबहुक ध्यान धरत उर-अंतर मुख मुरली लै गावत ।

सो रसरास पुलिन जमुना की ससि देखे सुधि आवत ॥

जासों लगन-प्रीति अंतरगत औगुन गुन करि भावत ।

हमसों कपट, लोक-डर तातें सूर सनेह जनावत ॥२२४॥

राग सारंग

ऊधो ! कौन कुदिन छाँड़यो हो गोकुल ।

बहुरि न आए फिरि या ब्रज में, बिछुरयो तबहिं मिल्यो अब सो कुल ॥

गरग-बचन समुक्के अब मधुवन-कथा-प्रसंग सुन्यो हो जो कुल ।

सूर भये अब त्रिभुवन के पति नातो ज्ञाति लहे अब निज कुल ॥२२५॥

ऊधो ! राखिए वह बात ।

कहत हौ अनहद सुबानी सुनत हम चपि जात ॥

जोग फल-कुष्मांड ऐसो अजामुख न समात ।

बारबार न भाखिए कोउ अमृत तजि विष खात ?

नयन प्यासे रूप के, जल दए नाहिं अघात ।

सूर प्रभु मन हरि गए लै छाँड़ि तन-कुसलात^१ ॥२२६॥

ऊधो ! बात तिहारी जानी ।

आए हौ ब्रज को बिन काजहि, दहत हृदय कटु बानी ॥

जो पै स्याम रहत घट तौ कत विरह-विथा न परानी ?

सूठी वातनि क्यौं मन मानत चलमति, अलप^२ गियानी^३ ॥

(१) कुसलात=कुशल, मंगल । (२) अलप=थाड़ी । (३)

गियानी=बुद्धिवाला ।

जोग-जुगुति की नीति अगम हम ब्रजवासिनि कह जाने ?
सिखवहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेम लपटाने ॥
दासी घेरि रहे हरि, तुम ह्यौ गढ़ि गढ़ि कहत बनाई ।
निपट निलज्ज अजहुँ न चलत उठि, कहत सूर समुझाई ॥२२७॥

ऊधो ! राखति हौं पति तेरी ।
ह्यौं तें जाहु, दुरहु आगे तें देखत आँखि बरति हैं मेरी ॥
तुम जो कहत गोपाल सत्य है, देखहु जाय न कुब्जा घेरी ।
ते तौ तैसेइ दोउ बने हैं, वै अहीर वह कंस की चेरी ॥
तुम सारिखे वसीठ पठाए, कहा कहाँ उनकी मति फेरी ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को ग्वालिनि कै संग जो बति हेरी ॥२२८॥

ॐ

राग नट

ऊधो ! वेदवचन परमान ।

कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिहैं क्यों
श्री-निकेत-समेत सब गुन, सकल-रूप-निधान ।
अधर-सुधा पिवाय बिछुरे पठै दीनो ज्ञान ॥
दूरि नहीं दयाल सब बट कहत एक समान ।
निकसि क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान ?
रूप-रेख न देखिए, चिन स्वाद सब्द भुलान ।
ईखदंडहि डारि हरिगुन, गहत पानि विषान ॥
वोतराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निवास ।
निगम-चानी मेटिकें क्यों कहै सूरजदास ? ॥२२९॥

ॐ वा रति मेट ॥८

राग सारंग

ऊधो अब चित भए कठोर ।

पूरव प्रीति विसारी गिरिधर नवतन राचे और ॥

जा दिन तें मधुपुरी सिधारे धीरज रह्यो न मोर ।
जन्म जन्म को दासी तुम्हरी नागर नंदकिसोर ॥
चित्तवानि-वान लगाए मोहन निकसे उर वही ओर^१ ।
सूरदास प्रभु कबहिं मिलौगे, कहाँ रहे रनछोर ? ॥२३०॥

ऊधो ! अब नहिं स्याम हमारे ।

मधुवन बसत बदलि से गे वे, माधव मधुप तिहारे ॥
इतनिहिं दूरि भए कछु औरै, जोय जोय मगु हारे ।
कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यों अंत भए उड़ि न्यारे ॥
रस लै भँवर जाय स्वारथ-हित प्रीतम चितहिं विसारे ।
सूरदास तिनसों कह कहिए जे तन हूँ मन कारे ॥२३१॥

ऊधो ! पा लागौ भले आए ।

तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसाए ॥
नंद जसोदा नातो टूटो वेद पुरानन गाए ।
हम अहीरि, तुम अहिर नाम तजि निगुन नाम लखाए ॥
तव यहि घोष खेल बहु खेले ऊखल भुजा वँधाए ।
सूरदास प्रभु यहै सूल जिय बहुरि न चरन दिखाए ॥२३२॥

ऊधो ! निरगुन कहत हौ तुमहीं अब धौं लेहु ।

सगुन मूरति नंदनंदन हमहिं आनि सु देहु ॥
अगम पंथ परम कठिन रावन तहाँ नाहि ।
सनकादिक भूलि परे अबला कहँ जाहि ?
पंचतत्त्व प्रकृति कहो अपर कैसे जानि ?
मन बच क्रम कहत सूर वैरनि की वानि ॥२३३॥

①

ऊधो ! और कछू कहिवे को ?

सोऊ कहि डारौ पा लागै, हम सब सुनि सहिवे को ॥

यह उपदेश आज लौं मैं, सखि, सुवन सुनयो नहि देख्यो ।

^{कह्यो} नारिस कटक तपते जीवनगत, चाहत मन उर लेख्यो !

वसत स्याम निकसत न एक पल हिये मनोहर ऐन ।

या^१ कहँ यहाँ ठौर नाहीं, लै राखौ जहाँ सुचैन ॥

हम सब सखि गोपाल-उपासिति हमसों वातै छाँड़ि ।

सुर मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुवजा के घर गाड़ि ॥२३४॥

राग आसावरी

②

ऊधो ! कहियो सबै सोहती ।

जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहौ ब्रज में कोय ती ?

अंतहु सीख सुनहरो हमसु कहियत वात विचारि ।

^{फुरत} न वचन कछू काहवे को, रहे प्रीति सों हारि ॥

देखियत हौ करुना की मूरति, सुनियत हौ परपीरक^३ ॥

सोय करौ ज्यों मिटै हृदय को दाह, परै उर सीरक^४ ॥

राजपंथ तें टारि वतावत उरझ कुवील कुपडा^५ ।

सूरजदास समाय कहाँ लों अज के वदन कुम्हैडो ? ॥२३५॥

③

ऊधो ! तुमहुँ सुनौ इक वात ।

जो तुम करत सिखावन सो हमैं नाहिन नेकु सुहात ॥

- (१) या कहँ=अर्थात् निर्गुण को । (२) फुरत=मुँह से निकलता है । (३) देखियत...परपीरक=देखने में तो बड़े दयालु जान पड़ते हो पर तुम्हारी बातें सुनने में बड़ी पीड़ा होती है । (४) सीरक=ठंडा । (५) कुम्हैडो=कुम्हड़ा ।

* 'परपीरक' का अर्थ होता है 'दूसरे की पीड़ा समझनेवाला', 'पराई पीड़ा का अनुभव करनेवाला' ।

ससि-दरसन बिनु मलिन कुमोदिनि ज्यों रवि बिनु जलजात ।
 स्यों हम कमलनयन बिन देखे तलफि तलफि मुरझात ॥
 घँसि चँदन घनसार सजे तन ते क्यों भस्म भरात ?
 रहे स्रवन मुरलीधर सों रत, सिंगी सुनत डरात ॥
 अबलनि आनि जोग उपदेसत नाहिंन नेकु लजात ।
 जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कटु खात ?
 अबधि-आस गनि गनि जीवति है, अब नहीं प्रान खटात^१ ।
 सूर स्याम हम निपट बिसारी ज्यों तरु जीरन पात ॥२३६॥

राग कान्हरो



ऊधो ! अँखियाँ अति अनुरागी ।

इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहु पलक न लागी ॥
 बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हौ बिदमान ।
 अब धौ कहा कियो चाहत हौ ? छाँड़हु नीरस ज्ञान ॥
 सुनु प्रिय सखा स्यामसुंदर के जानत सकल सुभाव ।
 जैसे मिलै सूर प्रभु हमको सो कछु करहु उपाव ॥२७३॥

ऊधो ! कहत कही नहिं जाय ।

मदनगोपाल लाल के बिछुरत प्रान रहे मुरझाय ॥
 अब स्यँदन चँढ़ि गवन कियो इत फिरि चितयो गोपाल ।
 तबहीं परम कृतज्ञ सबै उठि संग लगीं ब्रजबाल ॥
 अब यह औरै सृष्टि विरह की बकति बाय-बौरानी ।
 तिनसों कहा देत फिरि उत्तर ? तुम हौ पूरन ज्ञानी ॥
 अब सो मान घटै, का कीजै ? ज्यों उपजै परतीति ।
 सूरदास कछु बरनि न आवै कठिन विरह की रीति ॥२३८॥

(१) खटात = ठहरता है ।

राग विहागरो

ऊधो ! यह मन अधिक कठोर ॥
 निकास न गया कुंभ का च व्यो, विछुरत नंदकिसोर ॥
 हम कछु प्रीति-रीति नहिं जानी तव ब्रजनाथ तजी ।
 हमरे प्रेम न उनको, ऊधो ! सवर रस-रीति लजी ॥
 हमतें भली जलचरी वपुरी अपनो नेम निवाहैं ।
 जल तें विछुरत ही तन त्यागैं जल ही जल को चाहैं ॥
 अचरज एक भयो सुनो, ऊधो ! जल बिनु मीन जियो ।
 सूरदास प्रभु आवत कहि गए, मन विस्वास कियो ॥२११॥

ऊधो ! होत कहा समुभाए ?
 चित चुभि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए ?
 पा लागौ कहियो हरिजू सों दरस देहु इक बेर ।
 सूरदास प्रभु सों विनती करि यहै सुनैयो टेरे ॥२४०॥

ऊधो ! हमैं जोग नहिं भावै ।
 चित में वसत स्यामवन सुंदर, सो कैसे विसरावै ?
 तुम जो कही सत्य सब बातें, हमरे लेखे धरि ।
 या घट-भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरि पूरि ॥
 पा लागौ कहियो मोहन सों जोग कूवरो दीजै ।
 सूरदास प्रभु-रूप निहारैं हमरे संमुख कीजै ॥२४१॥

ऊधो ! हम न जोगपद साधे ।
 सुंदरस्याम सलोनी गिरिधर नंदनंदन आराधे ॥
 जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के साज ।
 ता तन को कहै भस्म चढ़ावन, आवत नाहिन लाज ॥
 घट-भीतर नित वसत साँवरो मोरमुकुट सिर धारे ।
 सूरदास चिततिन सों लाग्यो, जोगहिं कौन सँभारे ? ॥२४२॥

राग सारंग

ऊधो ! कहियो यह संदेस ।

लोग कहत कुवजा-रस-माते, तातें तुम सकुचौ जनि लेस ॥
 कबहुँक इत पग धारि सिधारौ धरि हरिखंड सुवेस ।
 हमरो मनरंजन कीन्हें तें हैहौ भुवननरेस ॥
 जब तुम इत ठहराय रहौगे देखौगे सब देस ।
 नहिँ बैकुंठ अखिल ब्रह्मांडहि ब्रज विनु^१, हे हृषिकेस^२ !
 यह किन मंत्र दियो नन्दनन्दन तजि ब्रज भ्रमन-विदेस ?
 जसुमति जननी प्रिया राधिका देखे औरहि देस ?
 इतनी कहत कहत स्यामा पै कछु न रह्यो अवसेस ।
 मोहनलाल प्रवाल मृदुलमन ततछन करी सुहेसु ॥
 को ऊधो, को दुसह विरह-जुर^३ को नृपनगर-सरेस ?
 कैसो ज्ञान, कह्यो किन कासों, किन पठयो उपदेस ?
 मुख मृदुछवि मुरली-रव-पूरित गोरज-कबुर^४ केस^५ ।
 नट-नाटकगति विकट लटक जब बन तें कियो प्रवेस ॥
 अति आतुर अकुलाय धाय पिय पोंछत नैन कुसेस^५ ।
 कुम्हिलानो मुखपद्म परस करि देखत छविहि विसेस ॥
 सूर सोम, सनकादि, इंद्र, अज, सारद, निगम, महेस ।
 नित्यविहार सकल रस भ्रमगति कहि गावहि मुख सेस ॥२४३॥

राग आसावरी

ऊधो ! हरिजू हित जनाय चित चोराय लयो ।

ऊधो ! चपल नयन चलाय अंगराग दयो ॥

- (१) विनु=अतिरिक्त, सिवाय, छोड़कर । (२) हृषिकेस=विष्णु ।
 (३) जुर=ज्वर, ताप । (४) गोरज-कबुर केस=गायों के खुर पड़नेसे
 उठी हुई धूल लगनेके कारण धूमले बाल । (५) कुसेस=कुशेशय, कमल !

परम साधु सखा सुजन जटुकुल के भानि ।
 कहौ बात प्रात एक साँची जिय जानि ॥
 सरद-वारिज सरिस दृग भौह काम-कमान ।
 क्यों जीवहिं वेधे उर लगे विषम बान ?
 मोहन मथुरा पै वसै, ब्रज पठयो जोगसँदेस ।
 क्यों न काँपि मेदिनी कहत जुवतिन उपदेस ?
 तुम सयाने स्याम के देखहु जिय विचारि ।
 प्रीतम पति नृपति भए औ गहे वर नारि ॥
 कोमल कर मधुर मुरलि अधर धरे तान ।
 पसरि सुधा पूरि रही कहा सुनै कान ?
 मृगी मृगज^१-लोचनी भए उभय एक प्रकार ।
 नाद नयनविष-तते^२ न जान्यो मारनहार ॥
 गोधन तजि गवन कियो लियो विरद गोपाल ।
 नोके कै कहिवी^३, यह भली निगम-चाल ॥२४४॥

मधुकर ! जानत है सब कोऊ ।

जैसे तुम औ भीत तुम्हारे, गुननि निपुन हौ दौऊ ॥
 पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ वोऊ ।
 सरवसु हरत, करत अपनो सुख, कैसेहू किन होऊ ॥
 परम कृपन थोरे धन जीवन उवरत नाहिन सोऊ ।
 सूर सनेह करै जो तुमसों सो करै आप-विगोऊ^४ ॥२४५॥

मधुकर ! कहियत बहुत सयाने ।

तुम्हरी मति कापै वनि आवै हमरे काज अजाने ॥

(१) मृगज=हिरनका वच्चा । (२) तते=तपे हुए । (३) काहिवी
 =कहना । (४) विगोऊ=नाश, खराबी ।

तैसोई तू, तैसो तेरो ठाकुर, एकहि बरनहि वाने ।
 पहिले प्रीति पिवाय सुधारस पाछे जोग बखाने ॥
 एक समय पंकजरस बासे दिनकर अस्त न माने ।
 सोइ सूर गति भइ छाँ हरि विनु हाथ मीड़ि पछिताने ॥२४६॥

मधुकर ! कहत सँदेसो मूलहु

हरिपद छाँड़ि चले तातें तुम प्रीतिप्रेम भ्रमि भूलहु ॥

नहिं या उक्ति मृदुल श्रीमुख की, जे तुम डर में हूलहु^२ ।

बिलज न बदन होत या उचरत, जो संधान न मूलहु^३ ।

उत बड़ ठौर नगर मथुरा, इत तरनितनूजा^४ कूलहु

उत महाराज चतुर्भुज सुमिरौ, इत किसोरनंद दूलहु ।

जे तुम कही बड़ेन की बतियाँ ब्रज जन नहिं समतूलहु^५ ।

सूर स्याम गोपी-संग बिलसे कंठ धरे भुजमूलहु ॥२४७॥

राग सारठ

मधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरो ।

गयो जो संग नंदनंदन के बहुरि न कीन्हों फेरो ॥

लयो नयन मुसकानि मोल है, कियो परायो चेरो ।

सौँप्यो जाहि भयो बस ताके, विसण्यो बास-बसेरो ॥

को समुझाय कहै सूरज जो रसबस काहू केरो ?

मंदे परयो, सिधारु अनत लै, यह निर्गुन मत तेरो ॥२४८॥

मधुकर ! हमहीं कौ समझावत ।

बारंवार ज्ञानगाथा ब्रज अवलन आगे गावत ॥

(१) मूलहु = शूल उत्पन्न करते हो । (२) हूलहु = चुभाते हो । (३) जो संधान न मूलहु = यदि कृष्ण के कहे मूल वचन में मिश्रवट न होती । (४) तरनितनूजा = सूर्य की कन्या, यमुना ।

नँदनंदन विन कपट कथा कहि कत अनरुचि उपजावत ?
 स्रक^१ चंदन तन में जो सुधारत कहु कैसे सचु पावत ?
 देखु विचारि तुहि अपने जिय नागर है जु कहावत ?
 सब सुमनन फिरि फिरि नीरस करि काहे को कमल वैधावत ?
 कमलनयन करकमल कमलप्रग कमलवदन विरभावत ।
 सूरदास प्रभु अलि अनुरागी काहे को और भुकावत^२ ॥२४९॥

१०५. मधुकर रागधनाश्री

को गोपाल कहाँ को वासी, कासों है पहिंचान ?

तुमसों सँदेसो कौन पठाए, कहत कौन सों आनि ?
 अपनी चाँड़ आनि उड़ि वैठ्यो भँवर भलो रस जानि ।
 कै वह बेलि वड़ौ कै सूखौ, तिनको कह हितहान ॥
 प्रथम वेनु वन हरत हरिन-मन राग-रागिनी ठानि ।
 जैसे वधिक विसासि विवस करि वधत विषम सर तानि ॥
 पय प्यावत पूतना हनी, छपि वालि हन्यो, बलि दानि ।
 सूपनखा, ताड़का निपाती सूर स्याम यह वानि ॥२५०॥

मधुकर के पठए तें तुम्हरी व्यापक^३ न्यून परी ।
 नगरनारि^४-मुखछवि-तन निरखत द्वै वतियाँ विसरीं ॥
 ब्रज को नेह, अरु आप पूर्नता एको ना उवरी ।
 तीजो पंथ प्रगट भयो देखियन जव भेंटी कुवरी ॥
 इह तो परम साधु तुम उहक्यो, इन यह मन न धरी ।
 जो कह्यु कह्यो सुनि चल्यो सोस धरि जोग-जुगति-भाठरी ॥

(१) स्रक = माला । (२) भुकावत = भुकाता है, ब्रकवाद करता है । (३) व्यापक = व्यापकता । (४) नगरनारि = मथुरा की नागरी स्त्रियों की ।

सूरदास प्रभुता का कहिए प्रीति भली पसरी !

राजमान सुख रहै कोटि पै घोष न एक घगी ॥२७१॥

राग आसावरी

मधुकर ! बादि^१ बचन कत बोलत ?

तनक न तोहि पत्याऊँ, कपटी अंतर-कपट न खोलत ॥

तू अति चपल अल्प^२ को संगी विकल चहूँ दिसि डोलत ।

मानिक काँच, कपूर कटु खली, एक संग क्यों तोलत ?

सूरदास यह रटत बियोगिनि दुसह दाह क्यों भोलत^३ ।

अमृतरूप आनंद अंगनिधि अनमिल अगम अमोलत ॥२५१॥

राग केदारो

मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो ।

हरि-मुख की सुनि मीठी बातें डरपत है मन मेरो ॥

कहत हौ चरन छुवन रसलंपट, बरजत हौ बेकाज ।

परसत गात लगावत कुंकुम, इतनी में कछु लाज ?

बुधि विवेक अरु बचन-चातुरी ते सब चित्तै चुराए ।

सो उनको कहो कहा विसारयो, लाज छाँड़ि ब्रज आए ॥

अब लौं कौन हेतु गावत है हम आगे यह गीत ।

सूर इते सों गारि^४ कहा है जौ पै त्रिगुन अतीत ? ॥२५३॥

मधुकर काके मोत भए ?

दिवस चारि की प्रीति-सगाई सो लै अनत गए ॥

डहकत फिरत आने स्वारथ पाखंड और ठए ।

चाँड़ै सरे^५ चिन्हारी मेटी, करत हैं प्रीति न ए ॥

(१) बादि = व्यर्थ । (२) अल्प = आछा । (३) झालत = तलाता, है । (४) गारि = बुराई । (५) चाँड़ै सरे = मन की हौस नेंकल जाने पर, अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर ।

अमरगीत-सार
मन लय होजाते पर किस प्रकार स्थिति उच्चाट के हमारे मन-...
चित्तहि उच्चाटि मेलि गए रावल' मन हरि हरि जु लए।

सूरदास प्रभु दूत-धरम तजि विष के बीज वए ॥२५४

मधुकर ! कहाँ पढ़ी यह नीति ?

लोकवेद स्रुति-ग्रंथ-रहित सब कथा कहत विपरीत ॥
जन्मभूमि ब्रज, जननि जसोदा केहि अपराध तजी ?
अति कुलीन गुन रूप अमित सब दासी जाय भजी ॥
जोगसमाधि गूढ़ स्रुति मुनिमग क्यों समुक्ति है गँवारि ।
जौ पै गुन-अतीत व्यापक तौ होहिं, कहा है गारि ?
रहु रे मधुप ! कपट स्वारथ हित तजि बहु वचन विसेखि ।
मन क्रम वचन वचत यहि नाते सूर-स्याम-तन देखि ॥२५५

मधुकर ! होहु यहाँ ते न्यारे ।

तुम देखत तन अधिक तपत है अरु नयनन के तारे ॥
अपनो जोग सँति धरि राखौ, यहाँ लेत को, डारे ?
तोरे हित अपने मुख करिहैं मीठे ते नहिं खारे ॥
हमरे गिरिवरधर के नाम गुन वसे कान्ह उर वारे ।
सूरदास हम सबै एकमत, तुम सब खोटे कारे ॥२५६

मधुप ! विराने लोग बटाऊं ।
राग, नट
पराय
बाल्यक
के

दिन दस रहत काज अपने को तजि गए फिरे न काऊं ॥
प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयौ ज्ञान अगाऊं ।
हमको जोग, भोग कुब्जा को, वाको यहै सुभाऊं ॥

(१) रावल = महल, राजभवन । (२) भजी = अंगीकार की
सँति = सहेजकर । (४) बटाऊं = पथिक । (५) काऊं = कर्म

कीजः कहा नन्दर्नदन को जिनके है सतभाऊ ।
सूरदास प्रभु तन मन अरप्यो प्रान रहै कै जाऊ ॥२५७॥

राग सारंग

मधुकर ! महाप्रवीन सयाने ।

जानत तीन लोक की बातें अबलन काज अयाने ॥
जे कच कनक-कचोरा भरि-भरि मेलत तेल फुलेल ।
तिन केसन को भस्म बतावत, टेसू^१ कैसो खेल ॥
जिन केसन कबरी^२ गहि सुंदर अपने हाथ बनाई ।
तिनको जटा धरन को, ऊधो ! कैसे कै कहि आई ?
जिन स्रवनन ताटक, खुभी अरु करनफूल खुटिलाऊ ।
तिन स्रवनन कसमीरी^३ मुद्रा, लटकन, चीर झलाऊ^४ ॥
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकवेसरि, नथ फूली ।
ते सब तजि हमरे मेलन को उज्वल भस्मी खूली^५ ॥
कंठ सुमाल, हार मनि, मुक्ता, हीरा, रतन अपार ।
ताही कंठ बाँधिवे के हित सिंगी जोगसिंगार ॥
जिहि मुख नीत सुभाखत गावत करत परस्पर हास ।
ता मुख मौन गहे क्यों जीवै, घूटै ऊरध स्वास ?
कंचुकि छीन, उवटि घसि चंदन, सारो सारस चंद ।
अब कंथा^६ एकै अति गूदर क्यों पहिरै, मतिमंद ?

(१) टेसू=लड़कों का एक उत्सव जो दसहरे के दिन होता है और जिसमें वे एक घास का पुतला लेकर गाते हुए निकलते हैं । (२) कबरी=वेणी, चोटी । (३) कसमीरी=स्फटिक की । (४) झलाऊ=झोलझाल । (५) खूली=खोली, थैली । (६) कंथा=योगियों की गुदड़ी ।

ऊधो, उठो सबै पा लागौ, देख्यो ज्ञान तुम्हारो ।
सूरदास मुख बहुरि देखिहैं जीजौ कान्ह हमारो ॥२५८॥

मधुकर ! कौन देस तें आए ?

जब तें क्रूर गयो लै मोहन तव तें भेद न पाए ॥
जाने सखा साधु हरिजू के अवधि वदन को आए ।
अव या भाग, नंदनंदन को या स्वामित को पाए ॥
आसन, ध्यान, वायु-अवरोधन, अलि, तन मन अति भाए ।
है विचित्र अति, गुनत सुलच्छन गुनी जोगमत गाए ॥
मुद्रा, सिंगी, भस्म, त्वचा-मृग, ब्रजजुवती-तन ताए ।
अतसी कुसुमवरन मुख मुरली सूर स्याम किन लाए ॥२५९॥

मधुकर ! कान्ह कही नहीं होहीं ।

यह तौ नई सखी सिखई है निज अनुराग वरोही ॥
सँचि राखी कूबरी-पीठि पै ये वातें चकचोही ।
स्याम सुगाहक पाय, सखी री, छार दिखायो मोही ॥
नागरमनि जे सोभा-सागर जग जुवती हँसि मोही ।
लियो रूप है ज्ञान ठगौरी, भलो ठग्यो ठग वोही ॥
है निर्गुन सरवरि कुवरी अव घटो करी हम जोही ।
सूर सो नागरि जोग दीन जिन तिनहि आज सब सोही ॥२६०॥

संज्ञा

राग सोरठ

मधुकर ! अब धौं कहा करयो चाहत ?

ये सब भई चित्र को पुतरी सून्य सरीरहि दाहत ॥

(१) स्वामित=प्रभुता । (२) अतसी=भलसी, तासी । (३) वरोहा=बल से । (४) चकचाहा=चुहल का । (५) लियो रूप=रूप ले लिया, निराकार कर दिया, बदले में ठगकर ज्ञान दे दिया ।

हमसों तोसों बैर कहा, अलि, स्याम अजान ज्यों राहत ।
 भारि मूरि मन तो हरि लै गए बहुरि पयारहि गाहत ॥
 अब तौ तोहि मरुत को गहिबो कह स्रम करि तू लैहै ?
 सूरज कोट-मध्य तू ह्वै रह, अपनो कियो तू पैहै ॥२६१॥

राग सारंग

मधुकर ! आवत यहै परेखो ।

जब वारे तब आस बड़े की, बड़े भए सो देखो !
 जोग-जज्ञ, तप, दान, नेम-व्रत करत रहे पितु-मात ।
 क्यों हूँ सुत जो बढ्यो कुसल सों, कठिन मोह की बात ॥
 करनी प्रगट प्रीति पिक-कीरति अपने काज लौं भीर ।
 काज सूर्यो दुख गयो कहाँ धौं, कहँ बायस को बीर ॥
 जहँ जहँ रहौ राज करौ तहँ तहँ लेव कोटि सिर भार ।
 यह असीस हम देति सूर सुनु न्हात खसै जनि वार ॥२६२॥

मधुकर ! प्रीति किए पछितानी ।

हम जानी ऐसी निवहैगी उन कछु औरै ठानी ॥
 कारे तन को कौन पत्यानो ? बोलत मधुरी बानी ।
 हमको लिखि लिखि जोग पठावत आपु करत रजधानी ॥
 सूनी सेज स्याम बिनु मोको तलफत रैन विहानी ।
 सूर स्याम प्रभु मिलिकै बिछुरे तातें मति जु हिरानी ॥२६३॥

(१) प्रयार=पयाल, अनाज के पौधों के सूखे डंठल । (२) गाहना=
 डंडे से उलट पलटकर झाड़ना । (३) खसै=दूटकर गिरे ।

राग मारु

मधुकर की संगति तें जनियत वंस अपन चितयो^१ ।
 विन समझे कह चहति सुंदरी सोइ मुख-कमल गह्यो ॥
 व्याधनाद कह जानै हरिनी करसायल की नारि ?
 आलापहु, गावहु, कै नाचहु दावँ परे लै मारि ॥
 जुआ कियो ब्रजमंडल यह हरि जीति अविधि सों खेलि ।
 हाथ परी सो गही चपल तिय, रखी सदन में हेलि^२ ॥
 ऊनो^३ कर्म कियो मातुल^४ बधि मदिरा-मत्त प्रमाद ।
 सूर स्याम एते औगुन में निगुन तें अति स्वाद ॥२६४॥

राग सोरठ

मधुकर ! चलु आगे तें दूर ।
 जोग सिखावन को हसैं आयो बड़ो निपट तू कूर ॥
 जा घट रहत स्यामघन सुंदर सदा निरंतर पूर ।
 ताहि छाँड़ि क्यों सून्य अराधैं, खोवैं अपनो मूर^५ ?
 ब्रज में सब गोपाल-उपासी, कोउ न लगावै धूर ।
 अपनो नेम सदा जो निवाहै सोई कहावै सूर ॥२६५॥

Ⓜ मधुकर ! सुनहु लोचन-वात ।
 बहुत रोके अंग सब पै नयन उड़ि उड़ि जात ॥
 ज्यों कपोत वियोग-आतुर भ्रमत्त है तजि धाम ।
 जात दृग त्यौं, फिरि न आवत विना दरसे स्याम ॥

- (१) वंस, अपन चितयो=अपना वंश ताका, अपने कुल में गए ।
 (२) सदन...हेलि=घर में डाल रखी । (३) ऊनो=थोछा, खोटा ।
 (४) मातुल=मामा (कंत) । (५) मूर=पूँजी, मूलधन ।

रहे मूँदि कपाट पल^१ दोउ, भए घूँघट-ओट ।
 स्वास कढ़ि तौ जात तितही निकसि मन्मथ फोट^२ ॥
 स्रवन सुनि जस रहत हरिको, मन रहत धरि ध्यान ।
 रहत रसना नाम रटि, प्रै इनहि दरसन हान^३ ॥
 करत देह विभाग भोगहिं, जो कछू सब लेत^४ ।
 सूर दरसन ही बिना यह पलक चैन न देत ॥२६६॥

राग गौरी

मधुकर ! जो हरि कही करै ।

राजकाज चित दयो साँवरे, गोकुल क्यों बिसरै ?
 जब लौं घोष रहे हम तब लौं संतत सेवा कीन्हीं ?
 बारक कहे उलूखल बाँधे, वहै कान्ह जिय लीन्हीं ॥
 जौ पै कोटि करै ब्रजनायक बहुते राजकुमारी ।
 तौ ये नंद पिता कहँ मिलिहैं अरु जसुमति महतारी ?
 गोवर्द्धन कहँ गोपबृंद सब कहँ गोरस सद^५ पैहो ?
 सूरदास अब सोई करिए बहुरि हरिहि लै ऐहो ॥२६७॥

राग विलावल

मधुकर ! भल आए बलवीर ।

दुर्लभ दरसन सुलभ पाए जान क्यों परपीर ?
 कहत बचन, बिचारि बिनबहिं सोधियो उन पाहि ।
 प्रानपति की प्रीति, ऊधो ! है कि हम सों नाहि ?

(१) पल=पलक । (२) फोट=उद्गार । (३) हान = हानि ।

(४) करत देह विभाग.....लेत=जो कुछ एक अंग प्राप्त करता है
 उसका सुख सारे अंग बाँट लेते हैं । (५) सद=ताजा ।

कौन तुम सों कहैं, मधुकर ! कहन जोगै नाहिं ।
 प्रीति की कछु रीति न्यारी जानिहौ मन माहिं ॥
 नयन नौद न परै निसिदिन विरह वाढ़यो देह ।
 कठिन निर्दय नंद के सुत जोरि तोरयो नेह ॥
 कहा तुम सों कहैं, षटपद ! हृदय गुप्त कि बात ।
 सूर के प्रभु क्यों बनै जौ करै अंजला घात ? ॥२६८॥

मधुकर ! यह कारे की रीति ।

मन दै हरत परायो सर्वस करै कपट की प्रीति ॥
 ज्यों षटपद अंजुज के दल में वसत निसा रति मानि ।
 दिनकर उए अनत उड़ि बैठै फिर न करत पहिचानि ॥
 भवन भुजंग पिटारे पाल्यो ज्यों जननी जनि तात ।
 कुल-करतूति जाति नहिं कबहुँ सहज सो डसि भजि जात ॥
 कौकिल काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत ।
 सूरदास प्रभु को मुख देख्यो निसदिन हीं मोहिं भावत ॥२६९॥

राग सोरठ

मधुप ! तुम कहा यहै गुन गावहु ।

यह प्रिय कथा नगर-नारिन सों कहौ जहाँ कछु पावहु ॥
 जानत मरम नंदनंदन को, और प्रसंग चलावहु ।
 हम नाहीं कमलिनि-सी भोरी करि चतुरई मनावहु ॥
 जनि परमौ अलि ! चरन हमारे विरह-ताप उपजावहु ।
 हम नाहीं कुविजा-सी भोरी, करि चातुरी दिखावहु ॥
 अति विचित्र लरिका की नाईं गुर दिखाय बहरावहु ।
 सूरदास प्रभु नागरमनि सों कोउ विधि आनि मिलावहु ॥२७०॥

(१) षटपद = भौरा ।

राग केदारो

मधुकर ! पीत बदन^१ किहि हेत^२ ?

जनु अंतरमुख पांडु रोग भयो जुवतिन जो दुख देत ॥
समय तन मग्न स्याम-धाम सो ज्यों उजरो संकेत^३ ।
 कमलनयन के बचन सुधा से ^{वाक्यो दे सखीनि} करट^४ घट भरि लेत ॥
 कुत्सित कटु बायस सायक सो अब बोलत रसखेत ?
 इन चतुरी तें लोग बापुरे कहत धर्म को सेत^५ ॥
 भाथे परौ जोगपथ तिनके ^{सुखका छपट समेत ।}
 लोचन ललित कटाच्छ माच्छ ^{सुखलता नि निरुपकर} विनु माहि मं जिऐ निचेत ॥
 मनसां वाचा और कर्मना स्यामसुंदर सों हेत ॥
 सूरदास मन की सब जानत हमरे मनहिं जितेत^६ ॥२

मधुकर ! मधुमदमाती डोलत । /

जिय उपजत सोइ कहत न लाजत सूधे बोलत न बोलत ॥
 बकत फिरत मदिरा के लीन्हे बारबार तन घूमत ।
 ब्रीडारहित^७ सबन अवलोकत लता-कली मुख चूमत ॥
 अपनेहुँ मन की सुधि नाहीं परयो आन ही कोठो^८ ।
 सावधान करि लेहि अपनपौ तब हम सों करु गोठो ॥
 मुख लागी है पराग पीक की, डारत नाहिन धोई ।
 तासों कह कहिए सुनु, सूरज, लाज डारि सब खोई ॥२७२॥

(१) पीत बदन=भौरे के सिर पर पीला चिह्न होता है । (२) संकेत = मिलने का स्थान । (३) करट=कौआ । (४) धर्म को सेत = धर्म को पार लगानेवाले, सेतु=पुल । (५) जितेत=जितना । (६) ब्रीडा=लज्जा । (७) परयो.....कोठो = मन और ही कोठे में है अर्थात् भ्रान्त है । (८) गोठो=गोष्ठी, सलाह ।

मधुकर ! ये सुनु तन मन कारे ।

कहूँ न सेत सिद्धताई तन परसे हैं अंग कारे ॥
 कीन्हो कपट कुंभ विषपूरन पयमुख प्रगट उधारे ।
 वाहिर वेष मनोहर दरसत, अंतरगत जु ठगारे ॥
 अब तुम चले ज्ञान-विष ब्रज दै हरन जु प्राण हमारे ।
 ते क्यों भले होंहि सूरजप्रभु रूप, वचन, कृत कारे ॥२७३॥

राग सारंग

मधुकर ! तुम रसलंपट लोग ।

कमलकास में रहत निरतर हमहि सिखावत जोग ॥
 अपने काज फिरत ब्रज-अंतर निमिष नहीं अकुलात ।
 पुहुप गए वहरै ^{रुजिपुलः} ~~वेलिन~~ के ^{अरे} ~~नेके~~ न नेरे जात ॥
 तुम चंचल हौ, चोर सकल अंग वातन क्यों पतियात ?
 सूर विधाता धन्य रच्यो जो मधुप स्याम इकगात ॥२७४॥

मधुकर ! कासों कहि समझाऊँ ?

अंग अंग गुन गहे स्याम के, निर्गुन काहि गहाऊँ ?
 कुटिल कटाक्ष विकट साथक सम, लागत मरम न जाने ।
 मरम गए उर फोरि पिछौँ हैं पाछे पै अहटाने ॥
 धूमत रहत संभारत नाहिन, फेरि फेरि समुहाने ^{प्रभु} ~~प्रभु~~
 टूक टूक है रहे ढोर गहि पाछे पग न पराने ॥
 उठत कबंध जुद्ध जोधा व्यो वाढ़त संमुख हेत १
 सूर स्याम अब अमृत-वृष्टि करि सींचि प्राण किन देत ॥२७५॥

(१) पाछे पै अहटाने=पीछे से उनको आहट मिली । (२) ढोर गहि रहे=संग में लग रहे ।

मधुप ! तुम देखियत हौ चित कारे ।

कालिदीतट पार बसत हौ, सुनियत स्याम-सखा रे !
 मधुकर, चिहुर, भुजंग, कोकिला अवधिन ही दिन टारे ।
 वै अपने सुख ही के राजा तजियत यह अनुहारे ॥
 कपटी कुटिल निठुर हरि मोहीं दुख दै दूर सिधारे ॥
 बारक बहुरि कबै आवैगे जयनन साध निवारे ॥
 उनको सेन साँ आप बिगोव चित चोरत बटमारे ।
सूरदास प्रभु क्यों मन मानै सेवक करत निनारे ॥२७६॥

मधुकर ! का मधुबनहिं गयो ?

काके कहे सँदेस लै आए, किन लिखि लेखु दयो ?
 को बसुदेव-देवकीनंदन, को जदुकुलहि उजागर ?
 तिनसों नहिं पहिचान हमारी, फिरि लै दीजो कागर ॥
 गोपीनाथ, राधिकाबल्लभ, जसुसति-नंद-कन्हारै ।
 दिन प्रति दान लेत गोकुल में नूतन रीति चलाई ॥
 तुम तौ परम सयाने ऊधो ! कहत और की औरै ।
 सूरजदास पंथ के बहँके बोलत हौ ज्यों बौरै ॥२७७॥

राग सारंग

दाखियत कालिदी अति कारी ।

कहियो, पथिक ! जाय हरि सों ज्यों भई विरह-जुर-जार
 मनो पलिका^१ पै परी धरनि धँसि तरंग तलफ तनु भारी^४

(१) निनारे=अलग । (२) जुर=ज्वर, ताप । (३) पलिका=पलंग ।

(४) तरंग.....भारी=तरंग उटना मानों शरीर का तड़फड़ाना है ।

तटवारु उपचार-चूर' मनो; स्वेद-प्रवाह पनारी' ॥
 विगलित, कच कुस कास' पुलिन मनो, पंक जु कज्जल सारो ॥
 भ्रमर मनो मति भ्रमत चहूँ दिसि, फिरति है अंग दुखारी, ॥
 निसिदिन चकई-च्याज बकत मुख, किन मानहुँ अनुहारी ।
 सूरदास प्रभु जो जमुना-गति, सो गति भई हमारी ॥२७८॥

सुनत है कि कौनो सुरली देसत कर भी लाजुते है
सुनियत मुरली देखि लजात ।

दूरहि तें सिंहासन बैठे, सीस नाथ मुसकात ॥
 सुरभी लिखी चित्र भीतिन पर तिनहिं देखि सकुचात ।
 मोरपंख को विजन^४ विलोकत बहरावत कहि वात ॥
 हमरी चरचा जो कोउ चालत, चालत ही चपि^५ जात ।
 सूरदास ब्रज भले विसरयो, दूध दही क्यों खात ? ॥२७९॥

राग मलार

किधौँ घन गरजत नहिं उन देसनि ?

किधौँ वहि इंद्र हठिहि हरि वरज्यौ, दादुर खाए सेसनि^१ ।
 किधौँ वहि देस बकन मग छाँड्यो, धर^२ वृद्धतिन प्रवेसनि ॥
 किधौँ वहि देस मोर, चातक, पिक बधिकन बधे विसेषनि ।
 किधौँ वहि देस बाल नहिं मूलति गावत गीत सहेसनि ।
 पथिक न चलत सूर के प्रभु पै जासों कहौँ सँदेसनि ॥२८०॥

(१) उपचार-चूर=औषध का चूर्ण । (२) पनारी=धारा, बहाव ।

(३) तट के कुस कास = मानों बिखरे हुए केश हैं । (४) विजन=बीजन, पंखा । (५) चपि जात=दब जाते हैं । (६) सेसनि = साँपों ने । (७) धर=धरा, पृथ्वी । (८) सहेसनि=सहर्ष ।

कोउ सखि नई चाह^६ सुनि आई ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपाति प^६ मदन मिलिक^३ करि पाई ।
 घन धावन^६, बगपाँति पटो^४ सिर, बैरख^५ तड़ित सुहाई ॥
 बोलत पिक चातक ऊँचे सुर, मनो मिलि देत दुहाई ।
दादुर मोर चकोर बदत सुक सुमत्त समीर सुहाई ॥
 चाहत कियो वासु वृंदावन, विधि सों कहा बसाई ?
 सावै^६ न चापि सक्यो तब कोऊ, हुते बल कुँवर कन्हाई ॥
 अब सुनि सूर स्याम-केहरि विनु ये करिहैं ठकुराई* ॥२

बरु ये बदराऊ बरसन आए ।

अपनी अवधि जानि, नँदनंदन ! गरजि गगन घन छाए ॥
 सुनियत हैं सुरलोक बसत सखि, सेवक सदा पराए^७ ।
 चातक-कुल की पीर जानि कै तेउ तहाँ तें धाए ॥
 द्रुम किए हरित, हरषि बेली मिलि, दादुर-मृतक जिवाए ।
 छाए निविड़ नीर नून जहँ तहँ पंछिन हूँ प्रति भाए ॥
 समझति नहिं सखि ! चूक आपनी बहुतै दिन हरि लाए ॥
 सूरदास स्वामी करुनामय मधुवन बसि बिसराए ॥२
 परम बियोगिनि गोविंद विनु कैसे बितवैं दिन सावन के ?
 हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के ॥

(१) चाह=खबर । (२) पै=से । (३) मिलिक=मिलकियत,
 जागीर । (४) पटो=पट, पगड़ी । (५) बैरख=पताका, झंडा ।
 (६) सावै=सामा, हृद । सावै न चापि सक्यो=हृद पर पैर न रख
 सकता था । (७) पराए=दूसरे के अर्थात् इन्द्र के ।

* यह पद तुलसी की 'श्राकृष्ण-गीतवली' में भी है ।

पहिरे सुहाए सुवास सुहागिनि-भुंडन झूलन गावन के ।
 गरजत घुमरि घमंड दामिनी मदन धनुष धरि धावन के ॥
 दादुर मोर सोर सारंग पिक सोहैं निसा सूरमा वन के ।
 सूरदास निसि कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के ॥२८३॥

हमारे माई ! मोरउ वैर परे ।

वन गरजे बरजे नहिं मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥
 करि एक ठौर वीनि इनके पंख मोहन सीस धरे ।
 याही तें हम ही को मारत, हरि हो ढीठ करे ॥
 कह जानिए कौन गुन, सखि री ! हम सों रहत अरे ।
 सूरदास परदेस बसत हरि, ये वन तें न टरे ॥२८४॥

राग आसावरी

सखी री ! हरिहि दोष जनि देहु ।
 जातें इते मान दुख पैयत हमरेहि कपट सनेहु ॥
 विद्यमान अपने इन नैनन्ह सूनो देखति गेहु ।
 तदपि सूल-त्रजनाथ-विरह तें भिदि न होत बड़वेहु ॥
 कहि कहि कथा पुरातन ऊधो ! अब तुम अंत न लेहु ।
 सूरदास तन तो यों है है ज्यों फिरि फागुन-मेहु ॥२८५॥

उधरि आयो परदेसी को नेहु ।
 तव तुम 'कान्ह कान्ह' कहि टेरति फूलति ही, अब लेहु ॥

- (१) त्रिगुन...रावन के = रावण के सिर के त्रिगुने अर्थात् तास (रातभर में तास बढ़ियाँ होती हैं) । (२) वेहु=वेध, छेद । (३) फागुन-नेहु=जलरहित, जीवनरहित । (४) फूलति ही=मन में फुलती थी । (५) अब लेहु=अब परिणाम देखो ।

काहे को तुम सर्वस अपनो हाथ पराए देहु ।
 उन जो महा ठग मथुरा छाँड़ी, सिंधुतीर कियो गेहु ॥
 अब तौ तपन महा तन उपजी, बाढयो मन संदेहु ।
 सूरदास बिहल भई गोपी, नयनन्ह बरस्यो मेहु ॥२८६॥

राग टोड़ी

हरि न मिले; री माई ! जन्म ऐसे ही लाग्यो जान ।
 जोवत मग द्यौस द्यौस बीतत जुग-समान ॥
 चातक-पिक-वयन, सखी ! सुनि न परै कान ।
 चढ़न अरु चंदकिरन कोटि मनो भानु ॥
 जुवती सजे भूषन, रन-आतुर मनो व्रान ॥
 भीषम लौ डासि मदन, अर्जुन के वान ॥
 सोवति सर-सेज सूर, चल न चपल व्रान ।

दच्छिन-रवि-अवधि अटक इतनीए जान ॥२९॥
 देख्यो रागायन सूत्र की अटक की अति हो ॥
 राग नट ॥

तुम्हरे विरह, ब्रजनाथ, अहो प्रिय ! नयतन नदी बंदी ।
 लीने जात निमेष-कूल दोउ एते मान चढ़ी ॥
 गोलक-नव-नौकान सकत चलि, स्यो सरकनि बढि बोरति ।
 ऊरध स्वास-समीर तरंगन तेज तिलक-तरु तोरति ॥
 कज्जल कीच कुचील किए तट अंतर अधर कपोल ।
 रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ थकि हस्त चरन मुख-बोल ॥

(१) व्रान = अंगव्रान, कवच । (२) स्यो = सहित । (३) सरकनि = गति या प्रवाह से । (४) तिलक = टीका या तिलक किनारे के पेड़ हैं (तिलक एक वृक्ष भी है) । (५) कुचील = गन्दा, मैला । (६) हस्त चरन = ये सब मानों पथिक हैं ।

नाहिन और उपाय रमापति विन दरसन छन जीजै ।
असु-सलिल बूडत सब गोकुल सूर सुकर गहि लीजै ॥२८८॥

हमको सपनेहू में सोच । उलटि नखे ही डर है
जा दिन तें विछुरे नंदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥
मनो गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गही ।
कहा करौ वैरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रहो ॥
व्यों चकई प्रतिविब देखिकै आनंदी पिय जानि ।
सूर, पवन मिस निठर विधाता चपल कन्यो जल आनि ॥२८९॥

रतने ही के किछु देते है वहा के वहा के आने जानी को दिलाये
और उलटि लीजै पूर सेगपाराग कान्हरो

अखियाँ अजान भई ।

एक अंग अवलोकत हरि को और हुती सो गई ॥
यों भूली व्यों चोर भरे घर चोरो निधिन लई ।
बदलत भोर भयो पछितानी, कर तें छाँड़ि दई ॥
व्यों मुख परिपरन हो त्या ही पहिलेइ क्यों न रई ।
सूर सकति आत लोभ बढ्यो है, उपजति पोर नई ॥२९०॥

राग कंदारा

दधिसुत जात हौ वहि देस ।

धारका हैं स्यामसुंदर सकल भुवन-नरेस ॥
परम सीतल अमिय-तनु तुम कहियो यह उपदेस ।
काज अपनो सारि, हमको छाँड़ि रहे विदेस ॥
नंदनंदन जगतवंदन धरहु नटवर-भेस ।
नाथ ! कैसे अनाथ छाँड्यो कहियो सूर सँदेस ॥२९१॥

(१) आनंदी = आनंदित हुई । (२) बदलते = यह लें कि यह लें,
यही सोचते और वस्तु बदलते । (३) दधिसुत = उदधिसुत, चन्द्रमा ।

राग मलार

जाहि री सखी ! सीख सुनि मेरी ।

जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि वारक तहाँ आउ दै फेरी ॥
 तू कोकिला कुलोन कुसलमति, जानति बिथा बिरहिनी केरी ।
 उपवन बैठि बोलि मृदुवानी, बचन बिसाहि मोहिं करु चेरी ॥
 प्रानन के पलटे पाइय जस, सेंति बिसाहु सुजस की डेरी ।
 नाहिन कोउ और उपकारी सब बिधि बसुधा हेरी ॥
 करियो प्रगट पुकार द्वार है अबलन्ह आनि अनंग अरि घेरी ।
 ब्रज लै आउ सूर के प्रभु को गावहिं कोकिल ! कीरति तेरी ॥२९२॥

कोउ, माई । बरजै या चंदहि ।

करत है कोप बहुत हम्ह ऊपर, कुमुदिनि करत अनंदहि ॥
 कहाँ कुहू, ^{प्रानन} कह रवि अरु तमचुर, कहाँ बलाहक ^{आपुन} कारे ?
 चलत न चपल, रहत रथ थकि करि, बिरहिनि के तन जारे ॥
 निंदति ^{नदरी यल के} सैल, उदाधि, ^{जासुम्ह} पन्नग को, सापति कमठ कठोरहि ।
 देति असीस जरा देवी को, राहु केतु किन जोरहि ?

(१) बचन बिसाहि=बचनों से अर्थात् केवल वहाँ बोलकर मुझे मोल ले । (२) प्रानन के पलटे=यश प्राण देने पर मिलता है, जल्दी नहीं मिलता (पर तुझे केवल बोलने से ही मिलेगा) । (३) बिसाहु=मोल ले । (४) बलाहक=बादल । (५) कहाँ कुहू.....कारे=इन सबके आने से चंद्रमा या तो छिप जाता है या मन्द हो जाता है । (६) निंदति.....कठोरहि=इनकी निन्दा करती है, क्योंकि उस समुद्रमथन में ये सब सहायक हुए थे जिससे चंद्रमा निकला था । (७) जरा=एक साक्षी, जिसने जरासंघ के शरीर के दो खंड जाड़े थे ।

ज्यों जलहीन मीन-तन तलफत त्योंहि तपत ब्रजवालाहि ।
सूरदास प्रभु वेगि मिलावहु मोहन मदन-गोपालहि ॥२९३॥

राग केदारो

जो पै कोउ मधुवन लै जाय ।

पतिया लिखी स्यामसुंदर को, कर कंकन देउँ ताय ॥
अब वह प्रीति कहाँ गई, माधव ! मिलते वेनु बजाय ।
नयन-नीर सारँग-रिपु भीजै दुख सों रैन विहाय ॥
सून्य भवन मोहि खरो डरावै, यह ऋतु मन न सुहाय ।
सूरदास यह समौ गए तें, पुनि कह लैहै आय ? ॥२९४॥

राग मलार

हरि परदेस बहुत दिन लाए ।

कारी घटा देखि वादर की नैन नीर भरि आए ॥
पा लागौ तुम्ह, वीर बटाऊ ! कौन देस तें धाए ।
इतनी पतिया मेरी दीजौ जहाँ स्यामघन छाए ॥
दादुर मोर पपीहा बोलत सोवत मदन जगाए ।
सूरदास स्वामी जो विछुरे प्रीतम भए पराय ॥२९५॥

आजु घन स्याम की अनुहारि ।

उनै आए साँवरे, ते सजनी ! देखि रूप की आरि ॥
इंद्रघनुष मनो नवल वसन छवि, दामिनि दसन विचारि ।
जनु धगपाँति माल मोतिन की, चितवत हितहि निहारि ॥
गरजत गगन, गिरा गोविंद की सुनत नयन भरे वारि ।
सूरदास गुन सुमिरि स्याम के विकल भई ब्रजनारि । २९६॥

(१) ताय=ताहि, उसको । (२) सारँग-रिपु=कमल का शत्रु चन्द्रमुख ।

राग केदारो

हर को तिलक,^१ हरि ! चित को दहत ।

कहियत है उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव मोकों बह्नि बहत ॥
छपा न छीन होय, मेरी सजनी ! भूमि-डसन-रिपु^{साँप} काँधों बसत ।
ससि नहिं गमन करै पच्छिम दिसि, राहु असत गहि, मोकों न गहत^२ ॥
ऐसोइ ध्यान धरत तुम, दधिसुत ! मुनि महेस जैसी रहनि रहत^३ ।
सूरदास प्रभु मूर्ति मुरति चितै जाति पै चित न सहत^४ ॥२९७॥
कृ ७ राग को मूर्ति के समान मोहित करती है

ए सखि ! आजु को रैन को दुख कयो न कछु मोपै परै ।
मन राखन^५ को बेनु लियो कर, मृग थाके उडुपति न चरै^६ ॥
चाही प्राणनाथ प्यारे विनु सिव-रिपु^७-बान नूतन जो जरै ।
अति अकुलाय विरहिनी व्याकुल भूमि-डसन-रिपु भख न करै ॥
अति आतुर है सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करुन टरै ।
सूरदास ससि को रथ चलि गयो, पाछे तें रवि उदय करै ॥२९८॥

राम मलार

देखौ माई ! नयनन्ह सों घन हारे ।

विन ही ऋतु बरसत निसिवासर सदा सजल दोउ तारे ॥

- (१) हर को तिलक=शिव का शिरोभूषण चन्द्र । (२) भूमि-डसन-रिपु=साँप । (३) राहु.....गहत=इसको राहु पकड़ लेता जिममें यह हमें न असता या कष्ट देता । (४) मुनि महेस...रहत=अर्थात् अचल आसन मारकर, ध्यान लगाकर । (५) चितै जाति...सहत=ध्यान में उनकी मूर्ति देखती हूँ, पर व्याकुलता से देखा नहीं जाता । (६) मन राखन को=मन बहलाने के लिए । (७) चरै=चलता है । (८) सिवरिपु=कामदेव ।

ऊरध स्वास समीर तेज अति दुखे अनेक द्रुम डारे ।
 वदन सदन करि वसे वचन-खग ' ऋतु पावस के मारे ॥
 ढरि ढरि वूँद परत कंचुकि पर मिलि अंजन सों कारे ।
 मानहुँ सिव की पनकुटि विच धारा स्याम निनारे ॥
 सुमिरि सुमिरि गरजत निसिवासर असु-सलिल के धारे ।
 वूँदत ब्रजहि सूर को राखै विनु गिरिवरधर प्यारे ॥२९९॥

जौ तू नेक हू उड़ि जाहि ।

विविध वचन सुनाय वानी यहाँ रिक्कवत काहि ॥
 पतित मुख पिक परुष पसु लौं कहा इतो रिसाहि ।
 नाहिंनै कोउ सुनत समुझत, विकल विरहिनि थाहि ॥
 राखि लेवी अर्वाधि लौं तनु, मदन ! मुख जनि खाहि ।
 तहूँ तौ तन-दग्ध देख्यो, बहुरि का समुझाहि ॥
 नंदनंदन को विरह अति कहत वनत न ताहि ।
 सूर प्रभु ब्रजनाथ विनु लै मौन मोहि विसाहि ॥३००॥

राग सारंग

मधुकर ! जोग न होत संदेसन ।

नाहिंन कोउ ब्रज में या सुनिहै कोटि जतन उपदेसन ॥
 रवि के उदय मिलन चकई को संध्या-समय अदेस न ।
 क्यों वन वसै वापुरे चातक, वधिकन्ह काज वधे सन ॥

(१) वसे वचन-खग=वचन रूपी पक्षियों ने मुँह में ही वसेरा ले लिया है, बाहर नहीं निकलते । (२) निनारे=न्यारे, अलग अलग । (३) पतित मुख = मुँह नीचा किए । (४) लैं मौन.....विसाहि=मौन द्वारा मुझको मोल ले ले अर्थात् चुप रहकर मुझे कृतज्ञ कर । (५) रवि के...अदेस न=संध्या समय जब वियोग हाता है, तब इसमें संदेह नहीं रहता कि सूर्योदय होने पर फिर मिलन होगा ।

नगर एक नायक बिनु सूनो, नाहिंन काज सबै सन ।
सूर सुभाय भिटत क्यों कारे जिहि कुल रीति डसै सन ॥३०१॥

यहि डर बहुरि न गोकुल आए ।

सुन री सखी ! हमारी करनी समुझि मधुपुरी छाए ॥
अधरातिक तें उठि बालक सब मोहिं जगैहैं आय ।
बिनु पदत्रान बहुरि पठवैगी बनहिं चरावन गाय ॥
सूनो भवन आनि रोकैगी चोरत दधि नवनीत ।
पकरि जसोदा पै लै जैहैं, नाचति गावति गीत ॥
ग्वालिनि मोहिं बहुरि बाँधैगी केते बचन लगाय ।
एते दुःखन सुमिरि सूर मन, बहुरि सहै को जाय ॥३०२॥

तब तें बहुरि न कोऊ आयो ।

वहै जो एक बार ऊधो पै कछुक सोध सो पायो ॥
यहै विचार करै, सखि माधव इतो गहरु क्यों लायो ।
गोकुलनाथ कृपा करि कबहुँ लिखियौ नाहिं पठायो ॥
अवधि आस एती करि यह मन अब्र जैहै बौरायो ।
सूरदास प्रभु चातक बोल्यो, मेघन अंबर छायो ॥३०३॥

राग धनाश्री

मेरो मन मथुराइ रह्यो ।

गयो जो तन तें बहुरि न आयो, लै गोपाल गह्यो ॥
इन नयनन को भेद न पायो, केइ भेदिया कह्यो ।
राख्यो रूप चोरि चित्त-अंतर सोइ हरि सोध लह्यो^१ ॥

(१) सोध लह्यो=पता पा गए कि मेरी मूर्ति राधा के हृदय में है ।

आए बोलत ता विन ऊधो 'मनि दै लेहु मह्यो'^१ ।
 निर्गुन साँटि' गोविंदहि माँगत, क्यों दुख जात सद्यो ॥
 जेहि आधार आजु लौं यह तनु ऐसे ही निब्रह्यो ।
 सोइ छिंड़ाय' लेत सुनु सूरज, चाहत हृदय दह्यो ॥३०४॥



राग सारंग

लोग सब देत सुहाई^४ बातें ।

कहतहि सुगम करत नहिं आवैं, बोलि न आवत तातें ॥
 पहिले आगि सुनत चंदन सी सती बहुत उमहै ।
 समाचार ताते अरु सीरे पाछे कौन कहै ॥
 कहत सबै संग्राम सुगम अति कुसुमलता करवार^५ ।
 सूरदास सिर दिए सूरमा पाछे कौन विचार ? ॥३०५॥

राग गौरी

विछुरत श्री ब्रजराज आज सखि ! नैनन को परतीति गई ।
 उड़ि न मिले हरि-संग-विहंगम^६ है न गए घनस्याम-मई ॥
 यातें क्रूर कुटिल सह मेचक^७ वृथा मीन छवि छीनि लई ।
 रूप-रसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तौ न भई^८ ॥
 अब काहे सोचत जल मोचत, समय गए नित सूल नई ।
 सूरदास याही तें जड़ भए जब तें पलकन दगा दई ॥३०६॥

(१) मह्या=महो, मट्टा । (२) साँट=साँटे में, बदले में । (३) छिपाय लेत=छीन लेते हैं । (४) सुहाई=सुहावनी, प्रिय । (५) करवार =तलवार । (६) विहंगम=क्योंकि नेत्र की उपमा खंजन से देते हैं । (७) मेचक=कालापन लिए । (८) कछु...भई=जल से अलग होने पर मछली मर जाती है, पर आँखें बनी रहती हैं ।

राग धनाश्री

को कहै हरि सों बात हमारी ?

हम तौ यह तब तें जिय जान्यौ जबै भए मधुकर अधिकारी ॥
 एक प्रकृति, एकै कैतव^१-गति, तेहि गुन अस जिय भावै ।
 प्रगटत है नव कंज मनोहर, ब्रज किंसुक कारन कत आवै ॥
 कंजतीर चंपक-रस-चंचल^२, गति सब ही तें न्यारी ।
 ता अलि की संगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥३०७॥

हमारे स्याम चलन चहत हैं दूरि ।

(७)

मधुवन बसत आस ही^३ सजनी ! अब मरिहैं जो विसूरि ॥
 कौने कही, कहाँ सुनि आई ? केहि दिसि रथ की धरि ।
 संगहि सबै चलौ माधव के नातरु मरिबो मूरि ॥
 पच्छिम दिसि एक नगर द्वारका, सिंधु रह्यो जल पूरि ।
 सूर स्याम क्यों जीवहिं बाला, जात सजीवत मूरि ॥३०८॥

उती दूर तें को आवै हो ।

जाके हाथ सँदेस पठाऊँ सो कहि कान्ह कहाँ पावै हो ॥
 सिंधुकूल एक देस कहत हैं, देख्यो सुन्यो न मन धावै हो ।
 तहाँ रच्यो नव नगर नंदसुत पुरि द्वारका कहावै हो ॥
 कंचन के सब भवन मनोहर, राजा रंक न तृन छावै हो ।
 हाँ के सब वासी लोगन को ब्रज को बसिबो नहिं भावै हो ॥
 बहु विधि करति बिलाप विरहिनी बहुत उपाव न चित लावै हो ।
 कहा करौ कहँ जाऊँ सूर प्रभु, को मोहिं हरि पै पहुँचावै हो ॥३०९॥

(१) कैतव-गति=धोखे या छल की चाल । (२) रस-चंचल=कमल के पास रहकर भी चंपा के लिए चंचल होता है जो उसके काम का नहीं ।
 (३) ही = थी ।

राग सारंग

हमैं नंदनंदन को गारो ^१ ।

इंद्र कोप ब्रज बह्यो जात हो, गिरि धरि सकल उवारो ॥
 रामकृष्ण बल वदति न काहू, निडर चरावत चारो ।
 सगरे विगरे को सिर ऊपर बल को वीर^२ रखवारो ॥
 तव तें हम न भरोसो पायो केसि तृनाव्रत मारो ।
 सूरदास प्रभु रंगभूमि में हरि जीतो, नृप हारो ॥३१०॥

राग मलार

ऐसे माई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि माधवजू आवैरी ।
 वरन वरन अनेक जलधर अति मनोहर वेष ।
 यहि समय यह गगन-सोभा सवन तें सुविशेष ॥
 उड़त बक्र, सुक-वृंद राजत, रटत चातक मोर ।
 बहुत भाँति चित हित-रुचि^३ वादत दामिनी घनघोर^४ ॥
 धरनि-तनु तृनरोम हर्षित प्रिय समागम जानि ।
 और द्रुम बह्ली वियोगिनि मिलीं पति पहिचानि ॥
 हंस, पिक, सुक, सारिका अलिपुंज नाना नाद ।
 मुदित मंगल मेघ वरसत, गत विहंग-विषाद ॥
 कुटज, कुंद, कदंब, कोविद^५, कर्निकार^६, सु कंजु ।
 केतकी, करवीर^७, चिलक^८ वसंत-सम तरु मंजु ॥

(१) गारो=गौरव, गर्व । (२) वीर=भाई । (३) हित-रुचि=प्रेम का अभिलाष । (४) घोर=वादल की गरज । (५) कोविद=कोविदार, कचनार । (६) कर्निकार=कनियारी का पेड़ । (७) करवीर=कनेर । (८) चिलक = चमक ।

सघन तरु कलिका-अलंकृत, सुकृत सुमन सुवास ।
 निरखि नयनन्ह होत मन माधव-मिलन की आस ॥
 मनुज मृग पसु पच्छि परिमित' औ अमित जे नाम ।
 सुख स्वदेस विदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम ॥
 हूँ है न चित्त उपाय सोच न कछू परत विचार ।
 नाहिं ब्रजवासी बिसारत निकट नंदकुमार ॥
 सुमिरि दसा दयाल सुंदर ललित गति शृदु हास ।
 चारु लोल कपोल कुंडल डोल बलित-प्रकास ॥
 बेनु कर कल गीत गावत गोपसिसु बहु पास ।
 सुदिन कब यहि आँखि देखै बहुरि बाल-बिलास ॥
 बार बारहिं सुधि रहति अति बिरह व्याकुल होति ।
 वात-वेग' सो लगै जैसो दीन दीपक-ज्योति ॥
 सुनि बिलाप कृपाल सूरजदास प्रान प्रतीति ।
 दरस दै दुख दूरि करिहै, सहि न सकिहै प्रीति ॥३११॥

चलहु धौं लै आवहिं गोपालै ।

पायँ पकरि कै निहुरि बिनति कहि, गहि हलधर की वाँह बिसाल ॥
 बारक बहुरि आनि कै देखहिं नंद आपने बालै ॥
 गैयन गनत गोप-गोपी-सह सीखत बेनु रसालै ॥
 यद्यपि महाराज सुख-संपति कौन गनै मोतिन अरु लालै ।
 तदपि सूर आकरषि लियो मन उर घुँघचिन की मालै ॥३१२॥

बलैया लैहौं, हो बीर वादर !

तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतम गए निकट जल-सागर ॥
 पा लागौं द्वारका सिंधारौ बिरहिनि के दुखदागर ।
 ऐसो संग सूर के प्रभु को करुनाधाम उजागर ॥३१३॥

(१) परिमित=पर्यंत, तक । (२) वात-वेग=हवा का शौंका ।

राग सारंग

उपमा न्याय^१ कही अंगन की ।

गए मधुपुरी क्यों फिरि आवैं, सोभा कोटि अनंगन की ॥

मारमुकुट सिर सुरधनु की छवि दूरहिं तें दरसावै ।

जो कोउ करै कोटि कैसेहू नेकहु छुवन न पावै ॥

अलक-भ्रमर भ्रमि भ्रमत सदा बन बहु-बेलीरस चाखै ।

कमल-कोस-वासी कहियत पै वंस-वंस^२ अपना मन राखै ॥

कुंडल मकर, नयन नीरज से, नासा सुक कविकुल गावै ।

थिर^३ नर है, संकुचै निसि-बस है, पर्जर रहिकै वेनु सुनावै ॥

भ्रधनु प्राण-हरन-दसनावलि हीरक, अधर सुविंब ।

सहज कठिन, संगति बुधि-हर्ता, तहँ किन्हों अवलंब^४ ॥

भुजा प्रचंड महा-रिपु मारक अंस^५ सो क्यों ठहराय ।

तामैं सप्त-छिद्र-युत मुरली मनहर मंत्र पढ़ाय ॥३१४॥

(१) न्याय=ठीक, उचित । (२) वंस-वंस=वाँसों का कुल या समूह । (३) थिर न.....सुनावै=ऊपर की पंक्ति के साथ क्रमालंकार की रीति से पढ़िए [पंजर=(क) शरीर, (ख) पिंजरा । नाक से भी वाँसुरी बजा सकते हैं यह मानने से शुक के साथ संगति मिलती है] ।

(४) भ्रधनु.....अवलंब=इसमें क्रम का निर्वाह नहीं है ? हीरक के लिए 'सहज कठिन' और भ्रधनु का धर्म 'बुधिहर्ता' समझिए । (५) अंस=कंधा (गोपियों का ।) ।

● इसमें क्रम का निर्वाह ध्यान देने से लक्षित हो जाता है ! 'भ्रधनु' के लिए तो 'प्राण-हरन' विशेषण है । पर 'दसनावलि हीरक' और 'अधर सुविंब' के लिए 'सहज कठिन' और 'बुधिहर्ता' कहा गया है । 'त्रिचा' या 'बुंड़ी' बुद्धि-नाशक कही गई है—'सद्यः प्रज्ञाहरा बुंड़ी सद्यः प्रज्ञाकरी वचा' ।

राग मलार

बारक जाइयो मिलि साधौ ।

को जान कब छूटि जायगो स्वाँस, रहै जिय साधौ ॥
 पहुनेहु नंद बबा के आवहु, देखि लेहुँ पल आधौ ।
 मिलि ही में^१ विपरीत करी विधि, होत दरस को बाधौ ॥
 सो सुख सिव सनकादि न पावत जो सुख गोपिन लाधो^२ ।
 सूरदास राधा बिलपति है, हरि को रूप अगाधो ॥३१५॥

निसिदिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहति पावस ऋतु हम पै जब तें स्याम सिधारे ॥
 दृग अंजन लागत नहिं कबहुँ, उर-कपोल भए कारे ।
 कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी ! उर-बिच बहत पनारे ॥
 सूरदास प्रभु अंबु बढ्यो है, गोकुल लेहु उवारे ।
 कहँ लौं कहौं स्यामघन सुंदर विकल होत अति भारे ॥३१६॥

आछे कमल-कोस-रस लोभी द्वै अलि^३ सोच करे ।
 कनक बेलि औ नवदल के ढिग बसते उझकि^४ परे ॥
 कबहुँक पच्छ सकोचि मौन है अंबुप्रवाह करे ।
 कबहुँक कंपित चकित निपट है लोलुपता विसरे ॥
 विधु-मंडल^५ के बीच विराजत अमृत अंग भरे ।
 एतेउ जतन बचत नहिं तलफत बिनु मुख सुर उचरे ॥

(१) मिलि ही में = सब बातें जन जाने पर भी । (२) लाधो = लब्ध किया, पाया । (३) अलि = भौरे अर्थात् नेत्र की पुतलियाँ । (४) उझकि परे = उचटकर चले गए । (५) विधु-मंडल = चन्द्रमंडल अर्थात् मुख ।

कीर, कमठ, कोकिला उरग-कुल^१ देखत ध्यान धरे ।
आपुन क्यों न पधारौ सूर प्रभु, देखे कह विगरे ॥३१७॥

राग अडानो

सवन अवध^२, सुंदरी वधै जनि ।
मुक्तामाल, अनंग ! गंग नहिं, नवसत^३ साजे अर्थ-स्यामघन ॥
भाल तिलक उडुपति न होय यह, कबरि-अंथि अहिपति न सहस-फन ।
नहिं विभूति दधिसुत न भाल जड़ ! यह मृगमदचंदन-चर्चित तन ॥
न गजचर्म यह असित कंचुकी, देखि विचारि कहाँ नंदीगन ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस विनु वरवस काम करत हठ हम सन^४ ॥३१८॥

राग मलार

कोकिल ! हरि को बोल सुनाव ।
मधुवन तें उपटारि^५ स्याम कहँ या ब्रज लै कै आव ॥
जाचक सरनहि^६ देत सयाने तन, मन, धन, सब साज ।
सुजस विकात वचन के वदले, क्यों न विसाहत आज ॥
कीजै कछु उपकार परायो यहै सयानो काज ।
सूरदास प्रभु कहु या अवसर वन वन वसंत विराज ॥३१९॥

राग सारंग

कहाँ रह्यो, माई ! नंद को मोहन ।
वह मूरति जिय तें नहिं विसरति गयो सकल-जग-सोहन ॥

(१) उरग-कुल=सर्पसमूह अर्थात् केश । (२) अवध = अवध्य ।
(३) नवसत=सोलह शृंगार । (४) इसी भाव का संस्कृत श्लोक है । (५)
उपटारि=उचाटकर । (६) सरनहिं=शरण में आए याचक को ।

कान्ह बिना गोसुत को चारै, को ल्यावै भरि दोहन ?
 माखन खात संग ग्वालन के, और सखा सब गोहन^१ ॥
 ज्यों ज्यों सुरति करति हौं, सखि री ! त्यों त्यों अधिक मनमोहन ।
 सूरदास स्वामी के बिछुरे क्यों जीवहिं इन छोहन^२ ॥३२०॥

परम चतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार^३ ।
 रूप-लकुट^४ रोके रहतो, सखि ! अनुदिन नंदकुमार ॥
 अब ता बिनु डर-भवन भयो है सिव-रिपु^५ को संचार ।
 दुख आवत मन, हटक^६ न मानत, सूनो देखि अगार ॥
 असु^७ स-उसास^८ जात अंतर तें करत न सकुच विचार ।
 निसा निमेष-कपाट^९ लगे बिनु ससि सत सत सर मार ॥
 यह गति मेरी भई है हरि बिनु नाहिं कछू परिहार ।
 सूरदास प्रभु वेगि मिलहु तुम नागर नंदकुमार ॥३२१॥

राग मलार

ऐसो सुनियत है द्वै सावन ।

बहै बात फिरि फिरि सालति है स्याम कछो है आवन ॥
 तब तौ प्रीति करी, अब लागीं अपनो कीयो पावन ।
 यहि दुख सखी निकसि उत जैये जितै सुनै कोउ नावँ न ॥
 एकहि बेर तजी हम्ह, लागे मथुरा नेह बढ़ावन ।
 सूर सुरति कत होति हमारी, लागीं नीकी^{१०} भावन ॥३२२॥

(१) गोहन=साथ । (२) छोहन=क्षोभ से । (३) प्रतिहार=
 पहरेदार, द्वारपाल । (४) रूप-लकुट=अपने सुन्दर रूप की लाठी से ।
 (५) सिव-रिपु=काम । (६) हटक=निषेध, मना करना । (७)
 असु=प्राण (८) स-उसास=साँस के साथ । (९) निमेष कपाट=पलक
 रूपी किवाड़ । (१०) नीकी=अच्छी या सुन्दरी स्त्रियाँ ।

राग सारंग

कहा होत अब के पछताने ?

खेलत खात हँसत अँग-सँग रहि, हम न स्याम-गुन जाने ॥
को वसुदेव, कौन की थाती, को है साखि जवहिं उन आने १।
सो बतराय देहु, ऊधो ! हमैं तूमहूँ तौ अति निपट सयाने ॥
यह नहिं कथा काक कोकिल की, कपट रंग मन माहिं समाने ॥
सुर, समय ऋतुराज बिराजे मिले जाय निज कुल पहिचाने ॥३२३॥

विनु माधव राधा-तन, सजनी ! सब विपरीत भई ।
गई छपाय छपाकर की छवि, रहि कलंकमई ॥
लोचनहू तें सरद-सारसै सुछवि निचोय लई ।
आँच लगे च्योनो १ सोनो ज्यों त्यों तन-धातु हई ॥
कदली-दल सी पीठि मनोहर, सो जनु उलटि गई ४ ।
संपति सब हरि हरी, सूर प्रभु, विपदा दर्ई दर्ई ॥३२४॥

कराव रे, सारंग ५ ! स्यामहिं सुरति कराव ।
प्रौढ़े होहिं जहाँ नँदनंदन ऊँची टेर सुनाव ॥
गयो प्रीषम, पावस ऋतु आई, सब काहू चित चाव ।
उन विनु ब्रजवासी यों सोहत ज्यों करिया १ विनु नाव ॥
तेरो कहो मानिहैं मोहन, पाँय लागि छै आव ।
अब की वेर सूर के प्रभु को नैनन आनि दिखाव ॥३२५॥

(१) को है साखि..आने=कौन गवाह या जब वसुदेव अपना पुत्र नंद के यहाँ रख गए थे । (२) च्योनो=रसायनी की धरिया । (३) हई=मारी गई, भ्रम हुई । (४) पीठि..उलटि गई=केले के पत्ते को उलटकर रख देने से बीच की रीढ़ उभरी दिखाई देती है (कृशता) ।
(५) सारंग=पपीहा । (६) करिया=मल्लाह ।

सखी री ! हरि आवैं केहि हेत ?
 वै राजा तुम ग्वाल, बुलावत यहै परेखो लेत ॥
 अब सिर छत्र कनक-मनि राजै, मोरचंद^१ नहिं भावत ।
 सुनि ब्रजराज पीठि दै बैठत, जदुकुल-विरद बुलावत ॥
 द्वारपाल प्रति पौरि विराजत, दासी सहस अपार ।
 गोकुल गाय-दुहन-दुख कब लौं, सूर, सहै सुकुमार ॥३२६॥

राग टोड़ी

“ परम सुखद सिसुता को नेहु ।

सो जनि तजहु दूर के बासे, सुनहु, सुजान ! जानि गति येहु^३ ॥
 भँवर, भुजंग, काक अरु कोकिल जनि पतियाहु चितै तुम देहु ।
 ऊधो अरु अक्रूर क्ररकृत उपवन कुटिल किए रचि गेहु ॥
 ये द्वै बिनती लिखी कृपानिधि सो आदर करि लेहु ।
 सूरदास प्रभु क्यों न मिलहु अब तौ तन मन फागुन के मेहु^३ ॥३२७॥

राग सारंग

①

बिनु धर^४ वह उपराग^५ गह्यो । ^{ग्रहण}
 ना जानौ यह राहु उमापति कित है सोध लह्यो ॥
 ताके बीच नीच नयनन में अंजन-रूप^६ रह्यो ।
 विरह-सिंधु-बल पाय प्रगट भयो नाहिन परत कह्यो ॥

(१) मोरचंद=मोर की चन्द्रिका । (२) येहु=यह (३) फागुन के मेहु=न रहनेवाले अथवा बिना जल या जीवन के । (४) धर=घड़, शरीर (राहु बिना घड़ का है, और काम भी अनंग है अतः काम में चन्द्रमुख असनेवाले राहु का भ्रम सा होता है) । (५) उपराग =ग्रहण, राहु । (६) अंजनरूप=राहु का रंग काला माना गया है । अतः वह भानों अंजन बनकर घात में छिपा हुआ था ।

दुसह दसन-दुख दाल ननन जल परस' न परत सहा ।
मानहुँ खवत सुधा अंतर तें, उर पर जात बह्यो ॥
अब मुखससि एसो लागत ज्यों बिन माखनहि मद्यो ।
सूर दरस-हरिदान दिए विनु' सुख-प्रकास निवह्यो^३ ॥३२८॥

गोपालहि बालक ही तें देव ।

जानति नाहिं कौन पै सीखे चोरी के छल-छेव ॥
माखन-दूध धर्यो जब खाते सहि रहती करि कानि ।
अब क्यों सही परति, सुनि सजनी ! मनमानिक की हानि ॥
कहियो, मधुप, ! सँदेस स्याम सों राजनीति समुभाय ।
अजहूँ तजत नाहिं वा लोभै, जुगुत^४ नहीं जदुराय ॥
बुधि विवेक सरवस या ब्रज कोलै जो रहे मुसकाय ।
सूरदास प्रभु के गुन अवगुन कहिए कासों जाय ॥३२९॥

जदपि मैं बहुतै जतन करे ।

तदपि-मधुप ! हरि-प्रिया जानि कै काहु न प्रान हरे ॥
सौरभ-युत सुमनन लै निज कर संतत सेज धरे ।
सर्नमुख होति सरद-ससि, सजनी ! तऊ न अंग जरे^५ ॥
चातक मोर कोकिला मधुकर सुर सुनि सवन भरे ।
सादर हूँ निरखति रतिपति को नैक न पलक परे ॥
निसिदिन रटति नंदनंदन, या उर तें छिन न टरे ।
अति आतुर चतुरंग चमू सजि अनंग न सर सँचरे^६ ॥

(१.) परस=स्पर्श । (२.) दरस....विनु=दान पुण्य से चन्द्रमा का छुटकारा होता है । (३.) निवह्यो=नष्ट हो गया है । (४.) जुगुत=युक्त, ठीक, उचित । (५.) इसी प्रकार की उक्ति भवभूति की है, 'मालती-भाषव' में । (६.) सँचरे=चलाए ।

जानति नाहिं कौन गुन या तन जातें सबै डरे ।

सूरदास सकुचन श्रीपति के सुभटन बल बिसरे ॥३३०॥

राग धनाश्री

माधव सों न बनै मुख मोरे ।

जिन्ह नयनन्ह ससि स्याम बिलोक्यो ते क्यो जात तरनि^१ सों जोरे ?

मुनि-मन-रमन ये जोग, कमठ तन मंदर-भार सहै क्यो^२, ओ रे !

तरुनी-हृदय-कुमुद के बंधन कुंजर क्यो न रहत बिनु तोरे ॥

नीलांबर-घनस्याम नीलमनि पैयत है क्यो धूम के भोरे^३ ।

सूर भृंग कमलन के बिरही चंपक मन लागत कहुँ थोरे ॥३३१॥

राग जैतश्री

और सकल अंगुन तें, ऊधो ! अँखियाँ अधिक दुखारी ।

अतिहि पिराति, सिराति न कवहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥

एकटक रहति, निमेष न लावति, विथा बिकल भइ भारी ।

भरि गइ बिरह-बाय बिनु दरसन, चितवति रहति उधारी ॥

रे रे अलि ! गुरु^४ ज्ञान-सलाकहि क्यो सहि सकति तुम्हारी ।

सूर सुअंजन आनु रूप-रस आरति रहन हमारी ॥३३२॥

राग कान्हरो

भूलति हौ कत मीठी वातन ।

ये अलि हैं उनहीं के सँगी, चंचल चित्त, साँवरे गातन ॥

वै मुरली धुनि कै जग मोहत, इनकी गुंज सुमन-मन-पातन^५ ।

वै उठि आन आन मन रजत, ये उड़ि अनत रंग-रस-रातन ॥

(१) तरनि=सूर्य । (२) क्यो=कैसे । (३) भोरे=बोखे में, बोखा खाकर (४) गुरु=भारी । (५) मन-पातन=फूलों का मन ढालने अर्थात् आकर्षित करनेवाले ।

वै नवतनु मानिनि-गृह-बासी, ये निसिदिवस रहत जलजातन ।
 ये षटपद, वै द्विपद चतुर्भुज, इनमें नाहिं भेद कोउ भाँतन ॥
 स्वारथ-निपुन सर्वरस-भोगी जनि पतियाहु विरह-दुख-दातन^१ ।
 वै माधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोउन कोऊ घटि घाट^२ न ॥३३३॥

राग सारंग

हरि सों कहियो, हो, जैसे गोकुल आवैं ।
 दिन दस रहे सो भली कीन्ही, अब जनि गहरु^३ लगावैं ॥
 नाहिंन कछू सुहात तुमहिं विनु, कानन भवन न भावैं ।
 देखे जात आपनी आँखिन्ह हम कहि कहा जनावैं ?
 बाल बिलख, मुख गड न चरति तृन, बछरा पीवत पय नहिं धावैं ।
 सूर स्याम विनु रटति रैनिदिन, मिलेहि भले सचु^४ पावैं ॥३३४॥

राग सारंग

सखी री ! मथुरा में द्वै हंस । ^{लंशपोंको}
 एक अक्रूर और ये ऊधो, जानत नीके गंस^५ ।
 ये दोउ छीर नीर पहिचानत, इनहिं बधायो कंस ।
 इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर वंस ॥
 उजहूँ कृपा करौ मधुवन पर जानि आपनो अस ।
 सूर सुयोग सिखावत अबलन्ह, सुनत होय मनभ्रंस^६ ॥३३५॥

राग सारंग

वारक कान्ह करौ किन फेरो ?
 दरसन दै मधुवन को सिधारो, सुख इतनो बहुतेरो ॥

(१) दुख-दातन=दुःख देनेवाला । (२) घटि घाट=घटकर ।
 (३) गहरु=देर । (४) सचु=सुख । (५) गंस=मन की गाँठ,
 कुटिलता । (६) मनभ्रंस=चिच-विक्षेप, व्याकुलता ।

भलेहि मिले वसुदेव देवकी जननि जनक निज कुटुंब घनेरो ।
 केहि अवलंब रहै हम ऊधो ! देखि दुःख नँद-जसुमति केरो ॥
 तुम बिनु को अनाथ-प्रतिपालन, जाजरि^१ नाव कुमंग सबेरो^२ ।
 गए^३ सिंधु को पार उतारै, अब यह सूर थक्यो ब्रज-बेरो^४ ॥३३६॥

मानौ ढरे एक ही साँचे ।

नखसिख कमल-नयम की सोभा एक भृगुलता-बाँचे^५ ॥
 दारुजात^६ कैसे गुन इनमें, ऊपर अंतर स्याम ।
 हमको धूम गयंद^७ बतावत, बचन कहत निष्काम ॥८
 ये सब असित देह धरे जेते ऐसेई, सखि ! जानि ।
 सूर एक तें एक आगरे वा मथुरा की खानि ॥३३७॥

राग सोरठ

बात कहत सयाने की सी ।

कपट तिहारो प्रगट देखियत ज्यों जल नाए सीसी ॥
 हौं तो कहत तिहारे हित की काहे को तू भरमत ।
 हमहूँ मया तिहारी हैं कछु, थोरी सी है मैमत^९ ॥
 छाय बसाय गए सुफलकसुत नेकहु लागी बार न ।
 सूर कृपा करि आए ऊधो तापै देवा^{१०} डारन ॥३३८॥

(१) जाजरि=जर्जर, जीर्ण । (१) सबेरो=सब । (३) गए=
 कृष्ण के चले जाने पर । (४) बेरो=बेड़ा । (५) भृगुलता-बाँचे=भृगु
 की लात का चिन्ह छोड़कर (६) दारुजात=भौरा । (७) धूम-गयंद=
 धूँ का हाथी, घोखे की वस्तु अर्थात् निर्गुण ब्रह्म । (८) मैमत=
 ममता, स्नेह । (९) देवा=खेप; गीली मिट्टी का ढेर जो दीवार उठाने
 के लिए डाला जाता है ।

राम सारंग

आए नंदनंदन के नेव^१ ।

गोकुल आय जोग विस्तार्यो, भली तुम्हारी टेव ॥

जब वृंदावन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तू हेव^२ ।

अब जुवतिन को जोग सिखावत, भस्म अधारी सेव ॥

हम लागि तुम क्यों यह मत ठान्यो ज्यों जोगिन को भोग^३ ।

सूरदास प्रभु सुनत अधिक दुख, आतुर विरह-वियोग ॥३३६॥

मनौ दोउ एकहि मते भए । ३

ऊधो अरु अकर अधिक दोउ ब्रजु आखेट ठए^४ ॥

वचन-पास बाँधे माधव-भृग, उनरत^५ वालि लए ।

इनहीं हती मृगी-गोपीजन सायक-ज्ञान हए ॥

विरह-ताप की दवा देखियत चहूँ दिसि लाय दए ।

अब धौं कहा कियो चाहत है सोचत, नाहिं ए ॥
परमार्थी ज्ञान^६ उपदेशत विरहित प्रेम-रए^७ ।

कैसे जियहि स्याम विनु सूरज चुंवक मेघ गए ॥३४०॥

या ब्रज सगुन-दीप^८ परगास्यो ।

सुनि ऊधो ! भृकुटी त्रिवेदी^९-तर निसिदिन प्रगट अभास्यो ॥

सब के उर-सरवनि^{१०} सनेह भरि सुमन तिली को वास्यो ।

(१) नेव = नायब, मंत्री । (२) हेव = ह्यो, तू था । (३)

जोगिन को भोग = जैसे योगियों के लिए भोग वैसे ही हमारे लिए योग ।

(४) ठए = ठाना । (५) उनरत = उठलते हुए । (६) परमार्थी

ज्ञान = पारमार्थिक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान । (७) रए = रँगे । (८) सगुन-

दीप = सगुण ज्योति को जगानेवाला दीपक । (९) त्रिवेदी = त्रिपाई, चौकी

(१०) उर-सरवनि = हृदय रूपी शराव या पात्र ।

गुनं अनेक ते गुन^१ कपूर सम परिमल बारह मास्यो ॥
 बिरह-अग्नि अंगन सब के, नहिं बुझत परे चौमास्यो^२ ।
 ताके तीन फुँकैया^३ हरि से, तुम से, पंचसरा^४ स्यो ॥
 आन-भजन तृन सम परिहरि सब करतीं जोति-उपास्यो ।
 साधन भोग निरंजन तें रे अंधकार तम नास्यो ॥
 जा दिन भयो तिहारो आवन बोलत हौ उपहास्यो ।
 रहि न सके तुम, सीक रूप ह्वै निर्गुन-काज उकास्यो^५ ॥
 बाढी जोति सो केस-देस^६ लौं, टट्यो ज्ञान-मवास्यो^७ ।
 दुरवासना-सलभ सब जारे जे छै रहे अकास्यो ॥
 तुम तौ निपट निकट के बासी, सुनियत हुते खवास्यो^८ ।
 गोकुल कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो ॥
 सूर, करम की खीर परोसी, फिरि फिरि चरत जवास्यो ॥३४१॥

सब जल तजे प्रेम के नाते ।

तऊ स्वाति चातक नहिं छाँड़त प्रकट पुकारत ताते ॥
 समुझत मीन नीर की बातें तऊ प्रान हठि हारत ।
 सुनत कुरंग नादरस पूरन, जदपि व्याध सर मारत ॥
 निमिष चकोर नयन नहिं लावत, ससि जोवत जुग बीते ।
 कोटि पतंग जोति बपु जारे, भए न प्रेम-घट रीते^९ ॥
 अब लौं नहिं विसरीं वे बातें सँग जो करीं ब्रजराज ।
 सुनि ऊधो ! हम सूर स्याम को छाँड़ि देहिं केहि काज ? ॥३४२॥

(१) गुन=तागा, बत्ती । (२) चौमास्यो=चौमासे या वर्षा में भी ।
 (३) फुँकैया=फूँककर आग दहकानेवाले । (४) पंचसरा=पंचशर,
 कामदेव । (५) उकास्यो=उकसाया, बत्ती खसकाई । (६) केस-देस=
 ब्रह्मांड । मस्तक । (७) मवास्यो=मवास, गढ़, किला । (८)
 खवास्यो=खवास भी, मंत्रि भी (९) रीते=खाली ।

ऊधो ! मन की मन ही माँझ रही ।

कहिए जाय कौन सों, ऊधो ! नाहिंन परति सही ॥
 अवधि अधार आवनहि की तन, मन ही विथा सही ।
 चाहति हुती गुहार^१ जहाँ तें तहँहि तें धार वही ॥
 अब यह दसा देखि^२ निज नयनन सब मरजाद ढही ।
 सूरदास प्रभु के विछुरे तें दुसह वियोग-दही ॥३४३॥

राग झलार

स्याम को यहै परेखो आवै^३ ।

कत वह प्रीति चरन जावक कृत,^४ अब कुञ्जा मन भावै ॥
 तव कत पानि घञ्यो गोवर्धन, कत ब्रजपतिहि छुड़ावै ?
 कत वह वेनु अधर मोहन धरि लै लै नाम बुलावै ?
 तव कत लाड़ लड़ाय लड़ैते हँसि हँसि कंठ लगावै ?
 अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखावै ॥
 जा मुख-संग समीप रैन-दिन सोई अब जोग सिखावै ।
 जिन मुख दए अमृत रसना भरि सो कैसे विष प्यावै ?
 कर मोड़ति पछताति हियो भरि, क्रम क्रम मन समुझावै ।
 सूरदास, यहि भाँति वियोगिनि तातें अति दुख पावै ॥३४४॥

सखी री ! मो मन घोखे जात ।

ऊधो कहत, रहत हरि मधुपुरि, गत आगत^५ न थकाता ॥

(१) गुहार=रक्षा के लिए दौड़ । (२) देखि=देख तू । (३) यहै परेखो आवै=यही बात मन में सोचती हूँ । (४) कृत=किया, बनाया । (५) गत आगत=आते जाते ।

इत देखौँ तौ आगे मधुकर मत्त-न्याय सतरात^१ ।
 फिरि चाहौँ^२ तौ प्राननाथ उत सुनत कथा मुसकात ॥
 हरि साँचे ज्ञानी सब मूठे जे निर्गुन-जस गात^३ ।
 सूरदास जेहि सब जग डहक्यो^४ ते इनको डहकात ॥३४५॥

राग गौरी

ब्रज तें द्वै ऋतु पै न गई ।

पावस अरु ग्रीषम प्रचंड, सखि ! हरि बिनु अधिक भई ॥
 ऊरध स्वास समीर, नयन घन, सब जलजोग जुरे ।
 वरषि जो प्रगट किए दुख-दादुर हुते जे दूरि दुरे^५ ॥
 बिषम बियोग दुसह दिनकर सम दिनप्रति उदय करे ।
 हरि बिधु बिमुख भए कहि सूरज को तनताप हरे ॥३४६॥

तुमहिं मधुप ! गोपाल-दुहाई ।

कबहुँक स्याम करत ह्याँको मन, किधौँ निपट चित सुधि बिसराई ?
 हम अहीरि मतिहीन बापुरी हटकत^६ हू हठि करहिं मिताई ।
 वै नागर मथुरा निरमोही, अँग अँग भरे कपट चतुराई ॥
 साँची कहहु देहु स्रवनन सुख, छाँड़हु जिया कुटिल धूताई^७ ।
 सूरदास प्रभु विरद-लाज धरि मेटहु ह्याँकी नेकु हँसाई ॥३४७॥

राग सोरठ

बिरही कहँ लौँ आपु सँभारै ?

जब तें गंग परी हरिपद तें बहिबो नाहिं निवारै ॥

(१) मत्तन्याय सतरात=पागल की तरह बड़बड़ाता है । (२) फिरि चाहौँ=फिरकर जो मथुरा की ओर देखती हूँ (मन बराबर मथुरा आता जाता है) । (३) जस गात=यश गाते हैं । (४) डहक्यो=ठगा, धोखे में डाला माया द्वारा । (५) दुरे हुते=छिपे थे । (६) हटकत हू=मना करते हुए भा । (७) धूताई=धूर्तता ।

नयनन तें रवि विछुरि भँवत रहै, ससि अजहूँ तन गारै^१ ।
 नाभि तें विछुरे कमल कंट^२ भए, सिंधु भए जरि छारै ॥ २४८ ॥
 वैन तें विछुरी वानि अविधि भई विधि ही^३, कौन निवारै ।
 सूरदास सब अँग तें विछुरी केहि त्रिद्या उपचारै ॥३४८॥

राग नट

हे गोपाल गोकुल के वासी । ०

ऐसी बातै सुनि सुनि ऊधो ! लोग करत हैं हाँसी ।
 मथि मथि सिंधु-सुधा सुर पोषे^४, संभु भए विष-आसी ॥
 इमि हति कंस, राज दै औरनि, आपु चाहि लई दासी ।
 विसरयो सूर विरह-दुख अपनो सुनत चाल औरासी^५ ॥३४९॥

राग सारंग

वदले को वदलो लै जाहु ।

उनकी एक हमारी द्वै^६, तुम सबै जनैया आहु ॥
 तुम तौ हमें जानि कै भोरो, सोई सारो दाव^७ ।
 हमरी वेर मुकरि^८ कै भागत, हिये चौगुनो चाव ॥

(१) तन गारै=शरीर क्षीण करता रहता है अर्थात् घटता बढ़ता है । (२) कंट=कंटक (कमलनाल में महीन महीन काँटे से होते हैं)
 (३) अविधि भई विधि ही=ब्रह्मा की पुत्री होकर विधि के विरुद्ध उनकी स्त्री हुई । (४) मथि मथि...पोषे=इतने श्रम से समुद्र-मथन कराया पर उसमें से निकला हुआ अमृत न लिया, देवताओं को दे दिया और आप स्त्री (लक्ष्मी) पर दूटे । (५) औरासी=वेदंगी, विचित्र । (६) उनकी एक...द्वै = उन्होंने एक अनुचित बात कही हमने बहुत सी खरी खोटी सुनाई । (७) सारो दाव = चाल चलते हो । (८) मुकरि कै=नटकर, इनकार करके ।

अब तुम सखा वेगि ही जैयो, मेटहु उनको दाहु ।
सूरदास व्योहार भए तें हम तुम दोऊ साहु ॥३५०॥

राग परज

ऊधों ! सूधे नेकु निहारो ।

हम अबलनि को सिखवन आए, सुन्यो सयान^१ तिहारो ॥
निर्गुन कह्यो ; कहा कहियत^२ है ! तुम निर्गुन अति भारी ।
सेवत सगुन स्यामसुंदर को लई मुक्ति हम चारो ॥
हमै सालोक, सरूप, सयुज्यौ रहत समीप सदाई ।
सो तजि कहत और की औरै, तुम अलि ! बड़े अताई^३ ॥
हम मूरख तुम बड़े चतुर हौ, बहुत कहा कहिए ।
वे^४ हो काज सदा भटकत हौ, अब मारग गहिए ॥
अहो अज्ञान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञानरूप हम ही^५ ।
निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित तितहीं ॥३५१॥

राग धनाश्री

जा जा रे भौरा ! दूर दूर ।

रंग रूप औ एकहि मूरति, मेरो मन कियो चूर चूर ॥
जौ लौं गरज निकट तौ लौं रहै, काज सरे पै रहै धूर^६ ।
सूर स्याम अपनी गरजन कों कलियन रस लै^७ धूर धूर^८ ॥३५२॥

(१) सयान=सयानापन, चतुराई । (२) कहा कहियत है=क्या कहना है । (३) अताई=उपद्रवी, दुष्ट । (४) वे=बिना । (५) ज्ञानरूप हम हीं=हम जो स्वयं ज्ञान-स्वरूप हैं (जैसे, ज्ञान की चरमावस्था में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता, वैसे ही प्रेम या भक्ति की चरमावस्था में उपास्य और उपासक का भेद मिट जाता है । गोपियों का अभिप्राय यह है कि हम तो स्वयं कृष्णमय हो रही हैं) । (६) धूर=धुर, ऊपर, ऊँचे । (७) लै=लेय, लेता है । (८) धूर धूर=धूम धूमकर ।

राग नट

ऊधो ! धनि तुम्हरो व्यवहार ।

धनि वै ठाकुर, धनि वै सेवक, धनि तुम बर्तनहार ॥

आम को काटि बवूर लगावत, चंदन को कुरवार^१ ।

सूर श्याम कैसे निबडैगी अंधधुंध सरकार ॥३५३॥

जाहु जाहु ऊधो ! जाने हौ पहचाने हौ ।

जैसे हरि तैसे तुम सेवक, कपट-चतुरई-साने हौ ॥

निर्गुन-ज्ञान कहाँ तुम पायो, केहि सिखए ब्रज आने हौ ।

यह उपदेस देहु लै कुवजहि जाके रूप लुभाने हौ ॥

कहँ लागि कहाँ योग की बातें, बाँचत नैन पिराने हो ।

सूरदास प्रभु हम हैं खोटी तुम तो वारह वाने^२ हौ ॥३५४॥

राग सारंग

मधुवन सब कृतज्ञ धर्मीले ।

अति उदार परहित डोलत हैं, बोलत वचन सुसीले ॥

प्रथम आय गोकुल-सुफलकमुत लै मधुपुरिहि सिधारे ।

वहाँ कंस ह्याँ हम दीनन को दूनो काज सँवारे ॥

हरि को सिखै सिखावन हमको अब ऊधो पग धारे ।

ह्याँ दासी-रति की कीरति कै, यहाँ जोग बिस्तारे ॥

अब या विरह-समुद्र सबै हम बूड़ी चहति नही^३ ।

लीला सगुन नाव ही, सुनु अलि, तेहि अवलंब रही ॥

अब, निर्गुनहि गहे जुवतीजन पारहि कहौ गई को ।

सूर अक्रूर छपद के मन में नाहिंन त्रास दई को ॥३५५॥

(१) कुरवार=कुरवारि, खोदकर । (२) वारह वाने=वारह बानी के अर्थात् चोखे, खरे (सोने) । (३) नही=नधी हुई, जुती हुई ।

ऊधो ! भूलि भले भटके ।

कहत कही कछु बात लड़ैते तुम ताही अटके ॥
देख्यो सकल सयान^१ तिहारो, लिन्हे छरि फटके^२ ।
तुमहिं दियो बहराय इतै कों, वैकुबजा सों अटके ॥
लीजो जोग सँभारि आपनो जाहु तहाँ टटके ।
सूर स्याम तजि कोउ न लैहे या जोगहि कटुके^३ ॥३५६॥

राग धनाश्री

जोग सँदेसो ब्रज में लावत ।

थाके चरन तिहारै, ऊधो ! बार बार के धावत ॥
सुनिहै कथा कौन निर्गुन की, रचि पचि^४ बात बनावत ।
सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत, तुम वृन की ओट^५ दुरावत ॥
हम जानत परपंच स्याम के, बातन हीं बहरावत ।
देखी सुनी न अब लौं कबहूँ, जल मथे भाखन आवत ॥
जोगी जोग-अपार सिंधु में ढूँढ़े हू नहिं पावत ।
ह्याँ हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बँधावत ॥
चुप करि रहौ, ज्ञान ढँकि राखौ; कत हौ बिरह बढ़ावत ।
नंदकुमार कमलदल-लोचन कहि को जाहि न भावत ?
काहे को विपरीत बात कहि सब के प्रान गँवावत ?
सो है सो कित सूर अबलनि जेहि निगम नेति कहि गावत ? ॥३५७॥

(१) सयान = सयानापन, चतुराई । (२) छरि फटके = झाड़ फटककर, खूब जाँचकर । (३) कटुके = कटु जोग को । (४) पचि = हैरान होकर । (५) सगुन-सुमेरु.....ओट = भगवान् के सगुण स्वरूप ऐसे बड़े और प्रत्यक्ष पदार्थ को अत्यन्त सूक्ष्म निर्गुण ब्रह्म की ओट में छिपाया चाहते हो ।

राग सारंग

कहा भयो हरि मथुरा गए ।

अव, अलि ! हरि कैसे सुख पावत तन द्वै भाँति भए^१ ॥
 यहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, ह्वँ अति नेह नए ।
 ह्वँ सुनियत नृप-वेष, यहाँ दिन^२ देखियत विनु लए ॥
 कहा हाथ पर्यो सठ अक्रूरहिं वह ठग ठाट ठए ।
 अव क्यों कान्ह रहत गोकुल विनु जोगन के सिखए ॥
 राजा राज करौ अपने घर माथे छत्र दए ।
 चिरंजीव रहौ, सूर नंदसुत, जीजत मुख चितए ॥३५॥

राग विलावल

तुम्हारी प्रीति, ऊधो ! पूरव जनम की अव तो भए मेरे तनहु के गरजी ।
 वहुत दिनन तें विरमि रहे हौ, संग तें विछोहि हमहिं गए वरजी ॥
 जा दिन तें तुम प्रीति करी^३ ही घटति न, बढ़ति तूल^४ लेहु नरजी^५ ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु तन भयो व्योंत, विरह भयो दरजी ३५६

राग मलार

गोपालहि लै आवहू मनाय ।

अवकी वेर कैसेहु करि, ऊधो ! करि छल वल गहि पाय ॥
 दीजौ उनहिं सुसारि उरहनो संधि संधि समुभाय ।
 जिनहिं छाँड़ि बढ़िया^६ महुँ आएते विकल भए जटुराय ॥
 तुम सौं कहा कहाँ, हो मधुकर ! वातें बहुत बनाय ।
 वहियाँ पकरि सूर के प्रभु की, नंद की सौँह दिवाय ॥३६०॥

(१) द्वै-भाँति भए=दो रूपों का एक साथ निर्वाह करना पड़ता है । (२) दिन=प्रतिदिन, सदा । (३) करी ही=की थी । (४) तूल=लंबाई । (५) नरजि लेहु=नाप लो । (६) बढ़िया=वाढ़, विरह-प्रवाह की ।

राग सौरभ

कै तुम सों छूटै लरि, ऊधो, कै रहिए गहि मौन ।
 एक हम जरै जरे पर जारत, बोलहु कुबची^१ कौन ?
 एक अंग मिले दोऊ कारे, काको मन्न पतियाए ?
 तुम सी होय सो तुम सों बोलै, लीने जोगहि आए ॥
 जा काहू कों जोग चाहिए सो लै भस्म लगावै ।
 जिन्ह उर ध्यान नंदनंदन को तिन्ह क्यों निर्गुन भावै ?
 कहौ सँदेस सुर के प्रभु को, यह निर्गुन अधियारो ।
 अपनो वीयो आप लूनिए, तुम आपुहि निरवारो^२ ॥३६१॥

राग सारंग

ऐसो, माई^३ ! एक कोद^४ को हेतु ।

जैसे बसन कुसुंभ-रंग मिलि कै नेकु चटक पुनि सेत ॥
 जैसे करनि किसान बापुरो नौ नौ बाहँ देत^५ ।
 एतेहू पै नीर निठुर भयो उमगि आय सब लेत ॥
 सब गोपी भाखै ऊधो सों, सुनियो बात सचेत ।
 सूरदास प्रभु जन तें बिल्लुरे ज्यों कृत राई रेत^६ ॥३६२॥

(१) कुबची=बुरी बात कहनेवाला । (२) निरवारो=सुलझाओ
 (अपने निर्गुण की उलझन को) । (३) माई=सखी के लिए संबोधन ।
 (४) कोद=ओर, तरफ (५) बाहँ देत=कई बाहँ जोतता है । (६) ज्यों
 कृत राई रेत=जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई हो (रेत में निखरी
 राई इकट्ठा करना असंभव होता है) । इसी प्रकार भजनान्त में नि
 को देखे प्रताप का सवते हो ।

राग मलार

मधुकर, मन सुनि जोग डरै ।

तुमहू चतुर कहावत अति ही इतो न समुक्ति परै ॥
 और सुमन जो अनेक सुगंधित, सीतल रुचि सो करै ।
 क्यों तू कोकनद वनहिं सरै^१ औ और सबै अनरै^२ ?
 दिनकर महाप्रतापपुंज-वर, सबको तेज हरै ।
 क्यों न चकोर छाँड़ि मृग-अंकहि^३ वाको ध्यान करै ?
 उलटोइ ज्ञान सबै उपदेसत, सुनि सुनि जीय जरै ।
 जंवृ-वृक्ष कहौ क्यों, लंपट ! फलवर अंब फरै ॥
 मुक्ता अवधि मराल प्रान है जौ लगि ताहि चरै ।
 निघटत निपट. सूर, ज्यों जल विनु व्याकुल मीन मरै ॥३६३॥

विरचि^४ मन वहुरि राच्यो^५ आय ।

दूटी जरै बहुत जतनन करि तऊ दोष नहिं जाय ॥
 कपट हेतु की प्रीति निरंतर नोइ^६ चोखाई^७ गाय ।
 दूध फटे जैसे भइ काँजी, कौन स्वाद करि खाय ?
 केरा पास ज्यों वेर निरंतर हात्त दुख दै जाय^८ ।
 स्वाति-बूँद ज्यों परे फनिक-मुख परत विषै ह्वै जाय ॥
 ऐसी केती तुम जौ उनकी कहौ वनाय वनाय ।
 सूरजदास दिगंबर-पुर में कहा रजक-व्यौसाय ॥३६४॥

(१) सरै = जाता है । (२) अनरै = अनादर करता है । (३) मृग-अंक = चन्द्रमा । (४) विरचि = विरक्त होकर, उचटकर । (५) राच्यो = अनुरक्त हुआ । (६) नोइ = पैर रस्सी से बाँधकर । (७) चोखाई = दुई या दूध गारी जाती हुई । (८) केरा...जाय = वेर के पास के केलों के पत्ते हिलने पर काँटों से छिद जाते हैं ।

Handwritten mark

राग नट

कहत कत परदेसी की बात ?

मंदिर-अरध-अवधि^१ वदि हम सों, हरि-अहार^२ चलि जात ॥
 ससि-रिपु^३ वरष, सूर-रिपु^४ युग वर, हर-रिपु^५ किए फिरै घात ।
 मघ-पंचक^६ लै गए स्यामघन, आय बनी यह बात ॥
 नखत, वेद^७, ग्रह^८ जोरि अर्ध करि^९ को वरजै हम खात ॥
 सूरदास प्रभु तुमहि मिलन कों कर मीड़ति पछितात ॥३६५॥

राग धनाश्री

ऊधो ! मन माने की बात ।

दाख छुहारा छाँड़ि अमृत-फल विष-कीरा विष खात ।
 जौ चकोर को दै कपूर कोउ तजि अंगार अघात ?
 मधुप करत घर कोरि^६ काठ में बँधत कमल के पात ॥
 ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात ।
 सूरदास जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥३६६॥



राग विलावल

कर-कंकन तें भुज-टाँड़^३ भई ।

मधुवन चलत स्याम मनमोहन आवन-अवधि जो निकट दई ॥

(१) मंदिर-अरध-अवधि = मंदिर, घर, उसका आधा भाग पाख अर्थात् एक पाख या पक्ष की अवधि । (२) हरि-अहार = मांस, महीना । (३) ससि-रिपु = दिन अर्थात् दिन एक वर्ष के समान बीतता है । (४) सूर-रिपु = रात । (५) हर-रिपु = कामदेव । (६) मघ-पंचक = मघा से लेकर पाँचवाँ नक्षत्र चित्रा अर्थात् चित्त । (७) नखत वेद..... करि = नक्षत्र २७, वेद ४, ग्रह ९ जोड़ने से ४० आया; उसका आधा हुआ बीस अर्थात् विष । (८) कोरा = कुरेदकर, कुतरकर । (९) टाँड़ = बाहु में पहनने का एक गहना (कृशता-वर्णन) ।

जोहति पंथ मनावति संकर वासर निसि मोहिं गनत गई ।
पाती लिखत विरह तन व्याकुल कागर^१ ह्वै गयो नीरमई ॥
ऊधो ! मुख के वचनन कहियो^२ हरि सोंसूल नितप्रतिहि नई ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को विरह वियोगिनि विकल भई ॥३६७॥

//  राग धनाश्री 

फूल विनन नहिं जाऊँ सखी री ! हरि विन कैसे वोनौ फूल ।
सुन री, सखी ! मोहिं रामदोहाई फूल लगत तिरसूल ॥
वे जो देखियत राते राते फूलन फूली डार ।
हरि विन फूल झार^३ से लागत झरि झरि परत अंगार ॥
कैसे के पनघट जाऊँ सखी री ! डोलौ सरिता-तीर ।
भरि भरि जमुना उमड़ि चली है इन नैनन के नीर ॥
इन नैनन के नीर सखी री ! सेज भई घरनाउ^४ ।
चाहति हौं याही पै चढ़िकै स्याम-मिलन कों जाऊँ ॥
प्राण हमारे विन हरि प्यारे रहे अधरन पर आय ।
सूरदास के प्रभु सों सजनी कौन कहै समुझाय ॥३६८॥

राग विहागरो

ऊधो जू ! मैं तिहारे चरनन लागौं वारक या व्रज करवि भाँवरी ।
निसि न नोद आवै, दिन न भोजन भावै, मग जोवत भई दृष्टिझाँवरी ॥
वहै वृंदावन स्याम सघन वन, वहै सुभग सरि साँवरी ।
एक स्याम विनु स्याम न भावै सुधि न रही जैसे वकत वावरी ॥

(१) कागर = कागज । (२) वचनन कहियो = इससे जवानो ही कहना । (३) झार = अग्नि की ज्वाला । (४) घरनाउ = घड़नई, बाँस में उलटे घड़े बाँधकर बनाई हुई नाव ।

लाज छाँड़ि हम उतहिं आवतीं चलिन सकति आवै बिरह-ताँवरी^१ ।
सूरदास प्रभु वेगि दरस दीजै होय है जग में कीरति रावरी ॥३६६॥

ऊधो ! जबहिं जाव गोकुलमनि आगे पैयाँ लागन कहियो ।
अब मोहिं बिपति परी दर्सन बिनु, सहि न सकत तन दारुन दहियो ॥
सरदचंद्र मोहिं बैरि महा भयो, अनिल सही न परै किहि बिधि रहियो ?
सूर स्याम बिनु गृह बन सूनो, बिन मोहन काको मुख चाहियो ॥३७०॥

राग मलार

मेरे मन इतनी सूत रही ।

वै बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नंदलाल कही ॥
एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मथति दही ।
देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो हरि गुसा गही ॥
सोचति अति पछिताति राधिका मूछित धरनि ढही ।
सूरदास प्रभु के बिल्लुरे तें बिथा न जाति सही ॥३७१॥

राग सारंग

देखौ माधव को मित्राई ।

आई उघरि कलक-कलई ज्यों दै निज^२ गए दगाई ॥
हम जाने हरि हितू हमारे उनके चित्त ठगाई ।
छाँड़ी सुरति सबै ब्रजकुल की, निठुर लोग बिलमाई ॥
प्रेम निबाहि कहा वै जानै साँचेई अहिराई ।
सूरदास बिरहिनी विकल-मति कर मीजै पछिताई ॥३७२॥

राग सोरठ

मैं जान्यो मोको माधव हितू है कियो ।

अति आदर अलि ज्यों मिलि कमलहि मुख-मकरंद लियो

(१) ताँवरी=ताप, ज्वर, । (२) निज=केवल, बिलकुल ।

वरुं वह भली पूतना जाको पय-सँग प्रान पियो ।
मनमधु अँचै निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो ॥
देखि अचेत अमृत-अवलोकनि, चालि जु सींचि हियो ।
सूरदास प्रभु वा अधार के नाते परत जियो ॥३७३॥

अब या तनहि राखि का कीजै ?

सुनि रो सखी ! स्यामसुंदर विन वाटि^१ विषम विष पीजै ॥
कै गिरिए गिर चढ़िकै, सजनी, कै स्वकर सीस सिव दीजै ।
कै दहिए दारुन दावानल, कै तो जाय जमुन धँसि लीजै ॥
दुसह वियोग विरह माधव के कौन दिनहिं दिन छीजै ?
सूरदासे प्रीतम विन राधे सोचि सोचि मनही मन खीजै ॥३७४॥

यशोदा का वचन उद्धव प्रति

राग सोरठ

सँदेसो देवकी सों कहियो ।

हौं तो धाय^२ तिहारे सुत को कृपा करत ही रहियो ॥
उवटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते ।
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम करम करि न्हाते ॥
तुम तौ टेव जानतिहि हैहौं तऊ मोहिं कहि आवै ।
प्रात उठत मेरे लाल लडैतेहि माखन-रोटी भावै ॥
अब यह सूर मोहिं निसिवासर बडो रहत जिय सोच ।
अब मेरे अलक-लडैते^३ लालन हैहै करत सँकोच ॥३७५॥

(१) वाटि=पाँसकर, विसकर । (२) धाय = धात्री, दाई । (३) अलकलडैते = दुलारे, लाड़ले ।

यद्यपि मन समुभावत लोग ।

सूल होत नवनीत देखिकै मोहन के मुख-जोग ॥
 प्रात-समय उठि माखन-रोटी को बिन माँगे दैहै ?
 को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छन-छन आगो लैहै ?
 कहियो जाय पथिक ! घर आवै राम स्याम दोड भैया ।
 सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सी मैया ॥३७६॥

राग सारंग

जो पै राखति हौ पहिचानि ।

तौ वारेक मेरे मोहन को मोहिं देहु दिखाई आनि ॥
 तुम रानी बसुदेवगिरहिनी हम अहीर ब्रजवासी ।
 पठै देहु मेरो लाल लड़ैतो बारों ऐसी हाँसी^१ ॥
 भली करी कंसादिक मारे अवसर-काज कियो ।
 अब इन गैयन कौन चरावै भरि-भरि लेत हियो ॥
 खान, पान, परिधान, राजसुख केतोड लाइ लड़ावै ।
 तदपि सूर मेरो यह बालक माखन ही सचु^२ पावै ॥३७७॥

कृष्ण-संदेश

राग सोरठ

मो पै काहे को झुकति^३ ब्रजनारी ?

काहू के भाग मों साझो नाहिंन, हरि की कृपा नियारी ॥
 फलन माँझ जैसे करई तूमरि रहति जो धूरे डारी ।
 हाथ परी जब गुनी जनन के वाजति राग दुलारी ॥

(१) बारों ऐसी हाँसी = ऐसी हँसी चूल्हे में जाय । (२) सचु =
 सुख । (३) झुकति = दृष्टी हो, कोप करती हो ।

यह सँदेस कुब्जा कहि पठयो अरु कीन्ही मनुहारी ।
तन टेढ़ी सब कोऊ जानत, परसे भइ अधिकारी ॥
हौं तो दासी कंसराय की, देखहु हृदय विचारी ।
सूर स्याम करुनाकर स्वामी अपने हाथ सँवारी ॥३७८॥

१ (उद्धव-गोपी-संवाद)

उद्धव-वचन

राग सारंग

हौं तुम पै ब्रजनाथ पठायो । आतमज्ञान-सिखावन आयो ॥
आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ व्रतधारी ॥
आपुहि पिता, आपुही माता । आपुहि भगिनी, आपुहि भ्राता ॥
आपुहि पंडित, आपुहि ज्ञानी । आपुहि राजा, आपुहि रानी ॥
आपुहि धरती, आपु अकासा । आपुहि स्वामी, आपुहि दासा ॥
आपुहि ग्वाल, आपुहि गाई । आपुहि आप चरावन जाई ॥
आपुहि भँवर, आपुहि फूल । आतमज्ञान विना जग भूल ॥
रंक राव दूजो नहिं कोय । आपुहि आप निरंजन सोय ॥
यहि प्रकार जाको मन लागै । जरा, मरन, जी तें भ्रम भागै ॥

गोपी-वचन

सुनु ऊधो ! ह्यौं कौन सयानी ? । तुम तौ महापुरुष वड़ज्ञानी ।
जोगी होय सो जोगहि जानै । नवधा भक्ति सदा मन मानै ॥
भाव-भगति हरिजन चित धारे । ज्योति-रूप सिव सनक विचारे ॥
तुम कह रचि रचि कहत सयानी १। अबला हरि के रूप दिवानी ॥
जात^२-पीर वंम्हा नहिं जानै । विनु देखे कैसे रुचि मानै ॥
फिरि फिरि कहे वहै सुधि आवै । स्यामरूप विनु और न भावै ॥

(१) सयानी = चतुराई, ज्ञान की बात । (२) जात = वच्चा
जनने की ।

जोग-समाधि जोति चित लावै । परमानंद परमपद पावै ॥
 नवकिसोर को जबहिं निहारै । कोटि ज्योति वा छवि पै बारै ॥
 सजल मेघ घनस्याम-सरीर । रूप ठगी हलधर के बीर^१ ॥
 सिर श्रीखंड,^२ कुंडल, बनमाल । क्यों विसरै वै नयन विसाल ?
 मृगमद^३ तिलक अलक घुँघुरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥
 भ्रुकुटी बिकट, नासिका राजै । अरुन अधर मुरली कल बाजै ॥
 दाड़िम-दसन-दमक-दुति सोहै । मृदु मुसकानि मदन-मन मोहै ॥
 चारु चिवुक, उर पर गजमोती । दूरि करत उडुगन की जोती ॥
 कंकन, किंकिनि, पदिक विराजै । चलत चरन कल नूपुर बाजै ॥
 बन की धातु^४ चित्र तनु किये । वह छवि चुभि जु रही हम हिये ॥
 पीत बसन छवि बरनि न जाई । नखसिख सुंदर कुँवर कन्हाई ॥
 रूपरासि ग्वालन को संगी । कब देखै वह रूप त्रिभंगी ॥
 जो तुम हित की बात सुनावौ । मदनगोपालहि क्यों न मिलावौ ?

उद्धव-वचन

ताहि भजहु किन सबै सयानी ? खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥
 जाके रूप-रेख कछु नाहीं । नयन मूँदि चितवहु चित माही ॥
 हृदय-कमल में जोति विराजै । अनहद नाद निरंतर बाजै ॥
 इडा पिंगला सुखमन नारी^५ । सून्य सहज में बसै मुरारी ॥
 मात पिता नहिं दारा भाई । जल थल घट घट रहे समाई ॥
 यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ । जोग-पंथ क्रम क्रम अनु सरिहौ ॥

गोपी-वचन

यह मधुकर ! मुख मूँदहु जाई । हमरे चित वित^६ हरि यदुराई ॥

(१) बीर = भाई । (२) श्रीखंड = चंदन । (३) मृगमद = कस्तूरी ।

(४) बन की धातु = गेरू । (५) नारी = नाड़ी । (६) वित = विच, धन ।

ब्रजवासिनि गोपाल-उपासी । ब्रह्मज्ञान सुनि आवै हाँसी ॥
 अब लौं जोग कवहुँ नहिं आयो । मानो कुवजा-रूपहि पायो ॥
 खोलि सुगाहक पाय दिखायो । माधव मधुकर-हाथ पठायो ॥
 अवला ठगी सकल ब्रज हेरी । सो ठग ठग्यो कंस की चेरी ॥
 राम-जनम-तपसी जदुराई । तिहि फल वध कूवरी पाई ॥
 सीता-विरह बहुत दुख पायो । अब कुवजा मिलि हियो सिरायो १ ॥
 ज्ञान निरास कहा लै कीजै । जोग-मोट दासी-सिर दीजै ॥

उद्धव-वचन

वह अच्युत अविगत अविनासी । त्रिगुण-रहित वपु, धरे न दासो ॥
 हे गोपी ! सुनु बात हमारी । है वह सून्य सुनहु ब्रजनारी ॥
 नहिं दासी ठकुराइनि कोई । जहँ देखहु तहँ ब्रह्महि सोई ॥
 आपुहि औरहि ब्रह्महि जानै । ब्रह्म विना दूसर नहिं मानै ॥

गोपी-वचन

बार बार ये वचन निवारो । भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥
 होत कहा उपदेसे तेरे ? नयन सुवस नाहीं, अलि, मेरे ॥
 हरिपथ जोवत निमिष न लागै । कृष्ण-वियोगिनि निसिदिन जागै ॥
 नदंनदन के देखे जीवै । रुचि वह रूप, पवन नहिं पीवै ॥
 जब हरि आवै तब सुख पावै । मोहन मूरति निरखि सिरावै ॥
 दुसह वचन अलि हमहिं न भावै । जोगकथा ओढै कि दसावै २ ॥

उद्धव वचन

ऊधो कहै, 'धन्य ब्रजवाल । जिनके सर्वस मदनगोपाल ॥
 वह मत त्याग्यो, यह मति आई । तुम्हरे दरस भगति में पाई ॥
 तुम मम गुरु में दास तुम्हारो । भगति सुनाय जगत निस्तारो ॥
 'भ्रमरगीत' जे सुनै सुनावै । प्रेमभक्ति सो प्रानी पावै ॥
 सूरदास गोपी वड़भागी । हरिदरसन की ठगौरी लागी ॥३७९॥

(१) सिरायो = ठंढा हुआ । (२) ओढै कि दसावै ? = लेकर क्या करें ?

मथुरा लौटने पर उद्धव का वचन कृष्ण-प्रति

राग सोरठ

माधव जू ! मैं अति सच्चु^१ पायो ।

अपने जानि संदेस-व्याज करि ब्रजजन-मिलन पठायो ॥
छमा करौ तौ करौ बीनती जो उत देखि हौं आयो ।
श्रीमुख ज्ञानपंथ जो उचन्यो तिन पै कछु न सुहायो ॥
सकल निगम-सिद्धांत जन्म-स्रम^२ स्यामा^३ सहज सुनायो ।
नहिं स्रुति, शेष, महेस, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥
कटुक कथा लागी मोहिं अपनी, वा रस-सिंधु समायो ।
उत तुम देखे और भांति मैं, सकल वृषाहि बुझायो ॥
तुम्हरी अकथ-कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो ।
सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥३८०॥

राग गौरी

दिन दस घोष चलहु गोपाल ।

गैयन की अवसेर^४ मिटावहु भेंटहु भुज भरि ग्वाल ॥
नाचत नहीं मोर वा दिन तें आए बरषा-काल ।

मृग दबरे दूरस तुम्हरे बिनु सुनत न बेनु रसाल ॥

वृंदावन भावतो तुम्हारी देखहु स्याम तमाल ॥

सूरदास मैया जसुमति के फिरि आवहु नंदलाल ॥३८१॥

राग सारंग

अव अति पंगु भयो मन मेरो ।

गयो तहाँ निर्गुन कहिवे को, भयो सगुन को चैरो ॥

(१) सच्चु = सुख । (२) जन्म-स्रम = जन्म भर श्रम करने से साध्य ।

(३) स्यामा = राधा । (४) अवसेर = हैरानी, दुःख ।

अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो वहि केरो ॥
निज जन जानि जतन तें तिनसों कीन्हों नेह घनेरो ॥
मैं कछु कही ज्ञानगाथा ते नेकु न दरसति नेरो ॥
सूर मधुप उठि चलयो मधुपुरी बोरि जोग को बेरो ॥३८२॥

राग धनाश्री

माधव ? सुनौ ब्रज को नेम ।

वृष्णि हम, पट मास देख्यो, गोपिकन को प्रेम ॥
हृदय तें नहिं टरत उनके स्याम राम-समेत ॥
असु-सलिल-प्रवाह उर पर अरघ नयनन देत ॥
चीर अंचल, कलस कुच, मनो पानि^२ पदुम चढ़ाय ।
प्रगट लीला देखि, हरि के कर्म, उठतीं गाय ॥
देह गोह-समेत अर्पन कमललोचन-ध्यान ।
सूर उनके भजन आगे लगौ फीको ज्ञान ॥३८३॥

कहँ लौं कहिए ब्रज की बात ॥

अनुहु स्याम ! तुम विनु उन लोगन जैसे दिवस विहात ॥
गोपी, ग्वाल, गाय, गोसुत सब मलिनबदन, कृसगात ॥
परम दीन जुनु सिसिर-हेम-हत^२ अंजुजगन विनु पात ॥
जो कोउ आवत देखति हैं सब मिली वृष्मति कुसलात ॥
चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चरनन लपटात ॥
पिक, चातक बन वसनन पावहिं, वायस वलिहि न खात ॥
सूर स्याम संदेसन के डर पथिकन वा मग जात ॥३८४॥

(१) पानि = हाथ, जिनकी उपमा कमल से दी जाती है । (२) हेम-हत = हिम या पाले के मारे हुए ।

राग केदारो

उनमें पाँच दिवस जो बसिये ।

नाथ ! तिहारी सौं जिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये ?
वह लीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आवै ।
मोको बहुरि कहाँ वैसो सुख, बड़भागी सो पावै ॥
मनसि, बचन, कर्मना, कहत हौं नाहिन कछु अब राखी।
सूर काढ़ि डार्यो हौं ब्रज तें दूध-माँझ की माखी^१ ॥३८५॥

चित्त दै सुनौ, स्याम प्रवीन !

हरि तिहारे बिरह राधे मैं जो देखी छीन ।
कहन को संदेस सुंदरि गवन मो तन कीन ॥
छुटी छुद्रावलि^२, चरन अरुभे, गिरी बलहीन ।
बहुरि उठी सँभारि, सुभट ज्यों परम साहस कीन ॥
बिन देखे मनमोहन मुखरो सब सुख उनको दीन ।
सूर हरि के चरन-अंबुज रहीं आसा-लीन ॥३८६॥

गुन माधव ! यह ब्रज को व्योहार ।

मेरो कह्यो पवन को भुस भयो, गावत नंदकुमार ॥
एक ग्वारि गोधन लै रंगति, एक लकुट कर लेति ।
एक मंडली करि बैठारति, छाक बाँटि कै देति ॥
एक ग्वारि नटवर बहु लीला, एक कर्म-गुन गावति ।
कोटि भाँति कै मैं समुझाई नेकु न उर में ल्यावति ॥
निसिबासर ये ही व्रत सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति ।
सूर सकल फीको लागत है देखत वह रसरीति ॥३८७॥

(१) दूध...माखी = दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया ।

(२) छुद्रावलि = क्षुद्रघंटिका, करधनी ।

कहिवे मैं न कछू सक राखी ।

वुधि विवेक अनुमान आपने मुख आई सो भाखी ॥
 हौं पचि कहतो एक पहर में, वै छन माहिं अनेक ।
 हारि मानि उठि चल्यां दीन है छाँड़ि आपनी टेक ॥
 कंठ बचन न वोलि आयो, हृदय परिहस-भीन ।
 नयन भरि जो रोय दीन्हों ग्रसित-आपद दीन ॥
 श्रीमुख की सिखई ग्रंथन की कथि सब भई कहानी ।
 एक होय तेहि उत्तर दीजै सूर उठी अबुहानी^१ ॥३८

कहौ तो सुख आपनो सुनाऊँ !

ब्रजजुवतिन कहि कथा जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ ॥
 हौं इक वात कहत निर्गुन की वाही में अटकाऊँ ।
 वै उमड़ी वारिधितरंग ज्यों जाकी^२ थाह न पाऊँ ॥
 कौन कौन को उत्तर दीजै तात भज्याँ अगाऊँ ।
 वै मेरे सिर पाटी पारहिं, कथा^३ काहि ओढ़ाऊँ ?
 एक आँधरी, हिय^४ की फूटी, दौरै पहिरि खराऊँ ॥
 सूर सकल ब्रज षटदरसी, हौं वारहखड़ी^५ पढाऊँ ! ॥३८

तव तें इन सवहिन सचु प्रायो । ^{संतोष}

जव तें हरि-संदेस तिहारो सुनत ताँवरो^४ आयो ॥
 फूले व्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो ।
 भूले मृगा चाँकि चरनन तें, हुतो जो जिय विसरायो ॥
 ऊँचे वैठि विहंग-सभा-विच कोकिल मंगल गायो ।
 निकसि कंदरा तें केहरि हू साथे पूँछ हिलायो ॥

(१) उठी अबुहानी = प्रेत सा चढ़ गया । सब की सब एक साथ
 अने लगी । (२) हिय की फूटी = हृदय की आँख फूटी, शानहीन ।
 (५) वारहखड़ी = अक्षर-ज्ञान । (४) ताँवरो = ताप-लड़ी ।

गृहवन तें गजराज निकसि कै अँग अँग गर्ब जनायो ।

सूर बहुरिहौ, कह राधा, कै करिहौ बैरिन भायो ? ॥३९०॥

मयालु वाक्ये भा वैरिनि मग गतयारु लोके

[राग जैतश्री]

सुनहु स्याम जूवै ब्रज-बनिता विरह तुम्हारे भई बावरी ।

नाहिन नाथ और कहि आवत छाँड़ि जहाँ लगि कथा रावरी ।

कबहुँ कहति हरि माखन खायो कौन बसै या कठिन गाँव री ।

कबहुँ कहति हरि ऊखल बाँधे घर घर तें लै चलौ दाँवरी ।

कबहुँ कहति ब्रजनाथ बन गए जोवत मग भई दृष्टि भाँवरी ।

कबहुँ कहति वा मुरली महियाँ लै लै बोलत हमरो नाँव री ।

कबहुँ कहति ब्रजनाथ साथ तें चंद्र ऊग्यो है एहि ठाँव री ।

सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस विनु अब वह मूरति भई साँवरी ॥३९१॥

राग विहागरो

हरि आए सो भली कीनी

मोहि देखत कहि उठी राधिका, अंक तिमिर को दीनी ।

तनु अति कपति विरह, अति ब्याकुल उर धुकधुकी खेद कीनी ।

चलत चरन गहि रही गई गिरि स्वेद-सालिल भय भीनी ।

छूटी लट्, भुज फटी बलया, टूटी लर, फटि कंचुकि भीनी ।

मनो प्रेम के परन परेवा याही तें पढ़ि लीनी ।

अवलोकति यहि भाति मानो छूटी अहिमनि छीनी ।

सूरदास प्रभु कहौ कहाँ लगि है अयान मति हीनी ॥३९२॥

राग मलार

सुनो स्याम यह बात और कोउ क्यों समुभाय कहै ।

दुहुँ दिसि को रति-विरह विरहिनी कैसेँ कै जु सहै ।

जब राधे तवहीं मुख माधो माधो रटति रहै ।
जब माधो होइ जात सकल तनु राधा विरह दहै ।
उभय अग्र दौ दारु-कीट व्यो सीतलताहि चहै ।
सरदास अति विकल विरहिनी कैसेहु सुख न लहै ॥३९३॥

राग धनाश्री

उमँगि चले दोउ नैन विसाल ।

सुनि सुनि यह संदेस स्यामधन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल ।
आनन वपु उरजनि के अंतर जलधारा वाढ़ी तेहि काल ।
मनु जुग जलज सुमेर-स्रंग तें जाय मिले सम ससिहि सनाल ।
भीजे विय आँचर उर राजित तिनपर वर मुकुतन की माल ॥
मनो इंदु आए नलिनी-दलऽलंकृत-अमी-ओसकन-जाल ।
कहँ वह प्रीति रीति राधा सों कहँ यह करनी उलटी चाल ।
सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्यों जीवै विरहिनि वेहाल ॥३९४॥

राग मलार

नैन घट घटत न एक घरी ।

कवहुँ न मिटत सदा पावस ब्रज लागी रहति भरी ।
विरह इंद्र वरसत निसिवासर यहि अति अधिक करी ।
उरध उसास समीर तेज जल उर भुवि उमँगि भरी ।
वृद्धति भुजा रोम द्रुम अंबर अरु कुच उच्च थरी ।
चलि न सकत थकि रहे पथिक सब चंदन कीच खरी ।
सब ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि यहि विधि उलटि धरी ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे विहुरे मिटि मर्याद टरी ॥३९५॥

राग सारंग

मैं समुझाई अति, अपनी सो ।

तदपि उन्हें परतीति न उपजोँ सवै लखोँ सरनोँ को ।
 कही तिहारी सवै कही मैं और कहुँ सरनोँ ।
 श्रवन न बचन सुनत है उनके जो घट महँ सरनोँ ।
 कोइ कहै वात बनाइ पचासक उनकी वात जु पक ।
 धन्य धन्य जो नारी ब्रज की विनु दरसन इति देख ।
 देखत उमँग्यो प्रेम, यहाँ की धरी रही सभ, रीति ।
 सूरस्याम हौँ रह्योँ ठगोँ सो ज्योँ सुग चौको भोको ।

सुनि लीन्हो उनही को कयो ।

अपनी चाल समुझि मनही मन गुनि अरगाय रहो ।
 अबलनि सों कहि परै जापै वात तोरि कनियनि ।
 अनबोले पूरो है नित्रह्योँ बहुत दिनन को जानि ।
 जानि बूझि कै हौँ क्यों पठयो सठ वात्रयोँ अयानी ।
 तुमहूँ बूझि बहुत वातन को वहाँ जाहुँ नोँ जानोँ ।
 आज्ञा-भंग होय क्यों मोपै गयोँ तिहारें कोट ।
 सूर पठावन ही की ओरी रह्योँ जु गन सों कोट ।

राग मलार

जो पै प्रसु करुता के आलै ।

तौ कत कठिन कठोर होत मन मोहि बहुत दुख साधै ।
 वहाँ बिरद की लाज दीनपति करि सुराष्टि देख्यो ।
 मोसों वात कहत किन सनमुख कहा अत्रनि कयो ।
 निगम कहत बस होत भक्ति तें सोऊ है उन ओनी ।
 सूर उसास छाँड़ि हा हा ब्रज जब आँसियाँ भरी लोनी ।

फिरि फिरि मोपै कत दुख पावत ।
 अब की और चतुर कोउ पठवौ वारन^१ है है आवत ॥
 मैं परमारथ^२ सब समुझायो, रोष-सहित वै कोपी ।
 सुफलकसुत^३ को कहो मानि हैं आरति^३ करिहैं गोपी ॥
 इतनी सुनत कमलदललोचन खैं चि सुकर कर लीन्हो ।
 सूर स्याम मुसकाय जानि जिय तरक^४ जानि हँसि दीन्हो ॥३९९॥

वृत्त-वचन उद्धव-प्रति

राग धनाश्री

ऊधो ! मोहिं ब्रज विसरत नाहीं
 हंससुता^५ की सुंदरि कगरी^६ अरु कुंजन की छाहीं ॥
 वै सुरभी, वै वच्छ दोहनी, खरि^७क दुहावन जाहीं ।
 ग्वालवाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि वाहीं ॥
 यह मथुरा कंचन की नगरी मनि-मुक्ताहल जाहीं ।
 जवहिं सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत, तनु नाहीं^८ ॥
 अनगन^९ भँति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाहीं ।
 सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहि कहि पछिताहीं ॥४००॥

(१) वारन = द्वार पर । (२) सुफलकसुत = अक्षर । (३) आरति करिहैं = आरती करेंगी, खूब सत्कार करेंगी (व्यंग्य) । (४) तरक = तर्क, उक्ति । (५) हंससुता = सूर्य की कन्या यमुना (६) कगरी = कगार, किनारा । (७) तनु नाहीं = तन नहीं रह जाता अर्थात् उसकी सुध भूल जाती है । (८) अनगन = अगणित, अनेक ।

चूणिका

(कोष्ठक में पदों की संख्याएँ हैं)

(१) श्रीदामा = कृष्ण के एक ग्वाल सखा, राधा के बड़े भाई । मंत्री = श्रीकृष्णजी (रस-रूप से वृंदावन में सदा रहते हैं, यहाँ 'मंत्री' शब्द से उसी की ओर संकेत है । कहीं कहीं 'मित्र' पाठ भी मिलता है । 'मथुरा में वे ऐश्वर्य-रूप से रहते हैं) । (२) जाए = उत्पन्न । (३) अंक = अँक-वार, हाथ फ़ैलाकर भेंटना । आने = अन्य, दूसरे को । नेम = नियम, योग के विधि-विधान । (५) आन = किसी अन्य विषय में । (६) सुरति = स्मरण आने पर । हित = प्रेम । मिथ्या-जात = भ्रम से उत्पन्न । एक = अद्वैत ब्रह्म । 'सदा...नात' = उद्धव का वचन । (७) क्रम = कर्म । (८) तूलमय = रूई से युक्त । (९) धूमरि = श्यामा, काली । (१०) अवेर-सवेरो = साँझ-सवेरे । (११) परमान = प्रमाण, मान्य । (१२) हेत = प्रेम । जाए = पुत्र । काजै = के लिए । दाँवरि = रस्ती । (१३) दाम = माला । रस = प्रेम । (१४) अनुहारि = वनावट । वसन = वस्त्र । रुचिकारि = रुचिर या कारी रुचि, श्याम वर्ण । वारि = जल । (१५) सुचित = स्वस्थ । (१६) जादवनाथ = श्रीकृष्ण । बरन = वर्ण, रंग । का पर० = किसे ले जाने के लिए भेजे गए हो । सयानप = चतुरता । जानि० = भली भाँति समझ-लिए गए हों । (१७) उत० = वहाँ से । ब्रजराज = नंद । प्रबोध = समझना । वोलि = बुलाकर । गुरु = गुरु की भाँति । अविगत = अज्ञेय । अगह = पकड़ में न आनेवाला । आदि अवगत = सर्वप्रथम ज्ञात । निरंजन = मायारहित । रंजै = सब उसी के कारण शोभित होते हैं ('यस्य भासा विभाति') । निगम = शास्त्र ।

रसाल = रसमय । छाके = मस्त । हुतो = या । (१८) आहि = है ।
 वासर-गत = दिन बीतने पर । (१९) सकट = रथ । रजक = घोड़ी ।
 हति = तोड़कर । गज = कुबलयापीड़ हाथी । मल्ल = मुष्टिक और
 चाणूर नाम के पहलवान । मातुल = मामा (कंस) । (२०) उपासी =
 उपासिका । (२१) जोग-अंग = अष्टांग योग । ईसपुर = शिव की पुरी ।
 (२२) मही = मट्टा । (२३) हाटक = सोना । साहु = महाजन । दाख =
 द्राक्षा, अंगूर । (२४) मुक्ताहल = मुक्ताफल, मोती । निरवैदे =
 साधेगा । (२५) बनजारा = व्यापारी, सौदागर । गति = शरण । पति =
 प्रतिष्ठा । रौंड़े = जिनके और कोई न हो, एकाकी । (२६) लोक० =
 लोकमर्यादा । कुल० = कुल की प्रतिष्ठा । (२७) नातरु = नहीं तो ।
 वरनहीन = हीनवर्ण । (२८) सागर निधि = महासमुद्र । कुलिस = वज्र ।
 (३१) सूर = शूर, वीर; सूरदास (३२) अनत = अन्यत्र । (३५) मुँडली =
 जिसके सिर में केश न हों । पाठी पारना = मार्ग काटना । कौन पै =
 किससे । नरियर० = भेंट के लिए आप जो योगरूपी विपैला नारियल
 लाए हैं उसे प्रणाम ही करते बनता है । (३६) सिरात = ठंडा होता है ।
 हारयो = हर लिया । आई० = जैसे आम की खटाई से कलई खुल जाती
 है वैसे ही प्रेम का भेद खुल गया । विलग० = बुरा मत मानो । भँवारे =
 घूमनेवाला । पखारे = धोए । ता गुन = इसी से । (४०) हित-हानि =
 प्रेम का त्याग । (४१) काहि जोग = किसके योग्य । (४२) राची =
 अनुरक्त । सिकत = सिकता, बालू । (४३) काके० = किसे जँचेगा ।
 (४४) वदन = मुख । वपु = शरीर । सहाई = सहायक, मित्र । (४६) हित =
 हेतु, निमित्त । अयानि = अज्ञान । छाजन = स्वाँग । सरत = बढ़ता है,
 लपकता है । भाजन = भागना, जाना । (४७) दाप = दर्प, रोव ।
 (४८) सीस = सिर पर, निकट । (५१) दसहि = दशा का । तिसहि =
 उसे । (५२) सौंतुख = प्रत्यक्ष । (५३) अवरोधन० = प्राणायाम ।
 (५५) नइ = नीति । जाति० = खो जाती है । आरति = आर्ति. दःख

यहाँ अप्रतिष्ठा का खेद । (५७) ताती = गरम । सँघती = साथी । (५८) तरल = चंचल, हिलते हुए । तरिवन = ताटक, कान का गहना । (५९) तर = नीचे । (६१) पचत = परेशान होता है । कहा उधारे = खालने से क्या लाभ । बिलमावत = राकते हो, आराम देते हो । कापै = किससे । (६२) राजपन्थ = राजमार्ग, (सगुण का) चौड़ा रास्ता । धौं = कदाचित् । सुमृति = स्मृति शाल्म । कहूँ धौं = कहीं भी । छाछ = मछा । मूर = मूल-धन । (६३) और० = कहीं दूसरे पर टिके । प्रेमहिं = प्रेम के सम्बन्ध से । (६५) अछत = रहते । (६६) पदारथ० = यद्यपि वह मुक्ति चार पदार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) में से है । (६८) दूत = इधर की उधर लगानेवाले । (६९) ज्यों अहि० = काट लेने से साँप का पेट नहीं भरता पर उसकी यहाँ बान होती है । (७०) भूल० = आकारहीन, छायामात्र । अँचवत = पीते हैं । (७१) रमत = मग्न होते हैं । भाजत० = भागते और छिपते रहते हैं । समाने = आए । (७२) झाँई = प्रतिविम्ब । मुकुर = दर्पण । विकट = टेढ़ी । होत त्रिभंग = गले, कमर और पैर पर से टेढ़े होकर । मुकुतमाल = मोती की माला । (७३) गनि = समझकर । गुन = गुण की सीमा, अत्यन्त गुणयुक्त । विधि-बन्धान = ब्रह्मा की रचना । अवतन्स = कान का आभूषण, कुण्डल । भान = भानु, सूर्य । राच = शामा । कम्बु = शंख । उदार = चौड़ा । मनि = मणि, कौस्तुभ । निर्लत = नाचती है, चमकती है । (७४) अम्बर = वस्त्र । सर-पंजर = बाणों का घेरा । अमी = अमृत । जैसे सूर० = साँप काटकर भागता है तो क्या उसके मुख में अमृत की बूँद पड़ जाती है ? (७५) कन = दाना । चेप = लसा । कर = हाथ । लूक = लू । कल्प० = कल्पवृक्ष; सुख । (७६) मदन० = काम के बाणों से विद्ध । (७७) सगुन लै = शकुन विचारकर । ये सत्र = योग, जग, व्रत आदि । विष-वेली = कुँजा । पाँयन० = पैरों के नीचे करके, तिरस्कार करके । मेली = डाली । (७८) सकुचासन = संकोचरूपी आसन पर बैठकर ।

अमरगीत-सार

परस करि = छूकर, दान करके, त्याग करके । पवन० = प्राणायाम ।
 क्रम = कर्म । निकंदन = नाश । तरनि = सूर्य । अपजस० = अपकीर्ति
 सुनी-अनसुनी कर देती है । प्रकाश = ब्रह्मज्योति-दर्शन । चंद्रसूर = चंद्रमा
 और सूर्य का प्रकाश (योगी इडा, पिंगला और सुपुम्ना नाडियों के मूल-
 प्रदेशमें क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का सा प्रकाश मानते हैं । अन-
 हृद = अनाहत शब्द । प्रमाने = मान, समान । समाने = ब्रह्मानंद में
 लीन होने की अवस्था । (८०) असित = काले । गौं = घात । (८१)
 हो = था । घौं = न जाने । तो = था । वारिज० = कमलनाल तोड़ने पर
 उसमें से जो बहुत पतले तंतु निकलते हैं । जहाँ तो = जहाँ से (८२) अँचै० =
 पी गई । (८३) निगम = ब्रह्मज्ञान । परेखे = विश्वास । कालमुख० =
 काल के मुख से बचाकर फिर उसी में डाल दिया । घनसार = कपूर ।
 (८७) कमलनयन = श्रीकृष्ण । घाली = भेजी । द्वार है = द्वार पर से ।
 केतिक = कितनी ही । साली = पीड़ा करने लगी । (८८) वदन० = मुख-
 चंद्र । मनिदुति = सूर्यकांत मणि । (८९) कागर = कागज । सर = सरकडा
 (जिसकी कलम बनती है) । अरे = बंद हो गए हैं । (९०) कबंध = घड़
 (शूर का घड़ सिर कट जाने पर भी लड़ता रहता है और भारी मारकाट
 मचाता है) । बल = बलपूर्वक । वारुहि० = बालू की दीवार । (९१)
 अंतर्गत = मन में । भाव० = प्रेमपूर्वक । (९३) बई = लगी । ठई = की,
 बनाई । (९४) राजगति = राजनीति । (९६) मनसाहू = इच्छा तक ।
 चेति = विचार करके । एति = इतनी, ऐसी । (९७) सतरात = चिढ़ता ।
 ब्रजलोचन = श्रीकृष्ण । (९८) निमेख = पलक । अहनिशि = अहर्निश,
 दिनरात । उघारे = नग्न । (९९) पास = फंदा । रहत न० = नेत्रों से जल
 गिरना रुकता नहीं । (१००) स्रमजल = पसीना । अंतर-तनु =
 भीतर तक, भली माँति । नलिनी = कमलिनी । हिमकर = चंद्रमा ।
 (१०१) पुरइन = (पद्मिनी) कमल । पान = पत्र, पत्ता ।
 मिलाइए—'पद्मपत्रमिवाम्मसा' । परागी = अनुरक्त । पागी = चिपटी ।

(१०३) घट = शरीर । (१०४) पूरव लौ = पूर्व की ओर, मथुरा । मसान जगाना = शव पर बैठकर तंत्रशास्त्र के अनुसार सिद्धि के लिए साधना करना । (१०५) कुहित = बुरी । उपचार = दवा । धुन = रंगढंग । (१०६) चपरि = शीघ्रता से, एकबारगी । कुन्तल = केश । भुरै लई = ठग लिया । निरस० = रसहीन हो गई । करखे तें० = खींचने पर भी हटी नहीं । घनस्याम = श्रीकृष्ण; बादल । छिजई = धिस डाली । (१०८) मधु = शहद (का छत्ता) । पानि = हाथ । पलक० = हाथ से पलकें मल रही थी, जगने का प्रयत्न कर रही थी । निरोध = रोक-छेक । निबरे = निकल कर जा सके । कृपन० = कृपण का सा व्यवहार (अर्थात् केवल जोड़ती रही) । (१०९) बतवै = त्याग दे । (११०) हित = अच्छा, रुचिकर । माहे = में । दाहै = जलन से । (१११) अब किन० = बेचकर दाम क्यों नहीं खड़े कर लेते । सबरी = सब । (११२) रूख = वृक्ष । (११३) गुनैत्रा = गुणयुक्त बनाने से । अनखात = बुरा मानती हैं । तन = ओर । विहान = चीतता है । (११४) स्याम = श्रीकृष्ण और काला । विरद किये = यश गाया । सुति = वेद । वारिज-बदन० = मेरे नेत्ररूपी भ्रमर श्रीकृष्ण के कमलमुख का मधुपान कब करेंगे, उनके दर्शन कब होंगे ? (११५) कूजत = बोलती है । सिगी = सींग का बाजा । पखान = (पाषाण) शिला, पत्थर । (११६) काढ्यो = खींचा, बनाया । (११७) ऊजर = उजड़े हुए । (११८) अनुसारी = छेड़ी । अहि० = जैसे साँप केंचली छोड़ देता है वैसे मन शरीर को छोड़ चला गया । (११९) बोहित = जहाज, बड़ी नाव । (१२०) तुम्हरे० = तुम्हें ही फबती है । नरियर-ज्यों = देखिए पद ३५ की टिप्पणी । (१२१) परेवा = कबूतर । कंटक० = स्वयं कौंटे की चोट सहता है । निरवारै = निवारण करते हो, हटाते हो । (१२२) अपाने = अपने । निदाने = अंत में । (१२४) दुसह धुनि = असह्य ध्वनि (कानों को) । (१२५) विसाहु = मोल ले लें । (१२६) आनि० = आकर आशा को भी नैराश्य में परिणत कर दिया (१२७)

ओछो तोल = तौल में कम, हलका । जाति = संप्रदाय, मंडली । (१२८)
 त्रिदोष = संनिपात । जक = बकलाद । थिर कै = स्थायी रूप से । (१२९)
 पवन धरि = प्राणायाम करके । (१३१) बरन = वर्ण, रंग । (१३२)
 आँधरी० = अंधी यदि अंजन लगाए । (१३३) पय० = बौल से दूध
 दुहते हो । (१३४) मोट = गठरी । कर करि = हाथ से । मृगमद =
 कस्तूरी । मलयज = चंदन । उवटति = मलती थी । तृप्ताति = तृप्त होंगी ।
 (१३५) खरि = खड़िया । (१३७) गुपुत = भेद, रहस्य । (१३८) पुहुमि
 = पृथ्वी । भरमात = धूमता है । अघात = तृप्त होती है । अमृत फल
 = मीठे फल । (१३९) खरियै = अत्यंत । सुधि० = उसे भूलने
 की वृत्ति ही भूल गई अर्थात् वह भूलता नहीं । आँक = अंक
 गोद । खटकती है = कसकती है । (१४१) नए = झुके । उनतें = उनसे
 बढ़कर या बड़ा । (१४२) बकसियो = क्षमा करना । बौर = मंजरी ।
 (१४३) तन = ओर । धौं = तो । परमारथ = परमार्थ रूपी औपध ।
 राजदाप = प्रबल रोग यक्ष्मा । (१४४) अनुदिन = प्रतिदिन । (१४६)
 दें गए = दिए हुए गए । (१४७) बापुरे = बेचारे । छार = धूल । (१४८)
 आयसु = आदेश, आज्ञा । वार० = निछावर करके । नव० = नों टुकड़े
 करके, टुकड़े टुकड़े करके । (१४९) तर = नाचे । सच्चु = सुख । (१५१)
 सुखेत = रणक्षेत्र । वारि = पानी; चमक । (१५२) वाय = वात-विकार । पय-
 निधि = समृद्ध । (१५३) अरे = अड़ गए हैं । राचे = अनुरक्त । बक्र =
 अत्यंत टेढ़े । सांतल = जिनके संचार (ध्यान) से हृदय ठढे हो गए हैं ।
 अमिय० = अब ये अमृत से विष में जा पड़े । (१५४) बढ़पत० = उसकी
 आर काला सर्प क्यों बढ़ाते हो । हारे = विवश होने पर । अछत =
 रहत । (१५५) फूलेल = सुगंधित तेल । ग्रथें = गाँठें । आधारी =
 भारी । ताटक = कान का गहना । जाति = जामा । सार = घनसार
 कपूर । असवास = (आश्वास) सुगंधित साँस । आक = (अर्क) मदार
 (१५६) आधिकारे = अधिक । सारे = तक्ष । खारे = कड़वे.

(१५७) वायस = कौआ । अँचयो = पीया । वजी० = एक ही दङ्ग के चाजे वजे, सब एक ही रंगत के हैं । ताँति = तंत्री, बाजा । (१५९) कनियाँ = गोद । (१६०) कलेवर = शरीर । खौरी = लेप । पिछौरी = दुपट्टा । (१६१) ज्यों भुवंग० = जैसे उस सर्प की फूँक जिसकी मणि छीन ली गई हो । दवा = भीषण ज्वाल । (१६२) अंत्र = अच्छे वस्त्र । गुरु० = जो योग के हमारे गुरु हैं वे कुब्जा के हाथ की माला हैं । उसके इशारे पर नाचने वाले हैं । (१६३) दाम = रस्सी । पानि = हाथ । चोरी० = चोरी न खोलूँगी । आनि = आकर । हठिहौं = न देने का हठ न करूँगी । जावक = महावर । बट-तर = बरगद के नीचे । सँकेत = संकेतस्थल । चढाय = बैठाकर । (१६७) निरखि० = उसे देखकर अश्रु की अखंड धारा बहने लगी । प्रेम० = प्रेम की व्यथा फिर भी न बुझी । अंतर-गति = हृदय के भीतर । सुचित = स्वस्थ होकर । कमल = योगियों के षट्चक्र जो कमल के रूप में माने जाते हैं । (१६९) लाई = मन लगाकर । सुमति मति = अच्छी बुद्धि । पै = निश्चय । (१७०) गात = गाते हुए । सुनात = सुनाते थे । परसात = छाई है । (१७२) सिंधी = सींग का बाजा । (१७३) लहनौ = प्राण्य । वर = दूल्हा, पति, प्रिय । सँघाती = साथी, सखा । (१७५) सरै = (सूर्य के रथ की ओर) जाता है, उसे प्राप्त करता है । (१७६) बलभी = प्रेमिका । मधुर = जो मीठी बोली बोलनेवाले हैं । वृक = भेड़िया । बच्छ = बत्स, बछड़े । असन = भोजन । बसन = वस्त्र । सत = शत, सैकड़ों । (१७७) बरस० = वर्षा करता है । कर० = हाथ में कड़ा और दर्पण लेकर (कड़ा ढीला पड़ गया है । दर्पण में मुख विवर्ण दिखाई पड़ता है) । एतो मान = इतना अधिक कष्ट सहने पर भी । (१७८) सहियो = सहना । मकरध्वज = काम । बहियो = अश्रु-प्रवाह के कारण (१७९) पय = जल । पय सों = पानी से भी आग लग रही है । हा हरि० = हम जो 'हा हरि, हा हरि' कहती हैं उसी मंत्र के पढ़ने से इस आग में जलकर भस्म नहीं हातों ।

(१८०) गहरू=देर, विलंब । (१८१) कहा वनैहै=कौन सी बात गढ़ लेंगे । पाँति=पंक्ति । प्रतिष्ठा=मर्यादा । अब हम०=हम चुपचाप वहाँ पत्र लिख देंगी कि ये तो गोकुल के अहीर हैं- फिर उन्हें अपने साथ यदुवंशी न रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा न करेंगे । (१८२) रूपहरी = हरि का रूप, सारूप्य मुक्ति । सुक=शुकदेव । स्यामा=युवती स्त्री । (१८४) भनै=कहे । कह०=क्यों उन कानों में कंकड़ी की चोट करते हो । रंग चुनै=प्रयत्न करने पर भी । (१८६) वकी = पूतना । दोषन=दोष अर्थात् विषमय हो जाने से । तृनाव्रत=तृणावर्त । केसी=केशी नाम का दैत्य । (१८७) घाए=घात, चोट । कहि०=कहना पड़ा । (१८८) सरल=रसमय, कर्णसुखद । तरनि०=सिर का तिलक सूर्य की भाँति दाहक है । भुवाल=भूपाल, राजा । (१८९) बहित्री = निर्वाह करना । (१९०) दासनिदासि = दासानुदासी, दासों की दासी । (१९१) चेत० = वेसुध अवस्था । रेती = बालू का मैदान । (१९३) अव-गाहि० = दुःख में दूबती है । (१९४) स्यामसूल० = श्रीकृष्ण की पीड़ा में पगा हुआ । ऋपि = अर्थात् ऋजु, सीधा । (१९६) पुलिन = तट । (१९७) विरह-वाज = विरहमय । सलिल० = अधर-माधुरी के जल में मिलाकर । बल न० = औषध का कोई बल नहीं लगता, औषध काम नहीं करती । सरै = हो । (१९८) हे = ये । दाम = रस्सा से । पति = प्रतिष्ठा । रसनिधि = आनंद के सागर । (१९९) नेह-नग = प्रेमरूपी रत्न । बुझानी = समझ में आई । (२००) हमरे० = हमारे गुण गाँठ में क्यों नहीं बाँधे, हमारे गुणों का विचार क्यों नहीं किया । (२०१) देह० = शरीर दुःख की संज्ञा नहीं पाता, दुःखों का अंत नहीं मिलता । (२०२) आन = शपथ । आमिप = मांस । हित = प्रिय । किगरी = छोटी सारंगी, चिकारा । सुर = ध्वनि । लग = तक । ब्रजभान = ब्रज-मानु, श्रीकृष्ण । (२०४) चाली = छेड़ी । साली = धँसा । ब्रजवाला = ब्रज की बालाएँ । (२०५) इतने = इतने पक्षी । प्रतिपारे = पाला-

पोसा । विडारे=नष्ट कर दिए । कीर=नासिका । कपोत=गर्दन ।
 कोकिला=वाणी । खंजन=आँखें । (२०६) सत्वर=शीघ्र । मधु-
 रिपु=श्रीकृष्ण । जगी=जागरण । क्वाथ =काढ़ा । मूरि=जड़ी । सुख
 =अनुकूल, लाभदायक । (२०८) निवर्ति=पूजा करके । (२१०) अराध=
 आराधना करे । बरीस=वर्ष । पुरवौ =पूर्ण कर दो । (२११) रीते=
 रिक्त, खाली । कारन=कालों की । फेरनि=लपेट, पहनावा । घेरनि =
 एकत्र करना, चराना । करेर=कड़ा । (२१३) घोष=गवालों का गाँव ।
 संपुट=बंद । दिनमनि=सूर्य । (२१४) रथ पलान्यो=रथ पर चढ़
 कर गए । (२१७) पाहन=(पाषाण) पत्थर, कठिन । (२१८)
 जावदेव=यावन्मात्र, सबको । (२१९) चित०=मन । (२२०)
 विधि०=ब्रह्मारूपी कुम्हार । घट=घड़ा ; शरीर । दरसन०=देखने की
 आशा ही घड़ों का फेरा जाना है । कर०=श्रीकृष्ण के काम आए, उनके
 लिए शकुन-सूचक हुए । (२२१) काती=कृत्ता, छुरा । सवाती=
 स्वाती । (२२२) निसि लौं=रात भर । सीति=शीत, ठंडा । पुरवा=
 पूर्व से आनेवाली वायु, पुरवैया । गए०=उसने हमारे शरीर सरलता से
 जीत लिए हैं । (२२३) चौरासी=अनेक प्रकार की । हरि=हरकर ।
 (२२४) लोकडर=हमारा प्रेम प्रकट करने से श्रीकृष्ण को लोकापवाद
 का भय है (लोग कहेंगे कि ये गँवारों के साथ रहते थे) । (२२५) सो
 कुल=वह वंश (यादवों का), जन्म लेने पर जिससे विछुड़ गए
 थे । गर्ग०=गर्ग ने कहा था कि श्रीकृष्ण मथुरा और फिर द्वारका में
 जा बसेंगे । जो कुल=वह सब । ज्ञाति =जाति । (२२६) अनहद=
 अनाहत नाद । कुष्मांड=कुम्हड़ा । अज=ब्रकरा । अधाना = तृप्त
 होना । (२२७) न परानी=नहीं हटी । चलमति=चंचल बुद्धिवाला ।
 घेरि०=लँकते फिरते हैं । (२२८) पति=प्रतिष्ठा । दुरहु=हटो ।
 बसीठ=दूत । मति फेरी=बुद्धि का फेर । कै सँग =मिलकर, जुड़कर ।
 श्री-निकेत =शोभा के घर । पानि=हाथ में । त्रिषान=सिंग ।

(२३०) नवतन=(नूतन) नए ढंग से । राचे = अनुरक्त हुए । रन-
छोर = श्रीकृष्ण । (२३१) कारे = काले; मलिन, कपटी (२३४) ऐन =
घर । (२६५) कोय० = कौन स्त्री थी । राजपंथ = राजमार्ग (भक्ति
का चौड़ा मार्ग) । उरझ = उलझानेवाली । कुञ्जील = ऊबड़-खाबड़,
ऊँचा-नीचा । अज = बकरा । वदन = मुख । (२३६) कुमोदिनी =
कुई । जलजात = कमल । घनसार = कपूर । जीरन = जीर्ण, पुराना ।
(२३७) विदमान = विद्यमान, उपस्थित । (२३८) स्थंडन = रथ ।
वाय० = वात-व्याधि से पगली सी होकर (२३९) कुम्भ = घड़ा ।
जलचरो० = वेचारी मछली (२४१) धूरि = मिट्टी, व्यर्थ । (२४३)
कुवजा० = कूवरी के प्रेम में मतवाले । लेस = थोड़ा भी । हरिखंड =
मारपंख । स्यामा = षाडशवर्षीया युवती स्त्री, राधिका । कछु० = सुधबुध
खो गई । प्रवाल = नए निकले कोमल पत्तों की भाँति । तत उन = तत्क्षण,
तुरंत । सुहेस = मंगल । सुरेस = इन्द्र । रस = आनंद से अभित गतिवाले
होकर, आनंद में मग्न होकर । सेस = शेषनाग । (२४४) अंगराज = सुगं-
धित लेप । मेदिनी = भूमि । (२४६) वरन = वर्ण, रंग । वाने = ढंग
के । मीड़ि = मलकर । (२४७) समतूलहु = समान । (२४८) वास० =
वासस्थान । मंदे = मंदे बाजार में । (२४९) कहु० = उसे भस्म लगाने
से कैसे सुख मिलेगा । (२५०) चाँड़ = आभलाष । विसासि = विश्वास-
घाती । तीजो पंथ = तीसरा पंथ (मुरारेस्तृतीयः पन्थाः) । यह = ऊधो ।
साधु = सज्जन, सीधा । (२५२) कटु = कड़वी । अंगनिधि० = श्रीकृष्ण
के सगुणरूप के समुद्र से । अनमिल = वेमेल (निर्गुण) । असोलत =
अमूल्य या बहुमूल्य ठहरा रहे हो (सगुण से निर्गुण को बढ़कर बतला
रहे हा) । (२५३) अतीत = परे (२५५) स्याम-तन० = श्राकृष्ण की
आंर देखकर, उनका विचार करके । (२५६) वारे = बालपन से ही ।
(२५७) अगाऊ = आगे आगे । (२५८) कचारा = कटारा । ताटंक,
खुभा, खुटेला = कान के गहने । फूली = फूल, लौंग (गहना) । सारा० =

कमल और चंद्र से अंकित साड़ी। सारस=कमल। गूदर=फटी। (२५९) भेद०=पता न चला। बदन को=कहने के लिए, निश्चित करने। बायु०=प्राणायाम। ताए=तपाए। (२६०) सँचि=एकत्र कर रखी थीं। छार=धूल। सरवरि०=कूबरी के योग्य। घटी०=बुरा किया। हम जोही=हमें देखते रहे, हमें ग्राहक समझते रहे। (२६१) राहत=रहते हैं। कोट=बाँस की कोठी। (२६२) परेखो=पछतावा। बारे=छोटे। भीर=संकट, कष्ट, कठिनाई। सखो=पूरा हुआ। बायस०=कौए का भाई, कौआ। (२६३) पत्यानो=विश्वास किया। (२६४) करसायल=मृग। अविधि सों=अन्याय से। (२६५) सूर=शूर, वीर; सूरदास। (२६७) बारक=एक बार। (२६८) सोधियो०=उनसे पूछना। घात=हत्या। (२६९) ज्यो०=जैसे माता अपने जने बच्चे का पालन करती है। (२७०) गुरु०=गुड़ दिखाकर बहलाओ। कोउ०=किसी प्रकार। (२७१) अंतरमुख=भीतर। पांडु०=कामला रोग जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है। उजरे=उजड़ा हुआ। छपद=भ्रमर। (२७२) मदिरा०=शराब पीकर। पराग०=पराग की पीक की रेखा। कुंभ०='विषकुम्भं पयोमुखम्', विष का भरा घड़ा, जिसमें ऊपर दूध हो। उघारे=खोले। कृत=कर्म से। (२७४) पुहुप=पुष्प। नेरे=निकट। (२७५) पिछौंहे=पीछे की ओर। उर०=जब छाती छेदकर पीछे जा निकले। पाछे०=पीछे हटते हुए भागे नहीं। कबंध=घड़। संमुख०=सामना करने, भिड़ने के लिए। (२७६) चिहुर=चिकुर, केश। यह०=इस प्रकार से। नयन०=नेत्रों की इच्छा पूर्ण करते हुए। बटमारे=डाकू, चोर। (२७०) कागर=कागज, पत्र (२७८) पंक=कीचड़ ही मैली साड़ी है। व्याज=बहाने से। अनुहारी=समता। (२७९) भीति=दीवार। (२८०) हठिहि=हटपूर्वक। प्रवेशनि=जल की धारा के प्रवेश से। त्रिसेपनि=विशेष रूप से। (२८१) धावन=दूत। कहा०=क्या वश है। बल=

बलदाऊ । (२८२) दादुर० = माना जाता है कि वर्षा के प्रथम जल से मरे हुए मेंढक जी उठते हैं । निविड़ = घना । (२८३) सारंग = चातक । सूरमा = वीर । (२८४) खरे = तीव्र । (२८५) इत्ते मान = इतना अधिक । अंत० = मार मत डालो । (२८६) सिधुतीर = द्वारका में । (२८७) वयन = वचन, बोली । भीषम = भीष्म पितामह की भाँति । डासि = विछाकर । दच्छिन० = भीष्म पितामह जब युद्ध में घायल हुए तब सूर्य दक्षिणायन थे, उत्तरायण होने पर उन्होंने प्राण त्यागे । उन्हें इच्छामरण का वरदान था । (२८८) निमेष० = पलकरूपी तट । गोलक = पुतली । तट = ओठ और कपोल ही तट का मैदान हैं । (२८९) पोच = बुरा (सोच का विशेषण) । (२९०) एक अंग = (एकांग) केवल, निरंतर । ज्यो मुख० = जब वह पूर्ण मुखचंद्र सामने था । रई = रँगी, डूबी । सकति = शक्तिभर । (२९१) सारि = निकालकर, पूरा करके (२९३) कुहू = अभावस्था । तमचुर = ताम्रचूड़, मुर्गा । (२९६) आरि = अड़, मुद्रा । वसन = वल्ल । दसन = दौत । (२९७) ब्रह्मि० = आग धारण करता है । छपा = रात्रि । (२९८) मोषै = मुझसे । भख० = काट न ले । (२९९) दुःख० = बृक्षो का गिरना ही दुःख है । सिव = स्तन । (३००) तन-दगध = शरीर का जलना । (३०१) सन = से । (३०३) सोध = पता । गहरु = विलंब । अंबर = आकाश । (३०७) सीरे = ठंडे । सूरमा = वीर । (३१०) राम कृत्न = बलराम और श्रीकृष्ण के कारण किसी को कुछ नहीं समझती थीं । (३११) चिलक = शुद्ध 'तिलक', एक वृक्ष जो वसंत में फूलता है । मृगपशु = पशुजाति । बलित = युक्त । (३१३) दागर = नाशक । (३१५) साधौ = उत्कंठा । (३१७) पन्ध्र = पंख; पलक । अंबु = जल; आँसू । अमृत = अघरामृत । कीर = सुग्गा, नासिका । कमल = मुख या नेत्र । कोकिला = वाणी । (३१८) मूल संस्कृत श्लोक यह है—जटा नेयं वेणी कृतकचकलापो न गरलं, गले-

कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसमम्, इयं भूतिर्नाङ्गे प्रियविरहजन्मा
 धवलिमा, पुरारातिभ्रान्तया कुसुमशर ! किं मां व्यथयसि । (३२४)
 छपाकर = चंद्र, मुख । सारस = कमल । (३२६) परेखो = सोच ।
 पौरि = द्वार । (३२८) उमापति = शिव । सोध० = पता पा गया ।
 दसन० = दाँत से काटने का । नैनन० = खारा होने से । (३३०)
 भवभूति की रचना यों है—धत्ते चक्षुर्मुकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते,
 मार्गे गात्रं क्षिपति बकुलामोदगर्भस्य वायोः; दावप्रेम्णा सरसत्रिसनीपत्र-
 मात्रोत्तरीयः, ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुशो मृत्यवे चंद्रपादान् । (३३२)
 उधारी = खुली । सलाका = सलाई (अंजन लगानेवाली) । आरति =
 दुःख । (३३५) हंस = परमहंस, ब्रह्मशानी । (३३७) कैसे =
 समान । आगरे = बढ़कर । (३३८) जल० = जल में शीशी डुबाने से
 बुल्ले निकलते हैं । बार = देर । (३४०) पास = पाश, जाल ।
 सायक = बाण । दवा = दावाग्नि । (३४१) अभास्यो = प्रकाशित
 हुआ । सुमन = सुगंधित तेल, फुल्ल । रहि = रुके नहीं । निरंजन =
 निर्लिप्त । सलभ = फर्तीगे । करम की = उत्तम । (३४३) धार वही =
 तलवार चली । (३४८) परी = गिरी, पृथक् हुई । बहित्री० = बहना
 नहीं रुकता । उपचारै० = हमारा क्या उपचार हो, कष्ट किस प्रकार दूर
 हो । (३४९) आसी = खानेवाले । (३५०) आहु = हो । भारो =
 ठगते हो । साहु = साधु, महाजन, वर्णिक् । (३५१) चारी = चारों
 मुक्ति (सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य) । मारग० = रास्ते पर
 आइए । (३५५) ही = थी । छपद = भ्रमर । दर्द = ईश्वर का भी डर
 नहीं । (३६०) सुसारना = समझाकर कहना । (३६२) कुमुंभ = हलका
 लाल । करनि = अपने हाथों । (३६४) दोष = जाड़ की त्रुटि । काँजी =
 खट्टा । दिगंबर = नंगे लोग । रजक = धोत्री । (३७१) नंदलाल =
 श्रीकृष्ण से । ही = थी । ढही = गिर पड़ी । (३७५) तातो = तपन,
 गरम । करम० = धीरे धीरे, क्रमशः । (३७६) आगी लेना = सेवा

करना । राम = बलराम । (३७७) गिरहिनी = गृहिणी, पत्नी (देवकी) ।
 परिधान = वस्त्र । (३७९) विकट = टेढ़ी । कल = मधुर । उडुगन =
 सारे । पदिक = माला में त्रीचोबीच का बड़ा गहना । दारा = पत्नी ।
 राम० = रामजन्म के तपस्वी, रामावतार में तपस्या की थी । मोट =
 गठरी । (३८०) व्याज = ब्रह्मने से । हम० = मुझ दास का वश नहीं
 चलता । (३८२) नेरो = निकट । वेरो = वेड़ा, नाव । (३८४) वायस० =
 कौए को वे पति के आगमन का शकुन विचारने के लिए उड़ा देती हैं ।
 (३८५) कस = कैसा । फेरि० = वेसुध हो जाना पड़ता है । (३८७)
 छाक = कलेवा । (३८८) परिहास = खेद । (३८९) अगाऊँ = पहले ही ।
 कथा = कथरी, गुदड़ी । षटदरसी = षट्शास्त्री, लहों शास्त्रों का ज्ञाता । (३९१)
 दौवरी = रस्सी । झाँवरी = मलिन । महियाँ = में । साँवरी = काली (३९२)
 अंक = आँख मूँदे मूँदे ही अंधकार में आलिंगन किया । धुत्रधुकी =
 धड़कन । खेद = दुःख । भीनी = युक्त । लट = केश की लट । बलया =
 चूड़ी । लर = माला की लड़ी । कंचुकि = चोली । झाँनी = पतली,
 महीन । परन = प्रण । परेवा = कवूतर, कपोत । छूटो० = सर्पिणी मणि
 छिन जाने पर जैसे शिथिल पड़ी रहती है (३९३) दुँहु० = राधा
 रहने पर और माधव हो जाने पर दोनों स्थितियों में प्राप्त विरह को
 कैसे सहे । उभय० = लकड़ी के दानों छोरों में आग लग जाने पर झुल-
 सता काष्ठ-कीट जैसे शीतलता के लिए व्याकुल होता है (३९४) वपु =
 शरीर । उरज = स्तन । अंतर = त्रीच । जुग० = दो कमल (नेत्र) ।
 सुमेर० = पर्वत की चोटी (स्तन) । सम० = चंद्र (मुख) से । सनाल =
 मृणाल सहित (जल की धारा ही नेत्र-कमलों की नाल है) । विय =
 दोनों । आँचर = स्तन । इंदु० = चंद्रमा के उदित होने पर । नलिनी-
 दल = कमलों का समूह । लंकृत = अमृत रूपी ओस के कणों से सुशो-
 भित है । मनो इंदु...जाल—नेत्रों से टपके आँसुओं से भीगकर स्तन
 ऐसे जान पड़ते हैं कि मानों चंद्र (मुख) के उदित होने पर उसके द्वारा

टपके अमृत (आँसू) से (मुँदे) कमल (स्तन) ओसकर्णों को धारण
 किए शोभित हो रहे हैं। (स्तनों की उपमा मुँदे कमल से देना कवि-
 समयसिद्ध है)। (३९५) घट = पानी (आँसू) से भरे बड़े। झरी =
 पानी की झड़ी। जल = पानी (आँसू)। उर० = छाती रूपी भूमि। भुजा
 = बाँह; शाखा। रीम = रोम रूपी वृक्ष। अंबर = वस्त्र, आकाश।
 उच्च० = ऊँचा स्थान, पहाड़। पथिक = यात्री; शरीर के विभिन्न अंग।
 चंदन० = संयोग के समय का लगा चंदन आँसू से मिलकर कीचड़ हो
 गया है, और मार्ग रुक गया है। (३९६) अपना सो = अपने भरसक।
 घट = शरीर। अकनी = सुनकर भी। भोयो = घाखे में पड़ा हुआ।
 (३९७) गुनि = समझकर। अरगाय = अलग, पृथक्। बात० = कणि-
 काओं को तोड़कर बात कहना, बहुत अच्छी तरह से समझाकर, एक-
 एक रहस्य खोलकर बात करना। पूरो० = भली भाँति निबह आया और
 समझ लीजिए कि बहुत दिनों (सदा) के लिए नपट आया। सठ = मेरे
 ऐसे दुष्ट, पगले और मूर्ख को। मोपै = मुझसे। ठलि = ठेलनेसे। जव-
 दर्स्ती भेजने से। पठावन० = आपको तो केवल भेजने की ही बुन थी।
 जैसे हाथी जिस वस्तु को मुँह में भर लेता है, सूँड़ से उसे ठेलकर उदर
 में पहुँचाने की ही धुन में रहता है, उगल कर छुट्टा नहीं पा लेता।
 (३९८) आलै = आलय, घर। सलै = पीड़ा देता है। विरद = अंगी-
 कृत रीति, बना। बहौ० = अपने बाने की लज्जा का निर्वाह करो। दान-
 पति = दीनानाथ। भोसों० = मेरे सामने तो देखिए, सिर नीचा क्यों
 किए ले रहे हैं। उसास० = उद्वेग ने उसास भरी और 'हा हा ब्रज' कहने
 लगे, उनके नेत्रों में आँसू भर आये। (३९९) बारन० = गोपियों का सिखा
 पढ़ाकर लौटन में उसे देर न लगेगी, मुझे तो देर लगी। (४००) खरिक-
 = गायों के रहने का स्थान, गाशाला। जाहीं = जिसमें। नवाहीं =
 निर्वाह किया, सहा।

— हमारे साहित्यिक प्रकाशन —

आँख और कविगण

(संपादक—पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी)

हिन्दी साहित्य में आँख सम्बन्धी कविताओं का बृहत् संग्रह है। इसमें लेखक की ओज-भरी मधुर हृदय-द्रावक फड़फड़ाती हुई अनोखी टीका टिप्पणी के साथ प्राचीन और अर्वाचीन कृतिविद्य कवियों की कल्पनातीत—कविता का रसास्वादन कर आप तृप्त ही जायेंगे। हिन्दी साहित्य में यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी है। हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के प्राचीन तथा आधुनिक अनेक—सुप्रसिद्ध कवियों की नेत्र-संबन्धिनी कविताओं का यह संकलन बड़े परिश्रम के साथ किया गया है।

मूल्य ५)

रहीम रत्नावली

(संपादक—पं० मायाशंकर जी याज्ञिक)

रहीम की आज तक की प्राप्त कविताओं का अनोखा और सबसे बड़ा संग्रह है।

मूल्य २)

पद्माकर की काव्य साधना

(श्री अखौरी गंगा प्रसाद सिंह जी)

यह ग्रंथ हिन्दी के आलोचना साहित्य का अद्वितीय रत्न है। इसमें पद्माकर का जीवन वृत्तान्त उनके ग्रंथों का आलोचनात्मक

परिचय उनकी काव्य-साधना की मीमांसा और अन्त में उनकी सरस सूक्तियों का संग्रह दिया गया है। मूल्य २।)

तुलसी-सूक्ति-सुधा

(संपादक—श्री वियोगी हरि जी)

गोस्वामी तुलसीदास जी के समस्त ग्रन्थों की सूक्तियों का सार है। मूल्य ४)

अनुराग-वाटिका

(प्रणेता—श्री वियोगी हरि जी)

इस पुस्तिका में वियोगी हरि जी प्रणीत ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। कविता के एक-एक शब्द अमूल्य रत्न है। मूल्य १=)

भावना

(प्रणेता—श्री वियोगी हरि जी)

यह एक आध्यात्मिक गद्य-काव्य है। इसमें ५० गद्य-काव्य मुर्दे को जिलाने के लिये अमृत है। मूल्य ॥१)

तुलसी-चिकित्सा

(नवीन संस्करण)

तुलसी द्वारा अनेक रोगों से मुक्त होने के उपायों तथा औषधि का वर्णन किया गया है। पुस्तक मनुष्य मात्र के बड़े काम की है। मूल्य ॥१)

विनय-पत्रिका (सटीक)

(टिकाकार-श्री वियोगी हरि जी)

गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनय पत्रिका है। विनय के सदृश भक्ति ज्ञान का दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। इस टीका में शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ प्रसङ्ग, भावार्थ के नीचे टिप्पणी में अन्तर कथायें, अलंकार शंका समाधान, पद च्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं। कागज बहुत तेज होते हुये भी इस हरितोषिणी टीका का... मूल्य ६)

This book is sanctioned as a reference book for Hindi Teachers in High Schools of C. P. & Berar.

Vide order No. 6801 Dated 28-9-26.

विहारी-सतसई, सटीक

(टीका—स्व० ला० भगवानदीन जी)

हिन्दो-संसार में शृंगार रस की इसके जोड़ की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है। इसमें विहारी के प्रत्येक दोहे के नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, वचननिरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ञातव्य बातों का प्रभावित किया गया है। परिवर्द्धित संशोधि सचित्र संस्करण का मू० ३।)

287
This book is sanctioned as a reference book for Hindi Teachers in Hindi Schools of Central Province and Berar.

Vide order No. 6801, Dated 28-6-26.

